CMYK

तापमान
अधिकतम :36°C
न्यूनतम: 23°C

सेंसेक्स 82,330.59
निफ्टी 25,019.80

सोना 95,575
चांदी 97,000

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

देहरादून, शनिवार 17 मई 2025 देहरादून संस्करण: वर्ष 24 अंक 284 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

www.shahtimesnews.com

विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें। मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 5 विक्रमी सम्वत् 2082 18 ज़ीक़ादा 1446 हिजरी नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित

विदेश मंत्री जयशंकर ने पहली बार तालिबान सरकार से की बात

विस्तृत खबर देश-विदेश पर

मिचेल स्टार्क का आईपीएल के शेष मैचों में खेलने से इन्कार

विस्तृत खबर खेल टाइम्स पर

कोचीन हवाई अड्डे से 44.40 लाख की विदेशी मुद्रा जब्त

कोच्चि। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण अभियान में 15 मई की रात को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेशी मुद्रा की तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया। शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा गया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, सीमा शुल्क टीम ने फ्लाइट एसजी18 से दुबई जा रही एक महिला यात्री को रोका। उसके चेक-इन बैगेज की गहन जांच करने पर, अधिकारियों ने 2,00,000 सऊदी रियाल (500 एसएआर × 400 नोटों के मूल्यवर्ग में) बरामद किए, जो लगभग 44.40 लाख रुपये के बराबर है। विदेशी मुद्रा को चेक-इन बैगेज के भीतर एल्यूमीनियम पन्नी की परतों के अंदर चतुराई से छिपाया गया था। आगे की जांच जारी है। सीबीआईसी के मुख्य आयुक्त एसके रहमान के नेतृत्व में तिरुवनंतपुरम जोन के अधिकारियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया।

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बल तैनात रहेंगे: हाईकोर्ट

कोलकाता। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र बल अगले आदेश तक अशांत शमशेरगंज और धुलियान में तैनात रहेंगे और न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को और अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती करने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि अगर राज्य के पास पर्याप्त बल होते, तो हिंसा को टाला जा सकता था। न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य दोनों को शमशेरगंज और धुलियान में एक स्थायी सीमा सुरक्षा बल शिविर स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा, ताकि उन क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके जहां गत 11-12 अप्रैल को सांप्रदायिक दंगों में तीन लोगों की मौत हो गई थी तथा दुकानों और घरों में लूटपाट किया गया था। गुरुवार को आदेश जारी करने के बाद, न्यायाधीशों ने मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया और इसे मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगननम को भेज दिया, ताकि दूसरे खंडपीठ के लिए भेजा जा सके।

29 राज्यों में आंधी व बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। मौसम विभाग ने 29 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावानी है। बाकी जिलों में हीट वेव के आसार हैं। बिहार में पटना समेत 24 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है। 14 जिलों में बारिश की संभावना है। राजस्थान के 6 जिलों मेंअधिकतम तापमान 44.0 डिग्री के पार पहुंच गया। श्रीगंगानगर में सीजन का सबसे ज्यादा तापमान (45.8 डिग्री) दर्ज किया गया। राज्य के 11 जिलों में शनिवार को बारिश का अलर्ट है।

थरूर, ओवैसी, सलमान खुर्शीद व मनीष तिवारी समेत 30 सांसद कई मुल्कों में जाकर बताएंगे हकीकत

ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर है, दुनिया को दिखाएंगे पूरी पिक्चर

अहमदाबाद, वार्ता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को पहली बार गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। उधर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 या 23 मई से 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर भेज रही है।

जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वर्तमान सीजफायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है, बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया, एक कहावत मशहूर है- दिन में तारे दिखना। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। इससे पहले राजनाथ जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपका अभिनंदन करने आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने करिश्माई काम किया है। भारत का मस्तक आपने ऊंचा किया है। हमारे सैनिकों को नमन करता हूं। आप सबके बीच आकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। भुज 65 और -

शेष पृष्ठ दो पर

■ **बोले-ब्रह्मोस ने पाक को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाया, भुज में जवानों का बढ़ाया हौसला**

ऑपरेशन सिंदूर सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का प्रतीकः अमित शाह

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक है।

श्री शाह ने शुक्रवार को यहां नार्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेन्सी सेन्टर के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति, खुफिया एजेन्सियों की सटीक सूचना और तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक है। मल्टी एजेन्सी सेन्टर को देश में आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस सेंटर में खुफिया ब्यूरो, रिसर्च एनालाइसिस विंग, देश भर के पुलिस खुफिया विंग और अर्द्धसैनिक बलों की खुफिया इकाई एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करेंगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने छह मई की रात ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे।



पाक को बेनकाब करने में सरकार का साथ देगी कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि विभिन्न देशों को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की जानकारी देने के लिए सरकार अगर बहुदलीय सांसद प्रतिनिधिमंडल भेजती है, तो कांग्रेस इसमें शामिल होगी। कांग्रेस सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद बनी स्थिति और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर सरकार आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विभिन्न देशों की राजधानियों में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने पर विचार कर रही है। सरकार अगर यह कदम उठाती है, तो कांग्रेस के सांसद भी उसमें शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है।

शाह के बाद देवड़ा ने दिया बेहूदा बयान

जबलपुर, वार्ता

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद अब प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि पूरा देश, देश की सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। डिप्टी सीएम के इस बयान पर सियासी बवाल हो रहा है।

विपक्ष ने देवड़ा पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों को तबाह करने के लिए पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सेना भी प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। देवड़ा ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री जितनी तारीफ की जाए कम है। इस दौरान उन्होंने आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए उपस्थित लोगों से तालियां भी बजवाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवड़ा ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। पर्यटकों को उनके परिवार के सामने धर्म पूछकर गोली मारी गई। महिलाओं को अलग ले जाया गया और पुरुषों को उनके परिवार के सदस्यों, उनके बच्चों के सामने गोली मार दी गई। तभी हमने ठान लिया कि इस देश के लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों से बदला नहीं ले लेते।

कहाः पूरा देश, देश की सेना और सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक

हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण : प्रियंका

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर कहा कि भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उपमुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा कदम

रक्षा बजट में होगा 50 हजार करोड़ का इजाफा

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। पाकिस्तानके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपये बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के नवम्बर-दिसम्बर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि इस फंड से नए हथियार, गोला-बारूद और तकनीक खरीदी जाएंगी। साथ ही सेना की दूसरी जरूरतें, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च किया जाएगा। बढ़ोतरी के बाद रक्षा मंत्रालय का ओवरऑल बजट 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश किए गए 2025-26 के बजट में सशस्त्र बलों के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया था। इस साल रक्षा बजट पिछले साल की तुलना में करीब 9.5 प्रतिशत ज्यादा है। केंद्र ने 2024-25 में सशस्त्र बलों के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपये दिए थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के पहले बजट 2014-15 में रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच रक्षा बजट में बढ़ोतरी को लेकर रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को अहम माना जा रहा है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में हमला किया था। इस दौरान भारत ने अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत बॉर्डर पार किए बिना पाकिस्तान के भीतर जाकर नौ आतंकवादी कैंपों को नष्ट कर दिया।

■ **आधुनिक हथियारों और तकनीक पर होगा फोकस**

राहुल के खिलाफ प्राथमिकी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर प्राथमिकी दर्ज करने के विरोध में यहां बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि बिहार में सरकार नहीं तानाशाही चल रही है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां संगठन के कार्यालय पांच रायसीना रोड के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए जंतर-मंतर की तरफ जा रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग तथा भारी पुलिस बल की तैनाती ने प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग पर ही उन्हें रोक दिया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि देश में सामाजिक न्याय आकर रहेगा।

वक्फ कानून के खिलाफ नई याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई से इन्कार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि हर कोई अखबार में नाम चाहता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तय किया कि वह लंबित मामलों की सुनवाई 20 मई को करेगी। शुक्रवार को अदालत में जब याचिकाएं सुनवाई के लिए आईं, तो केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं का अंत नहीं हो रहा है। ऐसे याचिकाएं दायर नहीं की जा सकती। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने 8 अप्रैल को याचिका दायर की थी।

■ **कहाः हर कोई अखबार में नाम चाहता है**

इस्कॉन-बेंगलुरु राधा कृष्ण मंदिर का वैध मालिकः शीर्ष कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक फैसला पलटते हुए इस्कॉन) सोसाइटी बेंगलुरु को दक्षिण भारत के इस शहर के हरे कृष्ण हिल पर स्थित इस्कॉन मंदिर का वैध मालिक घोषित कर दिया। पीठ ने इस्कॉन-बेंगलुरु की कानूनी और प्रशासनिक स्वायत्तता की पुष्टि करते हुए कहा कि सोसाइटी श्री राधा कृष्ण मंदिर की वैध मालिक है।

जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन भारती को मिली जान से मारने की धमकी

रामपुर (ब्यूरो)। श्री पंचदस नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहन्त मोहन भारती को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी भरा मैसेज मिलने पर हड़कंप मच गया है। श्रद्धालुओं में भी मैसेज के प्रति उबाल है। जूना अखाड़े के अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंप जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। थाना मिलक खानम स्थित पीपली वन में बने माता बाल सुंदरी के मंदिर के महंत और श्री पंचदस नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मोहन भारती को गुरुवार को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज मिला है। जिसमें कहा कि बाबा मोहन भारती जूना अखाड़े का अध्यक्ष क्या बना है। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। मोहन भारती सुरक्षा को लेकर शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में शुक्रवार शाम लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के धौला कुआं और फरीदाबाद में शुक्रवार दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। फरीदाबाद में तेज आंधी और बारिश से सड़कों पर पेड़ टूट गए हैं। वहीं दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। नोएडा और गाजियाबाद के आसमान में बादल छाए रहे और हल्की हवाएं चलती रही। इससे पहले दिल्ली के आरके पुरम इलाके में मौसम सुहाना हो गया। जिससे बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली- एनसीआर के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा हल्की आंधी और बिजली गरजन की संभावना है।

भगोड़े नीरव मोदी पर कसा शिकंजा

पीएनबी से 14500 करोड़ के फ्रॉड का है आरोप

लंदन। पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की गई है। लंदन की किंग्स बेंच डिवीजन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे खारिज किया। भारत की ओर से सीबीआई के वकील ने नीरव की दलीलों का विरोध किया था। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से लोन लेकर करीब 14 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घोटाला सामने आने के बाद वह जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गया था। नीरव को साउथ-वेस्ट लंदन से 19 मार्च, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। तभी से वो वहां की जेल में है। भारत में नीरव के खिलाफ धोखाधड़ी के तीन केस हैं। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ धोखाधड़ी का सीबीआई मामला। दूसरा, पीएनबी मामले मनी लॉन्ड्रिंग का केस और तीसरा सीबीआई की कार्रवाई में सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ का मामला है। फरवरी 2021 में ब्रिटेन की वेस्टमिन्सटर कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने भी नीरव मोदी को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी।

बड़गाम में आतंकियों के तीन मददगार गिरफ्तार

नई दिल्ली। कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों के तीन मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करते थे। ये लोग इलाके में टेरर एक्टिविटीज में शामिल थे और युवाओं को आतंकवाद की तरफ मोड़ते थे। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन दिनों में हुए दो एनकाउंटर में छह आतंकवादी ढेर किए गए। सेना-पुलिस ने शुक्रवार को ज्वॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। त्राल और शोपियां में 2 एनकाउंटर में आतंकी मारे गए। एक ऑपरेशन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुआ, एक आूपरेशन गांव में हुआ। सुरक्षाबलों ने सावधानी से दोनों जगह टेररिस्ट को मारा। सेना ने कहा कि सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का कोआर्डिनेशन अच्छा था।

भारतीय कारोबारियों ने तोड़ा तुर्की व अजरबैजान से रिश्ता

नई दिल्ली, वार्ता

खुदरा कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से आए 125 से अधिक प्रमुख कारोबारी लीडरों ने तुर्की और अजरबैजान के साथ सभी तरह के व्यापारिक और व्यावसायिक संबंधों को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया है।

कैट के शुक्रवार को दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यापारियों ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि अब भारत का व्यापारी समुदाय तुर्की और अजरबैजान के साथ सभी तरह के व्यापारिक और व्यावसायिक संबंधों को पूरी तरह से खत्म करेगा। इसमें यात्रा, पर्यटन और फिल्मों की शूटिंग भी शामिल है। कारोबारी लीडरों ने भारतीय फिल्म उद्योग से अपील की है कि वे इन देशों में शूटिंग न करें और यदि कोई फिल्म वहां शूट होती है, तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। इसी तरह किसी भी कॉरपोरेट हाउस को भी इन देशों में अपने विज्ञापन या प्रचार की शूटिंग करने से रोका जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हाल ही में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में खुलेआम समर्थन जताया। वहीं, इस समय भारत एक संवेदनशील सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। व्यापारियों का मानना है कि यह भारत की दोस्ती और मदद का अपमान है, खासकर तब जब भारत ने इन देशों को संकट के समय मानवीय और कूटनीतिक सहयोग दिया था। कैट के महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सम्मेलन में कहा कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत की मदद लेकर अब पाकिस्तान जैसे आतंकवाद समर्थक देश का साथ दिया है। यह भारत की संप्रभुता और जनता की भावनाओं का अपमान है।

आईआईटी रुड़की ने इनोनू विवि के साथ एमओयू को किया रद्द

देहरादून। देश के अग्रणी संस्थानों में शुमार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ मौजूदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) को रद्द कर दिया है। विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। मीडिया सेल की प्रभारी श्रीमती सोनिका श्रीवास्तव की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार आईआईटी रुड़की अपने अतंर्राष्ट्रीय जुड़ाव को राष्ट्रीय हित के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने भी समझौता ज्ञापन रद्द किए

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों का अनुसरण करते हुए निजि विश्वविद्यालय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) ने भी तुर्की और अजरबैजान के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों को रद्द कर दिया है। एलपीयू की ओर से बताया गया कि इन दोनों देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का सहयोग किया था।

मुंबई हवाई अड्डे ने तुर्की की कंपनी से समझौता किया समाप्त

मुंबई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) ने तुर्की की विमानन कंपनी सेलेबी के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है। क्योंकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कहा कि सेलेबी को निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाओं को तुरंत सौंपने का निर्देश दिया गया है।

उत्तराखंड में धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का होगा गठन

शाह टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद गठन किए जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। ये निर्णय शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया है।

तीर्थाटन इस क्षेत्र की एक प्रमुख पर्यटन विद्या रही है, जिसमें चारधाम यात्रा, नन्दादेवी राजजात यात्रा एवं आदि कैलाश यात्रा आदि कुछ प्रमुख धार्मिक यात्राएं हैं। वर्तमान समय में बेहतर परिवहन व्यवस्था, सड़क, रेल एवं वायु सेवा की सुलभता के कारण इन यात्राओं - मेलों में तीर्थयात्रियों- श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख धार्मिक यात्राओं, मेलों के उचित प्रबन्धन हेतु एक पृथक नियंत्रण एवं प्रबन्धन इकाई की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए धार्मिक यात्राओं एवं मेलों के लिए निम्न उद्देश्यों सहित उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद् का गठन किए जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया । इसके तहत धार्मिक यात्राओं एवं मेलों के लिए समुचित प्रबन्धन एवं संचालन किया जाएगा।

■ **चारधाम यात्रा, महत्वपूर्ण मेलों आदि के सुव्यवस्थित संचालन का उद्देश्य**

संक्षिप्त समाचार

बहराइच दरगाह जेठ मेले पर रोक में नहीं मिली राहत

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से बहराइच में दरगाह शरीफ के लगने वाले जेठ मेले पर रोक मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद भी याचियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 19 मई को नियत की है। याचियों की ओर से कहा गया कि जेठ मेला 18 मई से शुरू हो रहा है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई की जाए। इसके मद्देनजर कोर्ट ने मामले की अर्जेंट सुनवाई की अर्जी मुख्य न्यायमूर्ति को देने की याचियों को अनुमति दी है। न्यायधीश एआर मसूदी और न्यायधीश अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रथम की खंडपीठ के समक्ष बहराइच की दरगाह शरीफ प्रबंध समिति की ओर से इसके चेयरमैन समेत छह छह लोगों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने याचिका का विरोध किया। जबकि याचियों की ओर से उनके अधिवक्ता डा. एलपी मिश्र ने मेला आयोजन की अनुमति देने की दलीलें दीं।

हमारी सेना जाति और धर्म से ऊपर: पाठक

लखनऊ। सपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए बयान पर अब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से स्पष्टीकरण मांगा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा जातिगत उन्माद फैलाना चाहती है। दलित समाज की बेटी को जाति सूचक शब्द से पुकारना कहां तक उचित है? अखिलेश यादव का इस विषय पर अब तक बयान नहीं आया है। उन्हें अपना और पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस विषय पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे और जनता से माफी मांगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने सपा नेता रामगोपाल यादव के विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए जाति सूचक बयान की आलोचना की है। राम गोपाल यादव का बयान शर्मनाक है। हमारी सेना जाति और धर्म से ऊपर है और सिर्फ भारतीय है। सेना को जाति और धर्म से जोड़कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे बयान मनोबल गिराने वाले होते हैं, इससे बचना चाहिए।

लेजर लैंड लेवलर मशीन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी

लखनऊ। अब यूपी के किसान अपने खेतों को समतल कर कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लेजर लैंड लेवलर मशीन पर 50 प्रतिशत तक या अधिकतम दो लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस मशीन से खेत इस तरह समतल होंगे जैसे फुटबाल का मैदान। इससे फसल की सिंचाई में पानी की बचत, उपज में बढ़ोतरी और लागत में कमी जैसे कई फायदे होंगे। खेत का पानी खेत में, यह कहावत अब केवल कहावत नहीं रहेगी, बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से इसे जमीन पर उतारा जा सकेगा। खेत समतल होने से सिंचाई का पानी हर हिस्से में बराबर बहेगा, जिससे नमी पूरे खेत में समान बनी रहेगी। इससे बीज अच्छी तरह जमेंगे और फसल एकसाथ पकेगी। सरकार की ओर से बताया गया है कि इस मशीन में जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है।

मीडिया की आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए घातक

नई दिल्ली, वार्ता

गुजरात समाचार के संस्थापक को गिरफ्तार किया: खड़गे

अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं, तो लोकतंत्र खतरे में : राहुल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा बताते हैं और दूसरी तरफ सरकार के कार्यों की आलोचना करने वाले अखबार पर डंडा चलाकर लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने करीब सौ साल पुराने अखबार गुजरात समाचार के संस्थापक को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर साबित कर दिया है कि मोदी आलोचना करने वालों की आवाज दबाने में संकोच नहीं करते हैं। यह मीडिया की आजादी तथा लोकतंत्र की आवाज दबाने की साजिश है। श्री खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था– आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। गुजरात समाचार एक 93 वर्ष पुरानी संस्था है, जिसके वरिष्ठ संस्थापक बाहुबली भाई शाह जी को प्रवर्तन निदेशालय से गिरफ्तार करवाकर मोदी ने सिद्ध किया है, आलोचकों को गिरफ्तार करना एक डरे हुए तानाशाह का पहला संकेत है। जिसने भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और जिसने भाजपा से समझौता नहीं किया, उसको जेल जाना पड़ेगा। गांधी ने कहा कि गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साज़िश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं, तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है।

सेना, सैनिकों को अपमानित करने वाले मप्र के दोनों मंत्री हों बर्खास्त: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा तथा मंत्री विजय शाह ने बहादुरी से देश की रक्षा करने वाली सेना तथा सेना के जवानों को अपमानित करने वाले बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने दोनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देवड़ा तथा शाह ने भारतीय सेना तथा सैनिकों का अपमान करने वाले बयान दिए हैं, इसलिए इन दोनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। हमारी सेना के लिए पूरे देश में हर व्यक्ति के मन में सम्मान है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि सेना की वजह से ही हम सुरक्षित रह पाते हैं। सेना के लिए मप्र के उप मुख्यमंत्री के मन में ऐसी दुर्भावना और गंदे विचार हैं, उसका किसी पद पर रहने का कोई हक नहीं है। इस बार माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। भाजपा मूक–दर्शक बनी नहीं रहेगी और मोदी छिपे नहीं रह सकते। अगर अगले कुछ घंटों में भाजपा जगदीश देवड़ा को बर्खास्त नहीं करती है, तो ये मान लिया जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन–सहमति और संरक्षण है।

दरगाह जोगीपुरा की सालाना मजलिसें

डा. मिर्जा शफीक हुसैन चौथी बार बनाए गए मजलिसों के कॉर्डिनेटर

जिया अब्बास जैदी, शाह टाइम्स

■ 22 मई से शुरू होकर 25 तक चलेंगी मजलिसें

लखनऊ। दरगाह जोगीपुरा की चार दिवसीय सालाना मजलिस के लिए मौलाना डा. मिर्जा शफीक हुसैन (शफक) को कॉर्डिनेटर बनाया गया है। चार दिवसीय मजलिस में हिन्दुस्तान के मशहूर व मारूफ 60 उलेमाओं को आमंत्रित किया गया है, जो अपनी तकरीर में अलग–अलग मौजुओं पर तकरीर करेंगे।

इस संबंध में मौलाना डा. मिर्जा शफीक ने 'शाह टाइम्स' को जानकारी देते हुए बताया कि दरगाह–ए–आलिया नजफ–ए–हिन्द जोगीपुरा की मजालिसें 122 वर्ष से लगातार होती चली आ रही हैं। उन्होंने बताया कि ये अकीदत का मरकज़ है। 351 साल से ज्यादा हो गए, ये दरगाह यहां मौजूद है। दरगाह में दुनियाभर के विभिन्न समुदाय के लोग यहां शिरकत करने के साथ–साथ मन्नत व मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। चार दिवसीय मजलिस 22 मई से शुरू होकर 25 मई 2025 तक होंगी। उन्होंने बताया कि मजलिसों का सिलसिला रोजाना सुबह से शुरू होकर रात तक चलेगा। उन्होंने बताया कि शिया धर्मगुरु मौलाना सैय्यद कल्बे जव्वाद व शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन अली ज़ैदी की ओर से उन्हें पिछले साल की तरह इस बार भी लगातार चौथी बार मजलिसों का कॉर्डिनेटर बनाया गया है।

वर्तमान में दरगाह जोगीपुरा के प्रशासक गुलरेज हैदर रिज़्वी की ओर से जायरीनों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासक गुलरेज हैदर के वालिद जहीर हैदर भी दरगाह जोगीपुरा के सेक्रेट्री रह चुके हैं। डा. मिर्ज़ा शफीक ने बताया कि 24 मई की रात्रि मौला अली की शान में मुशायरे का भी आयोजन किया जाएगा।

सपा ने किया था मायावती का चीरहरण: सूर्य प्रताप

लखनऊ, वार्ता

■ राम गोपाल यादव के बयान पर योगी के मंत्री का पलटवार

यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शुक्रवार को अपने निजी आवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को ध्वस्त किए जाने की बात कही थी। उन्होंने सेना को खुली छूट दी, जिसकी वजह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लगभग एक दर्जन आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया और 7 से 8 हवाई अड्डों को सामूहिक रूप से नुकसान पहुंचाया। यह अपने भारत के सैन्य ताकत को प्रदर्शित करता है। सेना के तीनों अंगों को मैं सलाम करता हूं, बधाई देता हूं।

सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के सेना अधिकारी पर विवादित बयान पर कृषि मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा जाति और सांप्रदायिक एंगल से हर चीजों को देखा है। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो कठिनाइयां पैदा हो रही है, उसके भीतर ही कांग्रेस का ही गढ़ है। कांग्रेस की वजह से नासूर की तरह देश हमारा 72 वर्षों से भुगत रहा है और अभी भी वह इसके बारे में सचेत नहीं है। देश के भीतर अनावश्यक टिप्पणियां करके सेना के लोगों के हौसले पर सवाल खड़ा करते हैं। उनको जाति के अंतर्गत बांटने का काम करते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उनके नाक के नीचे तो मायावती जी का चीर हरण किया जा रहा था, उस समय क्या कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोगो ने एक अनुसूचित नेता जो प्रदेश की मान्य नेता है, को चीर हरण के लिए कैसा प्रयास किया था, ये सारी दुनिया ने देखा था।

जल जीवन मिशन : योजना की गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री सख्त

183 अफसरों-कर्मियों पर की गई कार्रवाई

शाह टाइम्स ब्यूरो

■ 122 अधिकारियों पर जांच बैठाई, 55 पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई छह को निलंबित कर दिया गया है: सीएम

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है।

सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक 183 अफसरों–कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें से 122 अधिकारियों पर जांच बैठाई गई है और 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 6 को निलंबित कर दिया गया है। अधिकृत सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिशन के अंतर्गत कार्यों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के आधार पर दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक कार्रवाई अधिशासी अभियंताओं पर की गई है। अभी तक कुल 7 मुख्य अभियंताओं पर अनुशासनिक जांच बैठाई गई, जबकि 4 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इसके अलावा 5 अधीक्षण अभियंताओं पर जांच और 7 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। 59 अधिशासी अभियंताओं पर जांच बैठाई गई है, तो 44 को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर 4 को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही 32 सहायक अभियंताओं पर जांच बैठाकर 2 का निलंबन किया गया है। वहीं 19 अवर अभियंताओं की अनुशासनिक जांच की गई है। इस तरह लापरवाही बरतने वाले कुल 122 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक जांच, 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई और 06 का निलंबन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी के कुशल नेतृत्व में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने जल जीवन मिशन के तहत सबसे अधिक नल कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर घर तक समय पर और गुणवत्ता युक्त शुद्ध पेयजल पहुंचे। इस दिशा में राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

बरेली समेत पांच शहरों में स्थापित होंगी नई अत्याधुनिक माइक्रोबायलॉजी लैब

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब लखनऊ और मेरठ के बाद वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, बरेली और अलीगढ़ जैसे प्रमुख जिलों में भी माइक्रोबायलॉजी लैब स्थापित की जा रही हैं। यह लैब्स न केवल खाद्य और औषधि पदार्थों की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच के लिए उपयोगी होंगी, बल्कि इससे जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में भी त्वरित और सटीक कार्रवाई संभव हो सकेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रेखासिंह चौहान ने बताया कि वाराणसी में लैब का कार्य पूरा हो चुका है और 31 मई से संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह पूर्वांचल के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि अब इस क्षेत्र के नागरिकों को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और सूक्ष्म पैथोजन्स से जुड़ी जांच के लिए दूसरे शहरों या राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कानपुर, मिर्जापुर, बरेली और अलीगढ़ में भी ऐसी ही अत्याधुनिक माइक्रोबायलॉजी लैब की स्थापना हेतु एफएसएसएआई द्वारा बजट स्वीकृत कर दिया गया है।

श्रमिक और उद्योगपति एक-दूसरे के पूरक

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि श्रमिक और उद्योगपति एक–दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक प्रगति तभी संभव है, जब श्रम कानूनों को प्रो–इंडस्ट्री और प्रो–श्रमिक दोनों दृष्टियों से संतुलित बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रम कानूनों का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए जिससे उद्योगों को सुविधा मिले, लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि श्रमिकों के शोषण या उनके साथ अमानवीय व्यवहार की कोई संभावना न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाथ को काम देने के लिए हमें उद्योगों को सशक्त करना होगा। उद्योग बंद कर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता, बल्कि उद्योगों का विस्तार ही अधिकाधिक रोजगार सृजन का माध्यम है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों और उनके परिवारों को सुरक्षा मिले, इसके लिए उन्हें सम्मानजनक मानदेय और बीमा सुरक्षा कवच देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा श्रमिक–हितैषी और उद्योग समर्थ राज्य बनकर उभरे। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों को केवल आजीविका से नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से जोड़ते हुए उनके पुनर्वासन की दिशा में तीव्र गति से कार्य किया जाए। भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देने का दायित्व भी है। मुख्यमंत्री ने श्रमिक अड्डों को मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए, जहां डोरमेट्री, शौचालय, पेयजल, कैंटीन और ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध हों।

अर्थ व्यापार

बिकवाली से गिरा शेयर बाजार

मुंबई, वार्ता



एशियाई बाजारों की गिरावट के दबाव में स्थानीय स्तर पर भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, एसबीआई और इंफोसिस समेत चौदह दिग्गज कंपनियों में हुई बिकवाली से शेयर बाजार पिछले लगातार दो दिनों की तेजी के बाद आज गिरकर बंद हुआ।

बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 200.15 अंक का गोता लगाकर 82,330.59 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 42.30 अंक टूटकर 25019.80 अंक पर आ गया। हालांकि बीएसई की दिग्गज कंपनियों के मुकाबले मझौली और छोटी कंपनियों के शेयरों में लिवाली हुई, जिससे मिडकैप 0.85 प्रतिशत उछलकर 45,005.84 अंक और स्मॉलकैप 1.18 प्रतिशत की छलांग लगाकर 51,045.74 अंक पर पहुंच गया। इस दौरान बीएसई में कुल 4126 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2607 में लिवाली जबकि 1380 में बिकवाली हुई, वहीं 139 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह एनएसई की कुल 2971 कंपनियों में से 1969 में तेजी जबकि 911 में गिरावट रही वहीं 91 में टिकाव रहा। विश्लेषकों के अनुसार शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण भारती एयरटेल, एसबीआई और आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के शेयरों में कमजोरी रहा। इन शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव बना। वहीं इस गिरावट के बावजूद बाजार को अमेरिका के साथ जारी व्यापार वार्ता से कुछ सहारा मिलने की उम्मीद है। बीएसई के सात समूहों में गिरावट जबकि अन्य में बढ़त रही। वैश्विक स्तर पर मिलाजुला रुख रहा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 138 अंक की गिरावट लेकर 82,392.63 अंक पर खुला लेकिन लिवाली होने से थोड़ी देर बाद ही 82,514.81 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह दोपहर से पहले 82,146.95 अंक के निचले स्तर तक लुढ़क गया। अंत में पिछले दिवस केके मुकाबले 0.24 प्रतिशत टूटकर 82,330.59 अंक पर बंद हुआ।

अर्थ व्यापार

इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट शुरू

नई दिल्ली। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट का शुभारम्भ किया। राजधानी में उद्योग भवन में मंत्रालय के कार्यालय में आयोजित समारोह में इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्रालय का कहना है कि नई वेबसाइट को इसके संचालन में पारदर्शिता, पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नई वेबसाइट में एक आधुनिक और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफ़ेस है, जिससे वेबसाइट का इस्तेमाल करना और वहां से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना सहज हो जाता है। इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक और इस्पात मंत्रालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अर्थ व्यापार

उठाव सुस्त, जिंसों में बना रहा टिकाव

नई दिल्ली, वार्ता

विदेशी बाजारों की जारी गिरावट के बीच स्थानीय स्तर पर उठाव सुस्त रहने से आज दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेल समेत सभी जिंसों में टिकाव रहा।

तेल–तिलहन: वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का जून वायदा 35 रिंगिट गिरकर 3837 रिंगिट प्रति टन पर आ गया। इसी तरह जून का अमेरिकी सोया तेल वायदा 1.16 सेंट गिरावट लेकर 48.16 सेंट प्रति पौंड बोला गया। इस दौरान घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में टिकाव रहा। सरसों तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल, सोया रिफाइंड, पाम ऑयल और वनस्पति तेल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। गुड़–चीनी: मीठे के बाजार में स्थिरता रही। इस दौरान चीनी और गुड़ के भाव पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर टीके रहे। दाल–दलहन : दाल–दलहन के बाजार में टिकाव रहा। इस दौरान चना, दाल चना, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और अरहर दाल में कोई बदलाव नहीं हुआ।

अनाज : अनाज मंडी में भाव स्थिर रहे। इस दौरान गेहूं और चावल के दाम पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर पड़े रहे। सरकारी वेबसाइट पर जारी खाद्यान्नों के थोक दाम इस प्रकार रहे :- दाल–दलहन : चना 6100–6200, दाल चना 7100–7200, मसूर काली 7650–7750, मूंग दाल 9850–9950, उड़द दाल 9250–9350, अरहर दाल 8500–8600 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अनाज : (भाव प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2950–3050 रुपये और चावल 3550–3650 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चीनी–गुड़: चीनी एस. 4280–4380, चीनी एम. 4500–4600, मिल डिलीवरी 3620–3720 और गुड़ 4400–4500 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। खाद्य तेल: सरसों तेल 15751 रुपये, मूंगफली तेल 18314 रुपये, सूरजमुखी तेल 16484 रुपये, सोया रिफाइंड 14725 रुपये, पाम ऑयल 13919 रुपये और वनस्पति तेल 16116 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

ऑपरेशन सिंदूर....

71 की जंग में हमारी जीत का साक्षी रहा है और आज भी यह ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का साक्षी है। राजनाथ ने कहा कि आपके पराक्रम ने दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, जो श्रृंगार का नहीं शौर्य का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है, जो भारत ने आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। इस लड़ाई में सरकार और सभी नागरिक एकजुट थे। राजनाथ ने कहा कि अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं, बल्कि ये नेशनल डिफेंस का हिस्सा बन चुकी है। हम इसे जड़ से खत्म करेंगे।

राजनाथ ने कहा कि इस ऑपरेशन में आपने जो किया है, सभी हिंदुस्तानी उससे गौरवान्वित हैं। भारतीय सेना के लिए 23 मिनट काफी थे पाकिस्तान की सरजमीं पर पल रहे आतंकवाद के अजगर को कुचलने के लिए। जितनी देर में लोग नाश्ता–पानी करते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आपने पाकिस्तान के भीतर मिसाइलें गिराई हैं, उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। राजनाथ ने कहा कि कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी एक बिलियन डॉलर के फंड पर पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से परहेज करे। उधर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 या 23 मई से 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर भेज रही है। ये सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। हालांकि, कुछ नेताओं ने बताया है कि सांसदों की संख्या 30 से ज्यादा हो सकती है। इनमें भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, जदयू, डीएमके, छसीपी–एसपी, बीजद, सीपीआई–एम के सांसदों के शामिल होने की संभावना है। भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद अपराजिता सारंगी डेलीगेशन का हिस्सा होंगी। कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह शामिल होंगे। एनसीपी–एसपी की सुप्रिया सुले और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी सामने आया है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) सांसदों को डिप्लोमेटिक मिशन के लिए रवाना होने से पहले जानकारी देगा। एक पार्टी के नेता ने अपना नाम उजागर न करते हुए बताया कि उन्हें 22–23 मई तक 10 दिनों के लिए रवाना होने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय यात्रा से जुड़े डिटेल्स शेयर करने के लिए उनसे संपर्क करेगा। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि डेलीगेशन में 5–6 सांसदों के 8 ग्रुप्स होंगे। सांसदों के साथ विदेश मंत्रालय (एमईए) का एक अधिकारी और एक सरकारी प्रतिनिधि भी जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सांसदों का विदेश दौरा कोआर्डिनेट कर रहे हैं। सांसदों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। उन्हें अपना पासपोर्ट और ट्रैवल से जुड़ी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने की सलाह दी गई है।

कश्मीर में सुरक्षाबलों की नई रणनीति रही सफल

■ दो कमांडरों समेत छह स्थानीय आतंकवादियों को मार गिराने में मदद मिली

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी रणनीति में बदलाव किया है, जिसके कारण उन्हें 48 घंटे में दक्षिण कश्मीर में दो कमांडरों समेत छह स्थानीय आतंकवादियों को मार गिराने में मदद मिली। इस बीच मंगलवार से अब तक दक्षिण कश्मीर के शोपियां और अवंतीपोरा में दो अलग–अलग मुठभेड़ों में लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद के तीन–तीन आतंकवादी मारे जा चुके हैं।

पुलिस, सेना और केन्द्रीय रिजर्व सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) की संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में आज यहां अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों अभियानों की सफलता सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच 'सहज समन्वय' के कारण है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विधि कुमार बिरदी ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले ने मौजूदा सुरक्षा रणनीति की व्यापक समीक्षा को प्रेरित किया है। प्रेस ब्रीलफ्ग में सेना के 'विक्टर फोर्स' के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) मेजर जनरल धनंजय जोशी और सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक मितेश जैन भी मौजूद थे। बिरधी ने आगे कहा कि कश्मीर घाटी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर यहां तैनात सभी सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीतियों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद ऑपरेशन पर अधिक ध्यान दिया गया। इस गहनचितन और समन्वय के आधार पर हमने पिछले 48 घंटों में दो सफल ऑपरेशन किए जिसके दौरान हमें महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली। दोनों ऑपरेशनों में छह आतंकवादियों को मार गिराया गया है। बिरधी ने कहा कि शोपियां और त्राल अवंतोपोरा में एक–एक ऑपरेशन सीआरपीएफ, भारतीय सेना और जम्मू–कश्मीर पुलिस के बीच सहज समन्वय के कारण संभव हुआ। उन्होंने इन आपरेशनों में खुफिया एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। इस बीच जैन ने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियां यहां आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र या किसी भी आतंकी गतिविधि को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जनरल जोशी ने आपेरशन के बारे में और जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन 'नादर' त्राल और केलर शोपियां पर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों द्वारा कुछ खास इलाकों को लक्षित करके किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों ऑपरेशन अलग–अलग इलाकों में किए गए थे, एक शोपियां के घने जंगलों में और दूसरा पुलवामा जिले के त्राल के आबादी वाले गांव में।

शाह टाइम्स क्लासीफाईड्स Sale

स्त्री के सामने लज्जित होने से बेहतर है
आज ही इलाज करा लेना खोई हुई मर्दाना ताकत दोबारा प्राप्त करने के लिए आज ही मिलें या फोन करें।
काजीजादा, अमरोहा–UP
हाशमी दवाखाना
9997161320, 8272800800

काम कोर्स उदास क्यों?
अधिक संतुष्टि, हैरतअंगेज पावर, शीघ्रपतन, नपुंसकता, बचपन की गलतियों से हमेशा के लिए छुटकारा।
फोन कर घर बैठे औषधियां डाक द्वारा प्राप्त करें।
ऋषि इन्टरनेशनल
08899787114
09808917010

Cipzer
— HEALTH WITH CARE —
हैल्थ प्लस सिरप
खून की कमी, भूख ना लगना, विटामिन व हार्मोन्स की कमी, शारीरिक दुर्बलता, गर्भवती महिला, दूध का कम बनना, लीवर व पेट की समस्याओं में उपयोगी
प्रमुख मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध।
86 8434 5757 info@cipzer.com

वैधानिक सूचना
पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार में प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें तथा उचित सलाह ले लें। कोई भी अभिदाता जो इस अखबार में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संदर्भ में कोई राशि भेजता है, किसी चिकित्सीय सलाह पर कोई कार्यवाही या खर्च करता है या कोई वचन देता है, तो ऐसा वह स्वविवेक, बुद्धि तथा जोखिम पर करेंगे। कम्पनी, प्रकाशक या उसका कोई कर्मचारी विज्ञापनदाता या उसके किसी उत्पाद या सेवा हेतु किये गये किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन नहीं देते तथा ऐसे विज्ञापनों विश्वास करके किसी व्यक्ति को हुई क्षति, हानि परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए 19 निर्णय

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के अभिनंदन का प्रस्ताव पारित

■ सचिव शैलेश बगोली, बीवीआरसी पुरुषोत्तम एवं चंद्रेश कुमार ने की ब्रीफिंग

शाह टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्रालय का अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया है। मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और रणनीतिक कौशल की सफलता को दर्शाता है, यह सैन्य अभियान भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मबल का उदाहरण बनकर उभरा है। मंत्रिपरिषद द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो भारत की सैन्य गौरवगाथा में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होगा। कैबिनेट के इस अभिनंदन प्रस्ताव को केन्द्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि उत्तराखण्ड राज्य की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया जा सके।

यूपीसीएल में मैकेंजी इंडिया के सुझावों पर कार्य योजना को मंजूरी

शाह टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय और परिचालन स्थिति में सुधार करने के लिए एक विस्तृत परिवर्तन योजना तैयार की गई है। इस योजना को शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का उद्देश्य वितरण और ट्रांसमिशन नुकसान को कम करना, बिजली खरीद लागत को अनुकूलित करना और पूंजी निवेश के माध्यम से कंपनी के प्रदर्शन को मजबूत करना है।

यह परिवर्तन योजना यू.पी.सी.एल. की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी और इसे एक कुशल और लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित करेगी। इस योजना के चार प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहले यू.पी.सी.एल. की वित्तीय स्थिति को स्थिर और मजबूत करना है, जो इसके लगभग 5,000 करोड़ रूपये के बकाया को कम करने और पिछले छह वर्षों में हुए लगातार घाटे को समाप्त करने पर केन्द्रित है।

दूसरा उद्देश्य वित्तरण और ट्रांसमिशन नुकसान को कम करना है, जो वर्तमान में हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे क्षेत्रों में उच्चतर स्तर पर है। इसमें ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन से हानियों में कमी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

तीसरा उपभोक्ताओं को बेहतर बनाना है, ताकि उपभोक्ता, संतोष में वृद्धि और संग्रह दक्षता में सुधार हो सके। अंत में हरित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना, जिससे लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा समाधान प्राप्त हो सके। ये सभी उद्देश्य यू.पी.सी.एल. को उनके ऊर्जा क्षेत्र का एक विश्वसनीय और कुशल स्तंभ बनाने में सहायक होंगे।

तपोवन-कुंजापुरी रोपवे परियोजना के लिए कंपनी का चयन

देहरादून। राज्य की भौगोलिक परिस्थिति एवं पर्यटकों की निरंतर संख्या वृद्धि तथा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रोप-वे परियोजनाओं का शीघ्र निर्माण किया जाना आवश्यक है। मूल उपकरण निर्माता फर्म बार्थोलेट राज्य के तकनीकी परामर्शदाता के रूप में एमओयू के तहत स्वयं के खर्च पर तकनीकी आर्थिक अध्ययन कर डी.पी.आर. तैयार करेगा। अत: राज्य में चिन्हित रोप-वे परियोजनाओं में से फर्म बार्थोलेट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तपोवन से कुंजापुरी रोप-वे परियोजना हेतु राज्य सरकार के तकनीकी परामर्शदाता के रूप में एमओयू निष्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। पर्यटकों की संख्या वृद्धि एवं राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत आवागमन को सुगम सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाये जाने के लिए राज्य में विभिन्न स्थलों पर रोपवे विकसित किये जा रहे हैं। पर्यटन विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य में चिन्हित सभी रोपवे परियोजनाओं को विकसित किये जाने के दृष्टिगत एनएचएलएमएल को प्रमोटर के रूप में अधिकृत किया है।

धामी कैबिनेट के अन्य फैसले

मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली-2013 में संशोधन

मुख्यमंत्री राहत कोष जिसका वित्त पोषण दान के रूप में प्राप्त धनराशि से किया जाता है, में प्राप्त धनराशि जिसका तात्कालिक उपयोग न हो. को प्रतिस्पर्धी सौदे सुनिश्चित करते हुए कैपेबल फिक्स डिपॉजिट के रूप में विनियोजित कर अधिकतम ब्याज प्राप्त किया जा सके। इस निर्णय को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

राजस्व सेवा (कर) (संशोधन) नियमावली, 2025 प्रख्यापन को मंजूरी

विभागीय पुनर्गठन के दृष्टिगत राज्य कर विभाग, उत्तराखंड के अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के सरल निस्तारण हेतु वर्तमान में प्रचलित उत्तराखंड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 के कतिपय नियमों में संशोधनों के उपरान्त उत्तराखंड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025 को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

उत्तराखंड किशोर न्याय निधि नियमावली 2024 के तहत किशोर न्याय निधि के संचालन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने एवं किशोर न्याय निधि में उपलब्ध बजट का उपयोग कैसे किया जायेगा तथा अन्य निजी या गैर सरकारी संस्था तथा जिन जिन स्तरों से निधि में अनुदान प्राप्त होगा उसके उपयोग के सम्बन्ध में दिशा- निर्देश निर्गत किये जाने हेतु नियमावली गठन किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सड़क पर रहने वाले बच्चा (स्ट्रीट चिल्डेन) के पुर्नवास के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं अन्य विभागों के सहयोग से मॉडल नीति / पुर्नवास नीति अर्थात् स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी बनाई जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। योजना का मुख्य उद्देश्य एकल (निराश्रित) / परित्यक्ता / विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान / गाँव / क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करना, व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है।

गाड़ियों के पंजीकरण पर ग्रीन सेस में वृद्धि का निर्णय

देहरादून। उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम के अधीन मोटर यान पर ग्रीन सेस की निर्धारित दरों में वृद्धि के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम एवं नियमावली, 2003 के अन्तर्गत वर्तमान में प्रवेश उपकर तथा ग्रीन सेस की दरों को सम्मिलित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत एवं राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्य के व्यावसायिक एवं निजी वाहनों हेतु ग्रीन सेस की दरें निर्धारित की गयी हैं। प्रवेश उपकर की दरें वर्ष 2017 में निर्धारित की गयी थी, जिसके पश्चात उक्त दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। वर्ष 2017 से मुद्रास्फीति में लगभग 28-30 प्रतिशत की वृद्धि होने के दृष्टिगत दरों में वृद्धि की गयी है, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। राज्य में अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा प्रवेश करने पर ग्रीन उपकर की वसूली फास्टैग के माध्यम से की जायेगी।

लेखपत्रों के निबंधन की प्रक्रिया में वर्चुअल रजिस्ट्रेशन को मंजूरी

कैबिनेट ने लेखपत्रों के निबंधन को लेकर भी निर्णय लिया है। व्यवस्था को तकनीकी रूप से उन्नत करते हुए लेखपत्रों के निबंधन की प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से सुधार किया जा रहा है। तकनीकी उन्नयन के अंतर्गत पेपरलेस रजिस्ट्रेशन तथा आधार ऑथेंटिकेशन एवं वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त व्यवस्था को अपनाये जाने हेतु संशोधन नियमावली को दी गई मंजूरी। उक्त प्रक्रिया के अस्तित्व में आने के पश्चात पक्षकार अपने ही स्थान से लेखपत्र को तैयार कर आनलाइन लिंक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे एवं स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर पायेंगे। पक्षकार उप निबंधक कार्यालय में उपस्थित होकर - वीडियो के.वाई.सी. के माध्यम से सत्यापन कर एवं विलेख में वर्णित तथ्यों का परीक्षण करने के उपरांत विलेखों के पंजीकरण की कार्यवाही को ई-साइन के माध्यम से पूर्ण करेंगे तत्पश्चात व्हाट्सएप व ईमेल के माध्यम से तत्काल पक्षकार को दस्तावेज का प्रेषण किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये की धनराशि स्वीकृत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में तवाघाट-थानीधार मोटर मार्ग में डामरीकरण हेतु 3.44 करोड़, जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में सौंग-खलीचार हल्का वाहन मार्ग में सीमेंट कंक्रीट द्वारा सुधारीकरण के कार्य के लिए 4.15 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल में भीड़ापानी खुजेटी मोटर मार्ग के कि०मी० 1 से 5 तक मार्ग का सुधारीकरण कार्य के लिए 3.27 करोड़, जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र में पंगोट से देचौरी मोटर मार्ग का नवनिर्माण के लिए 8.19 करोड़ की धनराशि के साथ ही जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र में सूखीढांग-श्यामलाताल मोटर मार्ग का सिंगल लेन से टू लेन में परिवर्तन कार्य हेतु 4.01 लाख की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में दीपनगर एवं केदारपुरम को जोड़ने वाले हरे पुल के स्थान पर सेतु के निर्माण के लिए 3.56 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

गो-सदनों का निर्माण करेगी जिलाधिकारी की कमेटी

शाह टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में छोटे-बड़े 19 फैसले लिए गये हैं। बैठक के बाद सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम, सचिव शैलेश बगौली एवं सचिव चंद्रेश कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफिंग की। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि निराश्रित गोवंश हेतु गौ सदनों के निर्माण एवं उनके भरण-पोषण हेतु नीति के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है कि निराश्रित गोवंश हेतु गौ सदनों / गोशालाओं की स्थापना / सुविधा संबंधी निर्माण कार्य सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत करवाया जायेगा। इस हेतु एकीकृत बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संबंधित मानक मद में की जायेगी। इसी प्रकार वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत उक्त गौ सदनों में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मदो में करते हुए उसे सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। निराश्रित गोवंश को भरण पोषण हेतु दिये जाने वाले अनुदान एवं उनके लिये निर्मित होने वाले गोशालाओं के लिए बजट आवंटन हेतु पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। इस हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मानक मदों में की जायेगी। नगर निकायों द्वारा संचालित कांजी हाउस के संचालन एवं उससे सम्बन्धित व्यय के संबंध में पशुपालन विभाग का दायित्व मात्र निराश्रित गोवंश के चिकित्सकीय उपचार तक सीमित होगा तथा कांजी हाउस का संचालन पूर्व की भांति नगर निकायों द्वारा ही किया जायेगा।

एक करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति को जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। 5 करोड़ तक के सभी आगणनों / प्रस्तावों की जिला स्तरीय टीएसी द्वारा अनिवार्य रूप से जॉच की जायेगी। 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

■ एक करोड़ तक डीएम व 5 करोड़ तक शासन देगा मंजूरी, निराश्रित गोवंश के भरण पोषण के लिए पशुपालन देगा खर्च

सुगम व सुरक्षित चारधाम यात्रा ने स्थापित किए नए मानक: कुर्वे

प्रमुख संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। पवित्र उत्तराखंड चारधाम यात्रा, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं, 30 अप्रैल 2025 को शुरू हुई। उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय लागू किए हैं। यात्रा के पहले कुछ सप्ताहों में धामों पर तीर्थयात्रियों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। 14 मई तक चारधाम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 7,17,803 थी, जिसमें केदारनाथ पर 291060, बद्रीनाथ पर 1,60,885, गंगोत्री पर 1,26,079 और यमुनोत्री पर 1,39,789 शामिल हैं।

सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने पुन: यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और क्षेत्रीय अधिकारियों को तीर्थयात्रियों के लिए बिना किसी परेशानी के यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवास मालिकों, परिवहनकर्ताओं और पुजारी समुदाय जैसे सभी हितधारकों के साथ उचित संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दिए ताकि यात्रियों के लिए एक यादगार अनुभव बनाया जा सके।

केदारनाथ में 17 बेड की सुविधा और बद्रीनाथ में 45 बेड का अस्पताल। इसके अतिरिक्त, यात्रा मार्गों पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 20 मेडिकल राहत पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए हैं ताकि विशेष रूप से ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर निगरानी रखी जा सके और मदद प्रदान की जा सके। साथ ही, 154 एम्बुलेंस, जिनमें 17 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट यूनिट्स शामिल हैं, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय हैं। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, जिन्हें एम्स ऋषिकेश संचालित करता है, भी तेजी से मेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं।

झूठे प्रचार से रहें सावधान

सचिन कुर्वे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कुछ कुप्रवृत्त लोग यात्रा के अस्थायी बंद होने की गलत खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने तीर्थयात्रियों को ऐसी वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे समाचारों से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यात्रा और अन्य संबंधित सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और उत्तराखंड सरकार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय कर रही है। सभी पंजीकृत तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल नंबर पर मौसम की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से नियमित रूप से भेजी जा रही है।

जरूरतमंद महिलाओं को सशक्त करेगी एकल महिला स्वरोजगार योजना : रेखा आर्या

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में स्वीकृत की गई प्रोजेक्ट राशि का 75 फीसदी हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया है। रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 200000 तक के प्रोजेक्ट स्वीकार किए जाएंगे जिसमें से 75 फीसदी हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में रहेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25 फीसदी हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि

पहले साल इस योजना के तहत काम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, पहले साल इसकी प्रगति को देखते हुए योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की पहले से कई योजनाएं विद्यमान है लेकिन विशेष रूप से एकल महिलाओं को केंद्रित सहायता योजना अभी तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस कैटेगरी की महिलाओं को सशक्त किए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है इसलिए एकल महिलाओं के लिए विशेष योजना तैयार की गई है।

तिरंगा शौर्य यात्रा पर कांग्रेस की आपत्ति विशुद्ध राजनीति से प्रेरित: भट्ट

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून । भाजपा ने तिरंगा शौर्य यात्रा पर कांग्रेस की आपत्तियों को विशुद्ध राजनीति करार दिया है। प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने चार धाम यात्रियों की संख्या को लेकर भी कांग्रेसी रुख पर तंज किया कि शुरुआत में अधिक यात्री आने से इन्हें परेशानी थी और सीमा की परिस्थितियों के चलते घटी संख्या पर भी दिक्कत हो रही है। जबकि इसके बाद फिर से यात्रियों की संख्या अब रिकॉर्ड छूने लगी हैं। लिहाजा कांग्रेस की यात्रा प्रभावित करने की ये कोशिशें इस वर्ष भी सफल नहीं होने वाली है।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जबाब देते हुए, उन्होंने कहा कि कल तक देश के मुद्दों पर साथ खड़े होने का वादा करने वाली कांग्रेस को अब तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा से दिक्कत हो रही है। जबकि

यह यात्रा तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक बैनर के तले विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित की जा रही है।

भाजपा इसमें सहयोगी की भूमिका में है, ताकि अधिक से अधिक लोग सेना एवं नेतृत्व को सम्मान देने और साथ खड़े होने का संदेश दे सके। हमारी कोशिश है कि राज्य के प्रत्येक परिवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उमड़े राष्ट्रभक्ति के ज्वार से जोड़ा जाए।

उन्होंने अफसोस जताया कि कांग्रेस को इस यात्रा में राजनीति दिखाई देती है। जबकि स्वयं इन्होंने अपने पार्टी के बैनर पर तिरंगा यात्रा निकाली, वो भी तब जब सीमा पर हमारे जवान दुश्मन को कड़ा जवाब दे रहे थे। लेकिन उस समय भी भाजपा ने उनकी कोशिशों का स्वागत किया था, जबकि वो पूरी तरह राजनैतिक यात्रा थी। लेकिन अब भारतीय सेनाओं के शौर्य से मिली सफलता पर, देश ऐसी यात्राओं से जीत का जश्न मना रहा है तो कांग्रेस को ये सब राजनैतिक लग रहा है। दरअसल सच्चाई यह है कि कांग्रेस को सेना और देश के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। उनके नेता तब भी राजनीति कर रहे थे जब स्वयं तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और आज भी राज्य में जारी यात्रा का विरोध कर विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं।

उन्होंने यात्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस के सवालों को उनकी दोगली राजनीति करार दिया है।

यूपीईएस ने बढ़ाया अनुभवात्मक शिक्षा के एक नए युग की ओर कदम

प्रमुख संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। अनुभवात्मक शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, आज यूपीईएस के स्कूल ऑफ बिजनेस ने इन्सिआड एक्सआर के सहयोग से एक अनोखा और अत्याधुनिक इमर्सिव एक्सआर सिमुलेशन सत्र आयोजित किया। इन्सिआड एक्सआर विश्व स्तर पर इमर्सिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में अग्रणी संस्थान माना जाता है। इस पहल के साथ, यूपीईएस भारत के उन पहले संस्थानों में शामिल हो गया है, जिसने मैनेजमेंट शिक्षा में एक्सटेंडेड रियलिटी (एक्सआर) को अपने एमबीए पाठ्यक्रम में शामिल किया है।

पायलट सत्र में दो अत्याधुनिक एक्सआर सिमुलेशन शामिल थे दृ द अवोकाडो केस, जो रणनीतिक निर्णय-निर्माण पर केंद्रित था, और मिशन टू मार्स, जिसका उद्देश्य आलोचनात्मक सोच और टीम सहयोग को बेहतर बनाना था। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर, छात्र इमर्सिव और प्रभावशाली परिवेशों में पहुंच गए कृ कहीं वे जांजीबार के धूप से चमकते समुद्र तटों पर रणनीति बना रहे थे, तो कहीं मंगल अभियान के कमांड सेंटर्स में महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे थे। इन सिमुलेशन्स ने छात्रों को एक अनोखा अवसर प्रदान किया जिसमें वे बहु-इंद्रियात्मक वातावरण में जटिल व्यवसायिक परिस्थितियों के साथ सीधे रूप से जुड़ सके, जो वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों के बहुत करीब था। यह पहल छात्रों के बीच बहुत उत्साह के साथ देखी गई, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जाना कि कैसे इमर्सिव टेक्नोलॉजी पारंपरिक शिक्षा से परे जाकर उनके कौशल को निखार सकती है। इन्सिआड एक्सआर द्वारा संचालित यह सत्र केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक संपूर्ण अनुभव प्रदान करता है, जिसमें छात्र व्यावहारिक निर्णय लेने की क्षमताओं को एक सुरक्षित लेकिन चुनौतीपूर्ण वातावरण में विकसित करते हैं। इस पहल के बारे में बात करते हुए, यूपीईएस स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन, राहुल नैनवाल ने कहा, "यूपीईएस में हमारा निरंतर प्रयास है कि हम छात्रों को उन्नत और अनुभव आधारित शिक्षण विधियों के माध्यम से प्रासंगिक और भविष्य-केंद्रित कौशल प्रदान करें। इन्सिआड एक्सआर के साथ यह सहयोग उसी दिशा में एक मजबूत कदम है कृ जिससे कक्षा में इमर्सिव टेक्नोलॉजी लाकर हम अपने एमबीए छात्रों को आज के जटिल और तेजी से बदलते कारोबारी माहौल के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हैं।

■ इन्सिआड एक्सआर के साथ मिलकर एमबीए छात्रों के लिए इमर्सिव लर्निंग की शुरुआत की

चारधाम यात्रा और मानसून सीजन के दृष्टिगत 108 कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार 108 आपातकालीन सेवा उत्तराखण्ड कर्मियों का वर्तमान में संचालित चार धाम यात्रा और आगामी मानसूनी सीजन को दृष्टिगत रखते हुए 'ट्रामा केयर' प्रशिक्षण दिया गया। किसी भी आपातकालीन स्थिति में मुख्य रुप से दुर्घटना के केसों में एम्बुलेंस कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मुख्य प्रशिक्षक डा प्रसून माहेश्वरी (वरिष्ठ हड्डी रोग विषेशज्ञ), सह प्रशिक्षक डा प्रशांत चौधरी (आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी) एवं यशपाल सिंह ने प्रशिक्षित किया । आन लाइन माध्यम से सभी जनपदों के ईएमटी प्रशिक्षण से जुड़े हुए थे। प्रशिक्षण में डा प्रसून माहेश्वरी द्वारा सभी 108 आपातकालीन कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हुए विभिन्न दुर्घटना संबंधी चोटों एवं उनके प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी प्रदान की गयी, जिससे और अधिक कुशलता से उपचार देना सुनिश्चित हो सके एवं लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाऐं प्राप्त हो सकें। डा प्रशांत चौधरी ने प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान की। यशपाल सिंह द्वारा दुर्घटना के समय बरती जाने वाली सावधानियों एवं दुर्घटनाग्रस्त मरीज के सुरक्षित परिवहन के विषय में जानकारी प्रदान की गयी।

सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्था समय-समय देती है ट्रेनिंग: शर्मा

देहरादून।कैंप 108 आपातकालीन सेवा के महाप्रबंधक- प्रोजेक्टस, अनिल शर्मा ने बताया कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्था समय- समय पर अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करती रहती हैं। आज का प्रशिक्षण भी बहुत ही लाभप्रद रहा ,जिसमें कर्मियों द्वारा विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थिति एवं दुर्घटनाओं से संबंधित सवाल-जवाब भी किये गये। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को बहुत ही लाभप्रद बताया ।

वित्त आयोग के दौरे को लेकर मुख्य सचिव ने की समीक्षा

शाह टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। 16वें वित्त आयोग के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में बैठक ली। मुख्य सचिव ने वित्त आयोग के उत्तराखंड दौरे के सम्पूर्ण कार्यक्रम, बैठकों एवं अन्य तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि वित्त आयोग के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की समुचित व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार सम्पर्क अधिकारियों एवं अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। आयोग द्वारा देहरादून एवं नैनीताल में हितधारकों के साथ की जाने वाली विभिन्न प्रस्तावित बैठकों एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि की उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर सहित सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

डोबरा-चांठी पुल बना पर्यटकों का नया आकर्षण केन्द्र

शाह टाइम्स संवाददाता

नई टिहरी। टिहरी झील पर बना डोबरा-चांठी सस्पेंशन ब्रिज अब न केवल उत्तराखंड का इंजीनियरिंग चमत्कार बन चुका है, बल्कि यह चारधाम यात्रा से लौटते श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से लौटने वाले यात्री जब इस भव्य पुल पर पहुंचते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम को देखकर ठहरने को मजबूर हो जाते हैं।

सायंकाल के समय पुल पर मल्टीकलर लाइटिंग शो की जगमगाहट इसे और भी खास बना देती है। दिल्ली के इंडिया गेट और सिग्नेचर ब्रिज की तरह टिहरी का यह पुल भी रात में रंग-बिरंगी रोशनी से ऐसा चमकता है कि उसकी खूबसूरती दूर-दूर तक नजर आती है। नई टिहरी और प्रतापनगर से भी पुल की रोशनी को निहारा जा सकता है, जिससे लोगों को एक नया पर्यटन अनुभव प्राप्त होता है। 2020 में जनता को समर्पित यह पुल 725 मीटर लंबा और समुद्र तल से लगभग 850 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह पुल न केवल नई टिहरी और प्रतापनगर के बीच की दूरी कम करता है, बल्कि अब यह टिहरी झील पर्यटन क्षेत्र के प्रमुख स्थलों में शामिल हो गया है। चारधाम यात्रा से लौट रहे महाराष्ट्र निवासी संग्राम सिंह ने बताया कि उन्होंने पहले धामों के दर्शन किए और अब टिहरी डैम व डोबरा-चांठी पुल की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी झील के शांत वातावरण और पुल की आकर्षक रोशनी ने इस यात्रा को यादगार बना दिया है।

■ रंग-बिरंगी रोशनी और प्राकृतिक सौंदर्य ने बढ़ाई टिहरी की चमक, ब्रिज पर दूल्हे का फोटोशूट बना सोशल मीडिया पर आकर्षण का केंद्र

स्थानीय पर्यटक आशीष का कहना है कि जब से यह पुल बना है, तब से हर दिन पर्यटक यहां तस्वीरें और वीडियो शूट करने आते हैं। खासकर युवा वर्ग इस ब्रिज को सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहा है, जिससे क्षेत्र को नई पहचान मिल रही है। इस बीच पुल पर एक खास नजारा तब देखने को मिला जब ऋषभ खत्री नामक दूल्हे ने अपनी शादी की बारात के दौरान ब्रिज पर पहुंचकर परिवार के साथ फोटोशूट करवाया। ऋषभ ने बताया कि वह इस पुल पर फिल्मी गाने की थीम पर एक रेल बनाकर शूट कर रहे थे,।

ताकि यह पल जीवन भर के लिए एक खूबसूरत याद बन जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अनोखे फोटोशूट से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी लाइक्स और व्यूज मिलेंगे, क्योंकि डोबरा-चांठी पुल खुद एक आकर्षण है जिसे लोग इंटरनेट पर खूब सर्च करते हैं। डोबरा-चांठी पुल अब सिर्फ एक आवागमन का साधन नहीं, बल्कि टिहरी जनपद की नई पहचान और पर्यटन की नई दिशा बन चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में धनोल्टी और सुरकंडा में 'हरित योग' कार्यक्रम आयोजित

शाह टाइम्स संवाददाता

नई टिहरी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले जिले में हरित योग कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। इस क्रम में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग और जिला आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इको पार्क समिति धनोल्टी के सहयोग से धनोल्टी इको पार्क और सुरकंडा देवी मंदिर प्रांगण में व्यापक स्तर पर योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। उन्होंने योग की वैश्विक स्वीकार्यता पर बल देते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद से जब भारत की पहल पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक मान्यता मिली, तब से पूरी दुनिया ने योग की ताकत को महसूस किया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हर घर तक योग पहुंचे और समाज का हर वर्ग योग को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करे।

कार्यक्रम में योग अनुदेशकों द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को विभिन्न योग आसनों, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास कराए गए। साथ ही यह भी बताया गया कि योग मान. सिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाता है। योग तनाव प्रबंधन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर को लचीला बनाने में बेहद कारगर है।

जिला आयुर्वेद अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि हरित योग कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पर्यटक स्थलों पर योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग योग के प्रति जागरूक हों और इसे अपनी जीवनशैली में शामिल करें।

इस मौके पर नोडल अधिकारी डॉ. दिनेश जोशी, लक्षिता बधानी, डॉ. हरीश भट्ट, तहसीलदार निशांत कांबोज, इको पार्क समिति सचिव मनोज उनियाल, कुलदीप नेगी, सुरकंडा मंदिर समिति अध्यक्ष जितेंद्र नेगी, पूजारी रमेश लेखवार, सुशील, पूरन सिंह डंडेला, नीरज बेलवाल, सुरजीत चौहान, आशुतोष डबराल, चतर सिंह चौहान, अमित नेगी, धीरज उनियाल, सोनू गौड़, विजय सिंह, सुरेश बेलवाल, पंकज पंवार, प्रदीप बेलवाल, धीरज बेलवाल सहित अनेक स्थानीय लोग और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे।

यूजी में मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का उठा मुद्दा

शाह टाइम्स संवाददाता

श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि की सत्र 2025-26 प्रवेश समिति की बैठक (शुक्रवार) को विवि की कुलपति प्रो. एमएमएस रौथाण की अध्यक्षता में आहुत की गई। बैठक में सत्र 2025-26 के लिए विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की मैपिंग को केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी-यूजी) और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (यूईटी-2025) के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई। यह मैपिंग आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू और समन्वित बनाने के उद्देश्य से की गई है।

वर्चुअल माध्यम से आहुत की गई बैठक में सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुल्क संरचना में आवश्यक सूक्ष्म संशोधन करते हुए उसे अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया। बैठक में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों (1-वर्षीय एवं 2-वर्षीय) के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों की प्रवेश क्षमता को भी अनुमोदन प्रदान किया गया। पीएचडी प्रवेश (सत्र 2025-26) की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी ताकि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र भी आवेदन कर सकें। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की मैपिंग को पूर्व वर्ष की प्रवेश पुस्तिका के आधार पर तैयार किए जाने को लेकर समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। यह मैपिंग विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (यूईटी) के अंतर्गत प्रवेश के लिए प्रयुक्त होगी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की आरंभ तिथि को लेकर भी चर्चा हुई, जिसे परीक्षाओं के पुनर्निर्धारण को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा। बैठक में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के अंतर्गत शैक्षणिक अध्यादेशों के प्रारूप को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया, जो आगे विद्या परिषद में प्रस्तुत किए जाएंगे। बैठक के दौरान बिरला परिसर छात्रसंघ अध्यक्ष जसवंत सिंह ने श्रीनगर में सीयूईटी परीक्षा केंद्र न बनाएं जाने के कारण छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए गढ़वाल विवि में स्नातक स्तर पर भी मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने का सुझाव दिया। उन्होने स्नातकोत्तर प्रवेश अधिसूचना जल्द जारी करने का अनुरोध किया। इस मौके पर गढ़वाल विवि के कुलपति प्रो. एमएमएस रौथाण ने आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों की समस्याओं से पूर्णत: अवगत है और इस विषय में संबंधित प्राधिकरणों को एनटीए के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। मौक पर प्रवेश समिति के सदस्य सचिव प्रो. ओपी गुसाईं ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मौके पर प्रो. यूसी गैरोला, प्रो. अभय बौराई, प्रो. आरएस नेगी, एनईपी समन्वयक प्रो. प्रशांत कंडारी, प्रवेश परीक्षा समन्वयक डॉ. प्रीतम सिंह नेगी के साथ ही बाह्य विशेषज्ञ प्रो. केकेएन शर्मा, डॉ. हरि सिंह गौर सहित आदि शामिल हुए।

भाजपा मंत्री विजय शाह का किया पुतला दहन

कोटद्वार । महानगर कांग्रेस एवं जिला यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा महिला सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति की गई कथित अपमान. जनक टिप्पणी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है।

कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस क्रम में शुक्रवार को कोटद्वार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडाचौक पर प्रदर्शन करते हुए मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, देश की बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भाजपा मंत्री विजय शाह मुर्दाबाद आदि नारे लगाते हुए मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को देश की एकता और बेटियों के सम्मान पर हमला बताया। कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे जांबाज सैनिक देश का गौरव हैं, जिनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एक नजर.....

रिखणीखाल में आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविर में मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित

कोटद्वार । आगामी 19 मई 2025 को विकासखण्ड रिखणीखाल में आयोजित बहुदेश्य शिविर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान द्वारा सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे उपजिलाधिकारी लैंसडौन के समन्वय से चयनित स्थल पर अपने विभागीय स्टॉल लगवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी को निर्देशित किया गया है कि वे बहुउद्देश्यीय शिविर स्थल पर चिकित्सा शिविर लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि दिव्यांगता प्रमाणपत्र मौके पर ही जारी किये जा सके। विभागीय स्टॉलों की स्थापना हेतु जिलाधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक डीआरडीए को इस बहुउद्देश्यीय शिविर, प्रदर्शनी के स्टॉल हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

आनंद प्रकाश घिल्डियाल बने राइका झंडीचौड़ के पीटीए अध्यक्ष

कोटद्वार । नगर निगम के अंतर्गत राइका झंडीचौड़ में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए अध्यापक-अभिभावक संघ का गठन कर लिया गया है। जिसमें आनंद प्रकाश घिल्डियाल को लगातार पांचवीं बार संघ का अध्यक्ष चुना गया। इस संबध में विद्यालय में आयोजित गोष्ठी में अध्यक्ष के अलावा विजेंद्र सिंह नेगी को उपाध्यक्ष व टीकाराम को कोषाध्यक्ष चुना गया, वहीं अरूण कुमार को एसएमसी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही बीना देवी, कुसुम, सुशील, अनीता देवी, आनंद सिंह, संतन सिंह व वेदप्रकाश को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया।

त्रिदिवसीय बलूनी कप का हुआ शुभारंभ

कोटद्वार । बलूनी पब्लिक स्कूल की ओर से त्रिदिवसीय बलूनी कप अंतर-विद्यालयी फुटबॉल के तीसरे संस्करण की प्रतियोगिता आरंभ हो गई है। क्षेत्र एवं बाहरी क्षेत्र की 22 टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वर्तमान अध्यक्ष गढ़वाल कप अरुण भट्ट, दर्शन भंडारी एवं सुनील रावत व बलूनी क्लासेज के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। टूर्नामेंट का पहला मैच बलूनी स्कूल ए और सिद्धबली पब्लिक स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें बलूनी ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-0 से जीत दर्ज की। टीम की इस जीत में सचिन और अधिराज ने 2-2 गोल करके महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं दूसरे मुकाबले में डैफोडिल पब्लिक स्कूल ने ज्ञान भारती को 2-0, तीसरे मैच में बलूनी स्कूल बी ने नवयुग पब्लिक स्कूल को 1-0 और चौथे मैच में कान्वेंट स्कूल ने हैप्पी होम स्कूल को 2-0 से हराया।

गणवेश मूल्यांकन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन

कोटद्वार । नगर निगम कोटद्वार के जानकीनगर स्थित रितेश शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की प्रथम शैक्षणिक गतिविधि गणवेश मूल्यांकन का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुकरेती द्वारा छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता निमित दिशा निर्देश देने के साथ किया गया। प्रतियोगिता के अंतर्गत कक्षा छह से धनिष्ठा पटेल, काव्यांश, अवनी, कक्षा सात से रुद्रांश, आरव वर्मा, आयुषी बडोला, कक्षा आठ से रेयांश, कुनाल एवं राधिका, कक्षा नौ अ से पूजा सिंह, आस्था एवं अपर्णा, आरुषि सैनी एवं साक्षी कनोरिया, कक्षा नौ ब से अनन्या ध्यानी, साक्षी गुसाईं, खुशी भट्ट, कक्षा दस, अ से विभूति, सोनाक्षी, शिवानी एवं मानसी, कक्षा दस ब से सार्थक, सूरज एवं अभिनव, कक्षा ग्यारह अ से श्रुति, सौरभ, आदर्श, ग्यारह ब से कुमकुम, प्रीशा, अदिति अमवाल एवं प्रियांशी, ग्यारह स से प्रियंका, निहारिका एवं आयुषी, बारह अ से जसप्रीत, अनुष्का, राजित, बारह ब से छवि, अर्चना, अदिति ध्यानी एवं बारह स से पूर्णिमा, राशि व आयुष बिष्ट क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। सब जूनियर वर्ग में रेयांश नेगी प्रथम, धनिष्ठा पटेल द्वितीय एवं रुद्रांश जदली तृतीय, जूनियर वर्ग में पूजा सिंह प्रथम, विभूति गौड़ द्वितीय, आस्था एवं अभिनव संयुक्त रूप से तृतीय, सीनियर वर्ग में प्रियंका अग्रवाल प्रथम, निहारिका बिष्ट एवं अदिति ध्यानी द्वितीय और अर्चना गुप्ता तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर विद्यालय के उपप्रधानाचार्य अनिल कोटनाला, राहुल भाटिया, भूपेंद्र सिंह, मोहन सिंह, चंद्रप्रकाश, सुबोध ध्यानी और संगीता रावत सहित सभी आचार्य मौजूद रहे।

टीएस पुंडीर अध्यक्ष व सुरेंद्र चंद नौटियाल बने महासचिव

शाह टाइम्स संवाददाता

उत्तरकाशी: उद्यान तकनीकी संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन में जनपद की नवीन कार्यकारिणी का गठन हो गया है। संघ के अध्यक्ष टी.एस.पुंडीर व महामंत्री सुरेश चंद्र नौटियाल चुने गए। वहीं संगठन के जिला कार्यकारिणी में महिला उपाध्यक्ष श्रीमती चौना रावत, उपाध्यक्ष यमुना घाटी अतोल सिंह चौहान, उपाध्यक्ष गंगा घाटी मदन रुडियाल कोषाध्यक्ष प्रदीप सिंह बिष्ट चुने गए। अधिवेशन में मुख्य अतिथि पालिका चेयरमैन भूपेंद्र सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि मुख्य उद्यान अधिकारी, अजय रावत अध्यक्ष उतरांचल पर्वतीय कर्मचारी संघ, जय प्रकाश बिजल्वाण अध्यक्ष एनओपीएस, भूपेंद्र बिष्ट महामंत्री, पूर्व अध्यक्ष गोपाल सिंह राणा मौजूद रहे।

टिहरी बार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी की पहली मासिक बैठक सम्पन्न

शाह टाइम्स संवाददाता

नई टिहरी। जिला बार एसोसिएशन टिहरी गढ़वाल की नवीन कार्यकारिणी की प्रथम मासिक बैठक शुक्रवार को जिला बार सभागार में आयोजित की गई।

बैठक का संचालन अधिवक्ता अनिल शर्मा ने किया, जबकि महासि. चव चंद्रभान राणा ने बैठक का एजेंडा पढ़कर सुनाया और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की।

बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। एक माह के भीतर चेंबर हॉल निर्माण हेतु जिलाधिकारी से एस्टीमेट तैयार करवाने, बार की पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, सभी न्यायालयों में अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करने और क्लाइंट्स के लिए अधिक सुगम कार्य प्रणाली विकसित करने जैसे प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इस दौरान बार एसोसिएशन में महाव. ीर प्रसाद भट्ट और प्रकाश जरदारी को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

दोनों अधिवक्ताओं का एसोसिएशन की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। बैठक में लाइब्रेरी के आधुनिकीकरण और रजिस्ट्रार कार्यालय को कोर्ट परिसर में स्थानांतरित करने जैसे कई दीर्घकालिक महत्व के विषयों पर भी गंभीर चर्चा हुई। अधिवक्ताओं ने एकमत से इन प्रयासों को गति देने और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने की बात कही।

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं महावीर उनियाल, जयवीर रावत, शांति प्रसाद भट्ट, आनंद सिंह बेलवाल, वीरेन्द्र कठैत, पीसी चंद सहित अनेक सदस्यों ने अपने विचार साझा किए और संगठन को और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने के सुझाव दिए।

इस अवसर पर दिनेश सेमवाल, राज. ेंद्र असवाल, मतिंदर बहुगुणा, बेनी माधव, राजेंद्र सिंह सजवान, दिनेश उनियाल, कविता भट्ट, विनय सेमवाल, राजेंद्र उनियाल, सोहन सिंह रावत, कन्हैया डोभाल, आनंद सेमल्टी, सोहन सिंह बिष्ट, महावीर सिंह नेगी, अरविंद नेगी, चंद्र सिंह गोसाई, अरविंद उनियाल, हरपाल सिंह रौतेला, जगजीत सिंह नेगी, उम्मेद सिंह रावत, संजय घिल्डियाल, रतनपाल चौधरी, नरेन्द्र सिंह नेगी, अरविंद खरोला, प्रेम सिंह बिष्ट, प्रेम सिंह, विनीता, नीरज, बीना सजवान, केआर मिश्रा, गोपाल मखमलोगा, गोपाल राणा, विक्रम सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई और सभी सदस्यों ने संगठन की सक्रियता और भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया।

बदरीनाथ धाम में प्लास्टिक कचरे को नगर पंचायत ने बनाया आय का साधन

शाह टाइम्स संवाददाता

गोपेश्वर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चार धाम यात्रा का संचालन हरित चार धाम यात्रा की थीम पर किया जा रहा है। जिसे लेकर चार धाम यात्रा मार्ग पर स्वच्छता के साथ ही धामों में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लेकर नगर पालिका और पंचायतों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर पंचायत बदरीनाथ की ओर से बदरीनाथ धाम में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए विपणन की व्यवस्था बनाई गई है। जिससे नगर पंचायत को आय मिलने लगी है।

नगर पंचायत बदरीनाथ के अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित ने बताया कि धाम में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए जहां क्यूआर कोड़ व्यवस्था लागू की गई है। वहीं इसके निस्तारण के लिए नगर पंचायत की ओर से विपणन की व्यवस्था बनाई गई है। यहां धाम से एकत्रित किए जा रहे प्लास्टिक कचरे को ब्लॉक बनाकर विपणन किया जा रहा है। ऐसे में इस वर्ष यात्रा शुरु होने से अभी तक 7 दिनों में नगर पंचायत की ओर से 4.2 टन अजैविक कचरे का विपणन कर किया गया है। जिससे नगर पंचायत बदरीनाथ ने 50 हजार 116 रुपए की आय अर्जित की है। उन्होंने बताया कि धाम में वर्ष 2022 से एमआरएफ सेंटर का संचालन किया जा रहा है। जहां धाम से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग कर कम्पोस्टिंग और कॉम्पेकटिंग कर निस्तारित किया जाता है। कहा कि कचरे के सेग्रिगेशन के लिए यहां 1 सुपरवाइजर के साथ 12 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई है।

कोई गौ और नंदी निराश्रित न रहे: पंडित अणथवालेर

नई टिहरी। जिला मुख्यालय में शुक्रवार को उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अणथवाल और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की उपस्थिति में गौ आश्रय अनुश्रवण समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में निराश्रित गौवंश, गौसदनों की स्थिति, निर्माणाधीन परियोजनाओं और पशु कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक के दौरान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष अणथवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टिहरी को एक मॉडल जनपद के रूप में विकसित किया जाए, जहां एक भी गौवंश निराश्रित न रहे।

श्रीनगर की डा. अनुराधा का चयन आईआईएएस शिमला के लिए

शाह टाइम्स संवाददाता

श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि की पूर्व छात्रा और श्रीनगर निवासी डॉ. अनुराधा रतूड़ी का भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) शिमला में राष्ट्रीय अध्येता के रूप में चयन हुआ है। डा. रतूड़ी के चयन पर परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। दिवंगत हिन्दी प्रवक्ता डॉ. सर्वेश्वर प्रसाद रतूड़ी एवं कान्ता रतूड़ी की सुपुत्री डॉ. अनुराधा ने सांगीतिक एवं अकादमिक क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। ध्रुपद शैली की शास्त्रीय गायिका एवं विदुषी अनुराधा ने वर्ष 2012 में गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।

उसके बाद वर्ष 2018 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय से यूजीसी एसआरएफ के साथ गायन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डा. रतूड़ी पिछले 12 वर्ष से प्रख्यात ध्रुपद गायक पद्मश्री पंडित ऋत्विक सान्याल के मार्गदर्शन में अनुराधा काशी में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अनुराधा संगीत में एनसीपीए मुम्बई की फैलो हैं तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा जूनियर फैलोशिप भी प्राप्त कर चुकी हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर अनुराधा अपनी प्रस्तुति भी दे चुकी हैं।

उत्तरकाशी: तेज आंधी तूफान से सौर ऊर्जा पैनलों को भारी नुकसान

चिन्यालीसौड़ /उत्तरकाशी । जिले में दोपहर बाद आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, बिजली कड़कने से विद्युत लाइनें समेत सौर ऊर्जा पैनल उड़कर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिससे लोगों को भारी नुक्सान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि जिले में विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीणों ने अपने निजी प्रयासों से खेतों में इन सौर ऊर्जा पैनल को लगवाया था, लेकिन इनके क्षतिग्रस्त होने के कारण स्थानीय लोगों को लाखों रुपए का नुकसान होना की खबर है । ताजा मामला विकासखंड चिन्यालीसौड़ के खालसी, बधानगांव भडकोट कुमाराडा, मुंडरासेरा, बल्डोगी में भी कई कच्चे घरों के छप्पर को नुकसान हुआ है। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बार-बार बिजली जाने की परेशानी से निजात पाने के लिए स्थानीय लोगों ने निजी खर्च पर इन सोलर पैनल को लगवाया था। लेकिन तेज बारिश और हवा में यह पैनल क्षतिग्रस्त हो गए है। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला, पूर्व ब्लाक प्रमुख विजेंद्र रावत, रजनी कोटवाल भाजपा नेता पूनम रामोला ने बताया कि आर्थिक नुकसान के साथ आगामी व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है ।

कर्मचारी परिषद का धरना जारी

श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को गढ़वाल विवि के मुख्य प्रशास. निक भवन में कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बताते चले कि हाईकोर्ट ने 148 दैनिक वैतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर फैसला सुनाया था, लेकिन गढ़वाल विवि के ही एक कर्मचारी ने इस पर एमएचआरडी को पत्र लिखकर इसपर आपत्ति दर्ज कर दी थी। जिसके चलते कर्मचारियों का नियमितीकरण का मामला एक बार फिर अटक गया। शैक्षणेत्तर कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र फर्सवाण ने कहा कि लम्बे समय से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवेहलना की जा रहीं है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक कोर्ट के आदेश के अनुसार 148 कर्मचारियों को नियमित को लेकर गढ़वाल विवि स्तर से समाधान नहीं निकाला जाता और कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

जिला अस्पताल की बदहाली पर कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा, किया पुतला दहन

चिरंजीव सेमवाल

उत्तरकाशी। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेसियों का गुस्सा फूटा पड़ा और सीएमओ कार्यालय का घेराव किया है। कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल गेट के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया है।

शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष मनीष राणा के नेतृत्व एवं प्रसूति के परिजन भारी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे जहां जुलूस का रूप ले लिया। नाराज लोगों ने जिला अस्पताल में जमकर नारेबाजी के साथ सीएमओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से दो दिन पूर्व हुई प्रसूति महिला की मौत पर जमकर बवाल काटा । साथ ही

जिला में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएस रावत का घेराव किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे। कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष व्याप्त किया।

बाद में कांग्रेसी नारे बाजी करते जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अस्पताल की स्वास्थ्य बदहाली पर उपजिलाधिकारी डुंडा देवानंद शर्मा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया।

ज्ञापन में कहा गया कि जिला अस्पताल में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं जैसे जिला अस्पताल उत्तरकाशी में भवन होने के बावजूद यह डॉक्टरों की भारी कमी है, हड्डियों का एक भी डॉक्टर नहीं है एक डॉक्टर के भरोसे सम्पूर्ण जिले का फिजिशियन का कार्य चलाया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड की मशीनें पुरानी हो चुकी तकनीक तकनीशियन न होने क कारण करोड़ों की नई मशीनें धुल फंक रहें है, जन औषधि केन्द्र में दवाओं की भारी कमी आदि अनेकों व्यवस्थाओं नहीं है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष राणा ने कहा कि जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं तथा डॉक्टरों की लापरवाही से जिला अस्पताल में लोगों को जान गंवानी पड़ रही है।

दो दिन पूर्व जिला अस्पताल की लापरवाही से गर्भवति महिला की भी मौत भी हुई थी। कहा जिला अस्पताल जनपद के मरीजों के लिए सिर्फ रैफर सेंटर बना है। कांग्रेस कार्यकताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं में शीघ्र सुधार नहीं लाने पर उग्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी।

इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष राणा, दिनेश गौड़, विजेंद्र नौटियाल, शीशपाल पोखरियाल, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य मनोज मीनान, विजय सेमवाल, मनोज पंवार, बीना शाह, नैन सिंह बिष्ट, एकादशी, मधु,

समशेर बिष्ट, सूरज रावत, मनजीत नेगी, राखी राणा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अवकाश प्राप्त संगठन ने निकाली तिरंगा यात्रा

श्रीनगर। अवकाश प्राप्त विकास संगठन के ओर से शुक्रवार को विजय तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौक पर संगठन के सदस्यों के ओर से वीर चन्द्र सिंह गढवाली मार्ग, अपर बाजार, गोला बाजार और गणेश बाजार होते हुये वापस संगठन कार्यालय में सम्पन हुई। मौके पर संगठन के सदस्यों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के प्रशांसा करते हुए भारतीय सेना के शौर्य की सरहाना की। इस मौके पर संगठन के संरक्षक विमल बहुगुणा, अध्यक्ष गणेश टमटा, उपाध्यक्ष सुरेश मैठाणी, सचिव गणेश जोशी, पूर्व अध्यक्ष पीसी नोडियाल, बृजकिशोर घिल्डियाल, मिडिया प्रभारी दिनबधु सिंह चौहान, पूर्व सैनानी हरिप्रसाद उनियाल, महेन्द्र सिंह नेगी, भगवती पुरी, दया राम पुरी, कुंवर सिह, प्रमोद सहित आदि मौजूद थे।

प्रभारी मंत्री ने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में किया 552.77 लाख के परीक्षा हॉल भवन का शिलान्यास

शाह टाइम्स संवाददाता

गोपेश्वर। सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रभारी मंत्री डा. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में परीक्षा हॉल के भवन का शिलान्यास किया। इसके साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रम में 37 उद्यमी महिलाओं को सम्मानित किया।

प्रभारी मंत्री डा. धन सिंह रावत के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर पहुंचने पर प्राचार्य प्रो एमपी नगवाल ने स्वागत किया। जिसके बाद यहां प्रभारी मंत्री ने पूजा-अर्चना कर 552.77 लाख की लागत से बनने वाले परीक्षा हॉल का शिलान्यास किया। महाविद्यालय में एक हजार छात्र-छात्राओं की क्षमता वाले दुमंजिला परीक्षा हॉल के साथ ही स्ट्रांग रुम का निर्माण के लिए सरकार की ओर धनराशि आवंटित की गई है। भवन का निर्माण पेयजल निर्माण निगम श्रीनगर की ओर किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए उनकी ओर से सभी संसाधनों का विकास किया जा रहा है। सरकार की ओर से गुणवत्ता परख शिक्षा के लिए भौतिक संसाधनों के साथ ही मानव संसाधनों को लेकर भी व्यवस्था की जा रही है। कहा कि उच्च शिक्षा में सरकार की ओर से 107 प्रतिशत शिक्षकों की भर्ती की गई है। कहा कि राज्य में शीघ्र 10 स्वायत्त महाविद्यालय बनाए जाएंगे। जिससे परीक्षा, परीक्षा परिणाम व अन्य कार्यों को लेकर छात्रों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके पश्चात राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गोपेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्र में माननीय सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रभारी मंत्री डा. धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर चर्चा की गई। साथ ही सहकारी विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को शून्य ब्याज दर पर ऋण वितरण करने के साथ महिला उद्यमियों और सहकारिता में कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं को स्वारोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंन कहा कि सहकारिता के माध्यम से इस वर्ष राज्य में 2 लाख और जनपद चमोली में 10 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कहा कि वर्तमान में सहकारिता के माध्यम से जहां शून्य ब्याज दर पर ऋण वितरण किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान तक सहकारिता के माध्यम से 6 हजार स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरित किया गया है। वहीं सहकारी बैंकों के लाभ में इजाफा हुआ है।

बताया कि वर्तमान में चमोली जनपद में सहकारी बैंक ने 30 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कहा कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए सरकार की ओर से सभी ग्राम पंचायतों में कॉपरेटिव सोसाइटी खोलने की योजना बनाई गई है। जिनमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं ग्रामीणों को मिल सकेंगी। बताया कि आगामी अक्तूबर और नवम्बर माह में सहकारिता से जुड़ी उद्यमी महिलाओं के उत्पादों को प्रमोशन के लिए सहकारिता मेलों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सहकारी विभाग के अधिकारियों को चमोली के स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एफपीओ गठित करने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गोपेश्वर की छात्राओं की ओर से सरस्वती वन्दना और स्वागत गीत की प्रस्तुति भी दी गई। इस मौके पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, राज्य मंत्री हरक सिंह नेगी, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत, पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र भंडारी, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बर्त्वाल, मोहन नेगी, मनोज भंडारी, डा. वीएन खाली, डा. दिनेश सती, पेयजल निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार फरस्वाण, तारा दत्त थपलियाल, बल्लभ प्रसाद थपलियाल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

स्कूलों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा की आवश्यकता: संजय

देहरादून। संजय ऑर्थोपीडिक स्पाइन एवं मेटरनिटी सेंटर देहरादून की और से आठवे संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह 12-18 मई के अवसर पर दून भवानी इंटरनेशनल स्कूल, रानीपोखरी में एक सड़क सुरक्षा व्याख्यान का आयोजन किया गया। ऑर्थोपीडिक सर्जन पद्मश्री डॉ. बी. के. एस. संजय ने कहा कि वाहन चलाना आजकल रोजमर्रे की आवश्यकता है जिसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो, मनोरंजन हो या फिर पर्यटन। आपको प्रतिदिन वाहन में बैठने की आवश्यकता होती है जिसे या तो आप स्वयं चलाते हैं या फिर आपके लिए कोई दूसरा चलाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉ. बी. के. एस. संजय ने सरकार से अपील की कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा की आवश्यकता है।

जोशी ने किया पुरूकुल गांव में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को देहरादून के पुरूकुल गांव का दौरा कर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की अवस्थापना मद से स्वीकृत लगभग 03 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया।

■ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की अवस्थापना मद से स्वीकृत लगभग 03 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण, कहा - निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो

निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और निर्माण कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से भी संवाद कर उनकी अपेक्षाओं और जरूरतों की जानकारी ली।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हाल ही में गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक भव्य सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया गया है, जो क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि पुरूकुल गांव में बन रहा यह सामुदायिक भवन भी स्थानीय लोगों के लिए विवाह समारो. हों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक गतिविधियों के आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार "जनता की सरकार, जनता के द्वार" के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे और जनता को मूलभूत सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध हो सकें। इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।इस अवसर पर ग्राम प्रधान राधेश्याम जुयाल, अनुराग सिंह ,महेंद्र सिंह, लक्ष्मण रावत, लक्ष्मण सिंह, अधिशासी अभियंता एमडीडीए सुनील कुमार, सहायक अभियंता शैलेंद्र रावत सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

विधायक ने सुनी समस्याएं

शाह टाइम्स संवाददाता

विकासनगर। सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने अपने कैंप कार्यालय सुद्धोवाला में सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से पहुँचे लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसामान्य की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी समस्याएं रखीं। विधायक पुंडीर ने अधिकांश शिकायतों पर मौके पर ही कार्रवाई सुनिश्चित कराई।

इसके साथ ही विधायक ने आर्थिक रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों को बीमारी के उपचार, पुत्री के विवाह जैसे आवश्यक प्रयोजनों हेतु, विधवा एवं निर्धन वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। विधायक पुंडीर ने भरोसा दिलाया कि सहसपुर क्षेत्र के समग्र विकास और जनकल्याण के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

एक नजर ....

चार महीने से पेंशन न मिलने से आंदोलनकारी खफा

धीरेंद्र प्रताप ने दी सत्याग्रह की चेतावनी

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है यदि पिछले 4 महीने से उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन जल्द से जल्द वितरित न की गई तो वह राज्य सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा पहले ही राज्य आंदोलनक. ारियों को नाकाफी पेंशन दी जाती है और उस पर भी तुर्रा यह है कि कई-कई महीनो तक उन्हें पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के और कोषागार के धक्के खाने पड़ते हैं। उन्होंने पेंशन की राशि तत्काल 15 से 20000 किए जाने की मांग की और उससे भी पहले आंदोलनकारियों कि पिछले 4 महीने की लंबित पेंशन को तत्काल निर्गत किए जाने की मांग की है और कहा कि यदि ऐसा ना किया गया तो वे मजबूरन उन्हें सत्याग्रह करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

पालीवाल के निधन पर धीरेंद्र प्रताप ने जताया शोक

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने हरिद्वार के जाने-माने कांग्रेस नेता व प्रदेश कांग्रेस महामंत्री पूर्व राज्य मंत्री डॉ. संजय पालीवाल की माताश्री किरण पालीवाल के निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। धीरेंद्र प्रताप ने डॉ. पालीवाल के नाम भेजे संदेश में कहा है कि उनकी माता के निधन से उन्हें हार्दिक आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा पालीवाल परिवार वर्षों से हरिद्वार जनपद की सेवा के लिए जाना जाता है और जनता के सवालों पर खास तौर पर कमजोर वर्ग के सवालों पर उनकी मदद में पालीवाल परिवार हमेशा आगे बढ़-चढ़कर मददगार रहा है। उन्होंने पालीवाल के परिजनों को दिए गए संदेश में इस भारी दुख को सहने की ईश्वर से शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की है।

एचडीएफसी ने किया लोन कार्निवल का उद्घाटन

देहरादून। एचडीएफसी बैंक ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राइड इनटू जॉय टू-व्हीलर लोन कार्निवल का उद्घाटन करने की तैयारी कर ली है। यह टू-व्हीलर लोन मेला 15-16 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बैंक की 550 शाखाओं में आयोजित किया जाएगा। क्षेत्र के प्रमुख टू-व्हीलर डीलरशिप नवीनतम टू-व्हीलर पेशकशों का प्रदर्शन करेंगे। एचडीएफसी बैंक के शाखा बैंकिंग प्रमुख (उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) मुस्कान सिंह ने कहा दोपहिया वाहन ऋण कार्निवल लोगों को वाहन खरीदने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा।

जरूरतमंद को किया ब्लड डोनेट

देहरादून। समाजसेवी फारूक राव को उनके मित्र संजय रावत का फोन आया की दून हॉस्पिटल में एक मरीज दिगम्बर का ऑप्रेशन होना है व एक मरीज असलम सीएमआई हॉस्पिटल में भर्ती है उनको ब्लड की अवश्यकता है। समा. जसेवी फारूक राव ने अपने मित्र जावेद मालिक, शक्ति पुंडीर, संजोग सिंह, रागिब मालिक से सम्पर्क कर देव भूमि ब्लड बैंक में जाकर अपना अपना ब्लड डोनेट किया। इस मोके पर फारूक राव ने सभी से एक अपील भी की इस समय ब्लड बैंको में ब्लड की बहुत कमी हो रही है। साथ ही बहुत से मरीजो को ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है आप सभी युवा साथी अपना अपना ब्लड डोनेट करें आपकी एक यूनिट ब्लड से किसी की जान बच सकती है।

हनोल महासू देवता मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन'

त्यूणी। हनोल स्थित महासू महाराज के मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा वाचक आचार्य विजय कृष्ण महाराज ने कहा है कि धर्म को जानने और समझने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए।कथा के तीसरे दिन आचार्य विजय कृष्ण महाराज ने सती प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहां है कि भगवान भोले का विवाह भी अद्भुत था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव की बारात में भूत-प्रेत, पिशाच, देव, दैत्य, गन्धर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, ब्रह्मराक्षस, असुर आदि सभी शामिल थे। श्रीमद् भागवत कथा से जुड़े हुए उन्होंने अनेक संस्मरण सुनाएं। उन्होंने कहा कि श्रीमद भागवत कथा का आयोजन मुख्य रूप से आध्यात्मिक विकास, भगवान के प्रति भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह कथा सुनने से मन शांत होता है और लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।इस अवसर पर महासू देवता मंदिर समिति हनोल के सचिव मोहनलाल सेमवाल, देव वजीर दीवान सिंह, जयपाल सिंह पंवार, देवमाली हरिश्चंद्र नौटियाल, राजेंद्र नौटियाल, देवदत्त जोशी, वीरेंद्र जोशी, पूरण नाथ राजगुरु, विक्रम राजगुरु, रोशन, गौरव चौहान, मुकेश देवमाली, आचार्य विवेक शरण जोशी, आचार्य बृजेश जोशी, आचार्य आशीष शर्मा, आचार्य सुभाष बिजलवाण, रमेश डोभाल, जितेंद्र जोशी आदि सहित अनेक भक्तगण उपस्थित थे।

विधानसभा वार होंगे संविधान बचाओ व जय हिंद रैलियों के कार्यक्रम: कांग्रेस

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस के रुके हुए संगठनात्मक व आंदोलनात्मक कार्यक्रम अब सामान्य रूप से शुरू कर दिए गए हैं। पार्टी के जिलावार प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गए हैं और आगामी दिनों में प्रदेश की हर विधानसभा में पार्टी संविधान बचाओ कार्यक्रम, गोष्ठियों, सम्मेलनों के माध्यम से आयोजित करेगी जिसमें अब जय हिंद तिरंगा सम्मान भी जोड़ा गया है।

यह बात शुक्रवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते एआईसीसी ने देश भर में पार्टी की गतिविधियों को देश हित में स्थगित कर दिया था जो अब युद्धविराम के बाद पुन: सैन्य रूप से शुरू कर दिए गए हैं। धस्माना ने कहा कि पार्टी ने राज्य व्यापी संविधान बचाओ रैली व तिरंगा जय हिंद यात्रा देहरादून में पहले ही आयोजित कर ली है इसलिए अब ये कार्यक्रम राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आगामी 20 मई से 30 मई के बीच देश के अनेक महत्वपूर्ण शहरों में तिरंगा जय हिंद रैली की जाएगी जिसमें उत्तराखंड का हल्द्वानी शामिल है जिसकी तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी।

उपाध्यक्ष गीताराम गौड़ ने किया शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण

शाह टाइम्स संवाददाता

चकराता। जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीताराम गौड ने क्षेत्र के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण कर विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लाखामंडल स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, ग्वासा पुल स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लगापोखरी स्थित राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय और कोरवा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आश्रम विद्यालय का दौरा किया।

राज्यभर में लगेंगे 200 अंबेडकर शिविर: कर्णवाल

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने शुक्रवार को देहरादून विकास भवन सभागार में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जनपद में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया समाज कल्याण की योजनाओं से मिशन मोड में शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए।उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की ओर से राज्य के 95 ब्लाक, सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से 200 शिविर लगाए जा रहे है।

इन शिविरों में सरकार की ओर से संचालित योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। ताकि प्रत्येक लाभार्थी को योजनाओं से जोड़ा जा सके। उन्होंने अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं की भी जानकारी ली। कहा कि शासन स्तर की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से उपाध्यक्ष को अवगत कराया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद देहरादून में 73344 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 11301 दिव्यांग पेंशन, 1178 दिव्यांग भरण पोषण अनुदान, और 708 लोगों को किसान पेंशन दी जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा व दिव्यांग की पुत्री विवाह के तहत 949, अटल आवास योजना के तहत 124, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत 81 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

बैठक में प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रधान सचिव अनिल गौड़, पार्षद विशाल विरला, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह, एसडीएम हरि गिरी, पीडी डीआरडीए विक्रम सिंह, डीडीओ सुनील कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, मुख्य कृषि अधिकारी देवेन्द्र सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकार डॉ विद्याधर कापडी, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी उरेडा बीके बमराडा, ईई आरडब्ल्यूडी अनिल कुमार, डीपीओ मीना बिष्ट, डीपीओ आईसीडीएस जितेन्द्र कुमार सहित रेखीय विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

डीएम की पड़ी नजर, तो संवरने लगे शिक्षा के मंदिर

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय परेड ग्राउंड में जर्जर छत का मामला संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी सविन बसंल ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए, जिसके लिए डीएम ने लगभग 42 लाख की धनराशि स्वीकृत की।

परेडग्राउण्ड स्थित प्राथमिक एंव माध्यमिक सरकारी स्कूल के जर्जर भवन का मामला संज्ञान में आते ही जिलधिकारी सविन बसंल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तत्काल भवन मरम्मत की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिए जिसके फलस्वरूप कार्य प्रारम्भ हो गया है। जिलाधिकारी सभी खण्ड

शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्कूलों की स्थिति प्रेषित करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मन्दिर में जहां देश का भावी भविष्य का निर्माण हो रहा है। उनको गुणवत्तायुक्त रखना है। साथ ही निर्देशित किया कि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत भवन गुणवत्तायुक्त जरूरी हैं। यदि कहीं स्कूलों में कक्ष जर्जर हैं तो बच्चों को अन्यत्र भवन में शिफ्ट किया जाए इसके लिए खण्ड शिखा अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीकरण की सुविधा 31 मई तक खुली

देहरादून।जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पंजीकरण के लिये सर्वे की सुविधा 31 मई, 2025 तक खुली हुई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपील की है कि जनपद के इच्छुक ग्रामीण आवासहीन परिवार सर्वे में अपना नाम दर्ज करने के लिए संबंधित विकासखंड में खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि यह आवश्यक है कि इच्छुक ग्रामीण आवासहीन परिवार उसी ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज हो, जिसमें वह पंजीकरण कराना चाह रहा है।

ट्रांसफार्मर को ऊंचा करने के दौरान कई गांवों की विद्युत आपूर्ति रही ठप

शाह टाइम्स संवाददाता

सहिया। विधुत सब स्टेशन सहिया के 33/11 केवी के ट्रांसफार्मर को ऊंचा करने के लिए फिल्थ बनाने के कार्य के चलते साहिया बाजार सहित कई गांवों की विधुत आपूर्ति ठप रही। जिससे लोगों का बिजली से संचालित सभी कार्य प्रभावित रहे। ट्रांसफार्मर को पीलिंथ बनाने तक ट्रांसफार्मर को अलग से शिफ्ट किया गये जाने पर ही विधुत आपूर्ति सूचारू हो सकी।

इस कार्य को पूरा कराने के को लेकर विधुत उप खंड अधिकारी चकराता अशोक कुमार सुबह से ही मौके पर मोजूद रहे।

उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 12:25 बजे ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह शिफ्ट करने में समय लग गया

■ बिजली से संचालित सभी कार्य रहे प्रभावित

जिसमें विद्युत कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफार्मर की पीलिंथ बनाने के लिए ट्रांसफार्मर को एक साइड में दूसरे साईड शिफ्ट किया गया जिसमें कार्य विद्युत आपूर्ति करने के लिए लगभग चार घंटे का समय लगा उसके बाद ही सही एवं आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू हो सकी। इस मौके पर अवर अभियंता परम सिंह चौहान ,टीजी प्रथम महेंद्र कुमार, लाइनमैन स्वराज सिंह, विष्णु प्रसाद ,शेर सिंह, अनुज ,दिगंबर, संदीप आदि मौजूद रहे।

सेपियंस स्कूल विकासनगर में छात्र परिषद का गठन

विकासनगर। सेपियंस विद्यालय विकासनगर में 'पदारोहण समारोह' आयोजित किया गया जिसमें छात्र परिषद का गठन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में कर्नल आदित्य जे पॉल (11वीं उत्तराखंड बटालियन देहरादून) उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के साथ विद्यालय अध्यक्षा इंदिरा रानी सपरा, स्कूल सेक्रेटरी रवि कांत सपरा, विद्यालय प्रबंधक रशिता सपरा, विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन तनेजा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा स्वागत गीत तथा नृत्य द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया।

संगठनात्मक एकता और निरंतर संवाद भाजपा की ताकत : जोशी

■ कैबिनेट मंत्री की मसूरी भाजपा मंडल की नवगठित कार्यकारिणी के साथ हुई परिचयात्मक बैठक

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के मसूरी मंडल की नवगठित कार्यकारिणी के साथ एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

बैठक में राज्य मंत्री कैलाश पंत, भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय

उपाध्यक्ष नेहा जोशी और मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने भी उपस्थित रहकर कार्यकारिणी के सदस्यों को नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी और संगठन के प्रति समर्पण से कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में जहां नेहा जोशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी एवं सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया ,वही कैलाश पंत ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर समन्वय बनाकर कार्य करने का आहवान किया।कैबिनेट मंत्री जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और यह कार्यकर्ता आधारित संगठन है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और अवसर देती है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा जताते हुए कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जोशी ने संगठनात्मक एकता और निरंतर संवाद को पार्टी की ताकत बताया। परिचयात्मक बैठक में मंडल उपाध्यक्ष विजय बिंदवाल, अरविंद सेमवाल, गुड़मोहन राणा, सुनील चमोली, मंडल महामंत्री किरण, नरेंद्र मेलवाल, मंडल मंत्री गिरीश उनियाल, अनिता जवाड़ी, अनीता धनाई, गीता देवी, मंडल कोषाध्यक्ष बबीता मित्तल, मंडल कार्यालय मंत्री पुष्पदीप शर्मा, मंडल मीडिया संयोजक जगजीत कुकरेजा, मंडल आईटी संयोजक अभिलाष राणा, मंडल सोशल मीडिया संयोजक अनिल, रमेश खंडूरी, नर्मदा नेगी, नागेंद्र दत्त डिमरी, चित्रा गुरुंग, वैभव तायल, संध्या ऐनी, राज बिजलवान, सुमित कनौजिया, धर्मपाल पंवार, रमन गुप्ता, दिनेश चौहान, ज्योति ढकाल, सुभाष नौटियाल, सपना, अरुण कुमार, माया राणा, कुणाल, केदार जोशी, भगत कठेत, विमल क्षेत्री, देवेंद्र मलासी, विवेक भट्ट, ओमप्रकाश थपलियाल, उज्वल सिंह नेगी, राजेश, शिव अरोड़ा, मनजीत प्याल, मीरा सुयाल, श्याम सिंह प्याल आदि उपस्थित रहे।

सेलाकुई के आंबेडकर कॉलोनी में अवैध कबाड़ की दुकान जल कर स्वाह

शाह टाइम्स संवाददाता

सेलाकुई। तड़के सुबह सेलाकुई के आंबेडकर कॉलोनी में कबाड़ के अवैध गोदाम में भयंकर आग लग गई। कॉलोनी से सटे इस गोदाम में आग लगने से अफरातफरी मच गई। शुक्र है कि फायर बिग्रेड के वाहनों से समय से पहुंच आग बुझा दी, नहीं हो आग आस-पास के इलाके में फैल का डर सता रहा था।

शुक्रवार को तड़के सुबह आंबेडकर कॉलोनी में बनाए गए एक कबाड़ के गोदाम से लोगों ने धुंआ उठता देखा। कुछ ही देर में गोदाम से आग की लपटें उठने लगी। आसपास रिहायशी इलाका होने के कारण वहां अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच लोगों ने पुलिस और फायर बिग्रेड को

फोन पर आग लगने की सूचना दी। सूचना पर तत्काल पुलिस और फायर बिग्रेड के वाहन मौके पर पहुंचे और किसी तरह से आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की माने तो आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के घरों को खतरा होने लगा।समय से फायर बिग्रेड के वाहन नहीं पहुंचते तो आग आसपास के घरों तक पहुंच सकती थी। वहीं फायर स्टेशन सेलाकुई के प्रभारी ईशम सिंह ने बताया कि सूचना पर फायर बिग्रेड के दो वाहन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद तीन आग बुझाई। बताया कि आग इतनी भंयकर थी कि बुझाने में तीन घंटे का समय लगा। बताया कि आग से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

रेलवे ट्रैक पर मिला लापता चार वर्षीय मासूम का शव

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, सोशल मीडिया पर आरोपी की तस्वीरें जारी कर जनता से मांगा सहयोग

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। हरकी पैड़ी क्षेत्र के समीप रोड़ी बेलवाला से कई दिनों से लापता चार वर्षीय मासूम का शव भीमगोड़ काली मंदिर के पास रेलवे सुरंग से बरामद किया है। मासूम की बेरहमी से हत्या की गयी है। माना जा रहा है कि मासूम के साथ दरिंदगी भी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो सकेगा। बेटी की तलाश में जुटे पिता ने ही शुक्रवार को अपनी बेटी का शव लेकर पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्तपाल भिजवा दिया है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मासूम 13 मई से लापता थी। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोबाल ने वारदात के जल्द से जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 मई की शाम रोड़ी बेलवाला स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बमबम दास पुत्र स्व. अशोक सिंह ने रोड़ी बेलवाला चौकी पहुंचकर सूचना दी थी कि उसकी 4 वर्षीय बेटी को 4-5 महीने से उन्हीं की झोंपड़ी में रह रहा सूरज लेकर कहीं चला गया है। कबाड़ बिनने का काम करने वाला आरोपी सूरज नशे का आदी है और अक्सर सहारनपुर जाता रहता है। शाम को जब पति पत्नि घर लौटे और बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने अनुमान लगाया कि सूरज बच्ची को लेकर सहारनपुर चला गया है। इसीलिए दंपत्ति बच्ची की तलाश में सहारनपुर गए थे। लेकिन काफी तलाश के बाद भी बेटी और सूरज का कुछ पता नही चला।

अबोध बच्ची से जुड़ा मामला होने के कारण मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के साथ पिता भी बेटी की तलाश करता रहा और सुरंग में रेलवे ट्रैक से बच्ची का शव बरामद कर कोतवाली पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी। बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर घटनास्थल की फोटोग्राफी करने के साथ साक्ष्य एकत्रित किए गए। बच्ची के पिता द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटोग्राफ्स के आधार पर आरोपी की तलाश के लिए कोतवाली पुलिस व सीआईयू की संयुक्त टीमें गठित करते हुए स्थानीय जनता से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने आरोपी सूरज की फोटो भी सोशल मीडिया पर जारी की हैं।

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल भी मौक पर पहुंचे और आवश्यक निर्देश दिए। लोगों से आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग की अपील करते हुए एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीमें आरोपी सूरज की गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं। एसएसपी ने बताा कि आरोपी सूरज गंजा है और दाढ़ी भी रखता है। उसे दढ़ियल व गंजे के नाम से भी बुलाया जाता है। गंजापन छिपाने के लिए वह कभी-कभी विग का प्रयोग भी करता है।

युवक को देशी तमन्चे के साथ किया गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

पथरी। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को गुर्जरबस्ति जाने वाले रास्ते से तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार पथरी थाना क्षेत्र में गुर्जरबस्ति वाले रास्ते से वाहन चौकिंग के दौरान अवारा घूम रहे एक युवक को अवैध देशी तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बिट्टू चौहान 31 वर्ष पुत्र वेदपाल सिंह निवासी ग्राम धारिवाला बताया युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा जायेगा। एसओ पथरी मनोज नोटियाल ने बताया युवक को एक 315 बोर का एक अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

प्रमोद हत्याकांड मे दो माह से फरार दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

शाह टाइम्स संवाददाता

पथरी। क्षेत्र के गांव शिवगढ़ निवासी प्रमोद हत्या कांड के फरार आरोपियों को पुलिस ने सुभाषगढ़ तिराहे से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार पथरी थाना क्षेत्र के गांव शिवगढ़ में प्रमोद हत्या कांड के दो आरोपी दो माह से फरार चल रहे थे। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को सुभाषगढ़ तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। मामला तीन मार्च को मृतक प्रमोद की गांव के ही कुछ लड़कों द्वारा लाठी डंडे आदि से पीट पीटकर उसकी हत्या कर दी थी घटना के बाद दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार एक टीम का गठन किया गया जिसमें मुखबीर की सूचना पर दोनों आरोपियों को सुभाषगढ़ तिराहे से गिरफ्तार किया गया है दोनों आरोपियों का न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पथरी एसओ मनोज नौटियाल ने बताया प्रमोद हत्याकांड के दोनों फरार आरोपी सुभाषगढ़ तिराहे से गिरफ्तार किए गए हैं जिनको न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है

होटल में जुआ खेल रहे 9 गिरफ्तार दो लाख से ज्यादा की नकदी बरामद

जुआ खिलाने के बदले होटल मैनेजर को मिलने थे 20 हजार

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने होटल में संचालित किए जा रहे जुए के धंधे का भंडाफोड़ करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार जुआरियों के पास से 2 लाख 19 हजार 700 सौ रूपए की नकदी व ताश की गड्डियां बरामद की हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी गाजियायाब, मेरठ व बुलंदशहर के रहने वाले है। होटल मैनेजर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रानीपुर कोतवाली प्रभारी कमलमोहन भंडारी के नेतृत्व में शिवालिक नगर के पी कलस्टर में होटल डी-ग्लास में जुआ खेले जाने की सूचना पर पुलिस टीम ने होटल में छापा मारा। छापामारी के दौरान पुलिस ने होटल के कमरा नं. 201 में जुआ खेल रहे मुनेन्द्र उर्फ बाबी पुत्र किरणपाल सिंह, आदेश त्यागी पुत्र दयाचंद त्यागी, सलमान पुत्र सब्बीर, दिनेश कुमार पुत्र जगपाल सिंह, समय सिंह पुत्र नियादर सिंह, अवधेश कुमार पुत्र दशरथ सिंह, तरूण कुमार पुत्र कैलाशचं, बिजय कुमार पुत्र गजेन्द्र पाल व कुलदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जुआ खिलाने के लिए होटल मैनेजर से 20 हजार रूपये में सौदा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने होटल मैनेजर सुरेश रावत पुत्र हुकम सिंह रावत को भी हिरासत में ले लिया। आरोपियों के खिलाफ जुआ अधि नियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

श्री वैश्य बंधु समाज करेगा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। श्री वैश्य बंधु समाज मध्य क्षेत्र हरिद्वार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वैश्य समाज के छात्र-छात्राओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पुराना रानीपुर स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित संगठन की बैठक के दौरान संस्थापक अशोक अग्रवाल ने कहा कि छात्र-छात्राओं को सम्मानित करने के साथ-साथ उन्हें आईआईटी रुड़की में एक दिवसीय प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। बच्चे आगे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इसके लिए उनकी कांउसलिंग भी करायी जाएगी। अशोक अग्रवाल ने कहा कि आज के छात्र-छात्राएं आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के विकास में योगदान कर सकें। इसके लिए उनका मार्गदर्शन और उत्साहवर्द्धन किया जाना चाहिए। युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है और शिक्षित समाज बेहतर तरीके से राष्ट्र की उन्नति में योगदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि बालक बालिकाओं को समान शिक्षा दिए जाने को लेकर भी सभी को प्रयास करने चाहिए। बैठक में विनीत अग्रवाल, महावीर प्रसाद मित्तल, माध्विक मित्तल, मुदित तायल, रविंद्र गुप्ता, डा. अजय अग्रवाल, नितिन गुप्ता आदि मौजूद रहे।

महानगर व्यापार मंडल ने सीवर लाइन बिछा रही संस्था पर अनियमितता बरतने का आरोप, डीएम से जांच की मांग

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। महानगर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुनील सेठी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर उत्तरी हरिद्वार में सीवर लाईन बिछा रही कार्यदायी संस्था पर अनियमिताएं बरतने का आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की है। सुनील सेठी ने आरोप लगाया कि उतरी हरिद्वार सहित पूरे हरिद्वार में सीवर लाईन बिछाने का कार्य कर रही एजेंसी द्वारा भारी लापरवाही बरती जा रही है। जिससे जनता को परेशान होना पड़ रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा बरती जा रही लापरवाही के चलते उत्तरी हरिद्वार की भारतमाता पुरम, जसविंद्र इंक्लेव, श्यामलोक, गायत्री विहार, सत्यम विहार सहित कई कालोनियों में लोग परेशान है। इस अवसर पर अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि कार्यदायी संस्था जनता के पैसे का दुरपयोग और सरकार की छवि की जनता के सामने खराब करने का कार्य कर रही है। जल्दीबाजी में कालोनियों की सड़के एक साथ उखाड़ दी गयी हैं। पानी का छिड़काव नहीं किए जाने से धूल मिट्टी उड़ने से लोगो को इन्फेक्शन हो रहा है। गड्ढों में गिरकर राहगीर चोटिल हो रहे हैं। बारिश में हालात और खराब हो जाएंगे। बिना कंक्रीट, बजरी डाले रेत पर ही पाइप बिछा कर छोड़ दिए गए है। जिससे बाद में सड़क बैठ जाएगी। जमीनें खोखली कर उन्हें भरान किए बिना लीपापोती कर ढकने का कार्य कार्यदायी संस्था कर रही है। पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि जांच कमेटी का गठन कर संस्था द्वारा बरती जा रही लापरवाही की जांच की जाए। ज्ञापन देने वालों में पवन शास्त्री, प्रीतकमल, सुनील मनोचा, सोनू चौधरी आदि शामिल रहे।

तिरंगा यात्रा की तैयारियों में जुटे नगर विधायक और भाजपा पदाधिकारी

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। तिरंगा यात्रा की तैयरियों को लेकर नगर विधायक मदन कौशिक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। ज्वालापुर स्थित एक बेंकट हॉल में आयोजित बैठक में भाजपा जिला पदाधिकारी, हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र पदाधिकारी, पार्षद, शक्ति केंद्र संयोजक, मोर्चा अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष एवं बूथ अध्यक्ष शामिल हुए।

बैठक को संबोधित करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हम सब गौरवान्वित हैं। भारत की तीनों सेनाओ ने जो पराक्रम दिखाया है यह सबके लिए गौरव के क्षण है। जिस प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को तबाह किया है वह पूरी दुनिया ने देखा है। मदन कौशिक ने कहा कि यह आज का नया भारत है। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूत कर भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम की नई गाथा लिखी है और पाकिस्तान जैसे देश को भारत की ताकत का एहसास भी करा दिया है। उन्होंने शहर के लोगों शनिवार को मायादेवी पार्किंग से हरकी पैड़ी तक निकलने वाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल होने की अपील भी की। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि भारत की सेनाओं ने आतंकवाद व आतंकवाद का पोषण करने वाले आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारतीय नारी की अस्मिता पर चोट पहुंचाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर उसके सीने पर वार किया और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत की सेना अपने देश की सीमाओं एवं नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम है। पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां सेना का जवान सीमा पर लड़ाई लड़ रहा है तो देश के प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि सेना का मनोबल बढ़ाने एवं उनके सम्मान के लिए होने वाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में प्रतिभाग करें। बैठक में मंडल अध्यक्ष तुशांक भट्ट, प्रशांत शर्मा, राजेंद्र कटारिया, अन्नू कक्कड़, आशु चौधरी, विकास तिवारी, लव शर्मा, हीरा सिंह बिष्ट, आभार शर्मा, विशाल गर्ग, तरुण नैयर, दीपांशु विद्यार्थी, सुनील अग्रवाल गुड्डू, मुकुल पाराशर, निशा नोडियाल, निशा पुंडीर, एकता गुप्ता, विदित शर्मा, अनिल वशिष्ठ, सचिन अग्रवाल, प्रशांत सैनी, भूपेंद्र कुमार, परमिंदर गिल, सुमित चौधरी, सपना शर्मा, पिंकी चौधरी, प्रमोद शर्मा, रेनू शर्मा, अनुज सिंह, आशि भारद्वाज, सरोज जाखड़, डा.अश्वनी चौहान, मीनाक्षी मित्तल, ममता सैनी आदि मौजूद रहे।

175 शांतिकुंजवासियों ने किया रक्तदान

सीमाओं पर तैनात जवानों और जरूरतमंदों के जीवन की रक्षा के लिए होगा प्रयोग

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। गायत्री परिवार की संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा की जन्मशताब्दी एवं सिद्ध अखण्ड दीपक की शताब्दी वर्ष (2026) के अंतर्गत गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में श्रीराम शर्मा शताब्दी चिकित्सालय में शुक्रवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इसमें 175 से अधिक शांतिकुंजवासियों ने रक्तदान किया। यह शिविर शांतिकुंज की अधिष्ठात्री शैलदीदी के मार्गदर्शन में श्रीराम शर्मा आचार्य शताब्दी हॉस्पिटल शांतिकुंज एवं माँ गंगे ब्लड सेंटर कनखल के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। परम पूज्य पं श्रीराम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म संरक्षण में महिला मण्डल की प्रमुख श्रीमती शैफाली पण्ड्या ने दीप प्रज्वलन कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर श्रीमती पण्ड्या ने कहा कि गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा है और रक्तदान इस सेवा का प्रभावशाली माध्यम है। आज दिया गया रक्त सीमाओं पर तैनात जवानों और जरूरतमंदों के जीवन की रक्षा के लिए प्रयोग किया जायेगा। व्यवस्थापक श्री योगेन्द्र गिरि ने शिविर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और भविष्य में भी नियमित रूप से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। चिकित्सालय प्रभारी डा. मंजू चोपदार ने कहा कि शिविर को सफल एवं प्रेरणास्पद बताया। प्रथम रक्तदाता कु. आहुति पण्ड्या ने रक्तदान कर समाज के लिए प्रेरणा का कार्य किया। पहली बार रक्तदान करने वाली कु. आहुति पण्ड्या ने कहा कि जीवन का पहला रक्तदान करते हुए अत्यंत आत्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। साथ ही 26 अन्य युवाओं ने भी पहली बार रक्तदान कर राष्ट्रहित में योगदान देने पर गर्व जताया। देर सायं तक चले इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 175 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। जिसमें 18 से 55 वर्ष की आयु वाले रहे। माँ गंगे ब्लड सेंटर प्रभारी एन. एस. नेगी ने बताया कि आचार्य श्रीराम शर्मा शताब्दी हॉस्पिटल एवं देवसंस्कृति विश्वविद्यालय से लगातार सहयोग मिलता रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता को देखते हुए यह शिविर समाज के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा। उन्होंने इस शिविर के सफल आयोजन हेतु देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति युवा आइकान डॉ चिन्मय पंड्या का आभार व्यक्त किया। इस दौरान अजय त्रिपाठी, मंगल सिंह गढ़वाल, गोपाल रजक, संदीप गोस्वामी, शांतिकुंज सेवा साधना दल के सदस्यों आदि ने विशेष भूमिका निभाई।

विधायक अनुपमा रावत ने हटवाई हार्ट टेंशन की लाइन, ग्रामीणों ने जताया आभार

शाह टाइम्स संवाददाता

पथरी। क्षेत्र के ग्राम पंचायत धनपुरा में आबादी के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन की लाइन की सिप्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। लाइन की सिप्टिंग का कार्य विधायक अनुपमा रावत द्वारा कराया गया है। ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत धनपुरा में आबादी के बीच से हाई टेंशन की लाइन गुजर रही थी। ग्रामीण बार-बार लाइन को हटवाने के लिये 40 वर्षो से विभाग के चक्कर काट रहे थे। ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने अपने कर कमलों से शुक्रवार को सिप्टिंग का कार्य शुरू करा दिया है। लाइन शिफ्ट होने के बाद ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। लाइन में काफी पुराने व जर्जर हालत के तारो से आये दिन हादसे होते थे। कई बार लाइन का तार टूटकर ग्रामीणों के घरों पर गिरने के कारण आग लग जाती थी। ग्रामीणों ने विधायक अनुपमा रावत का आभार जताया है। ग्रामीणों में गुलशन अंसारी, सकील अहमद, सलीम अहमद, सुशील, मस्व्वर सलमानी, मुर्स्लीम अंसारी, मोहम्मद आजम, यामीन कसाना, फुरकान, कालू प्रधान, सईद प्रमुख, दीपक, राजेश, नाथी राम आदि मौजूद रहे।

पैरोल पर रिहा एक सिद्धदोष कैदी गिरफ्तार

काशीपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा द्वारा कोविड काल में कारागारों से रिहा सिद्ध दोष बंदियों के सत्यापन हेतु चलाये गए अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह, क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक कुमार के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक काशीपुर अमर चन्द शर्मा द्वारा टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा सूचना संकलन कर पाया गया कि अनाधिकृत रूप से कारागार से बाहर रह रहे सिद्धदोष बंदी सावेज पुत्र अरशद निवासी मौहल्ला बांस्फोड़ान, काशीपुर नशा मुक्ति केंद्र मुरादाबाद में रह रहा है, जिसे गिरफ्तार कर उपकारगार हल्द्वानी में दाखिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पूर्व में सिद्धदोष बंदी सूरज पुत्र सोमपाल निवासी गड्ढा कॉलोनी काशीपुर को 02 मई 2025 को तथा आलोक कश्यप पुत्र भगवानदास निवासी कृष्णा कॉलोनी काशीपुर को 6 मई 2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस टीम में काशीपुर कोतवाली प्रभारी अमर चन्द शर्मा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनिल जोशी, उपनिरीक्षक मनोज धोनी व हेड कांस्टेबल संजय कुमार थे।

धूमधाम से मनाया श्री गंगा आरती धाम का वार्षिकोत्सव

राष्ट्र की एकता अखंडता कायम रखने में संत महापुरुषों की अहम भूमिका : प्रबोधानंद गिरी

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। गाजीवाली श्यामपुर कांगड़ी स्थित श्री गंगा आरती धाम का वार्षिक उत्सव समारोह संत महापुरूषों के सानिध्य व श्रद्धालु भक्तों की मौजूदगी में धूमधाम से मनाया गया। श्री गंगा आरती धाम के परमाध्यक्ष व हिंदू रक्षा सेना के जिला प्रभारी महंत स्वामी वीरेंद्र स्वरूप महाराज के संयोजन में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह के अवसर पर संत समागम का आयोजन भी किया गया। संत समागम की अध्यक्षता करते हुए हिंदू रक्षा सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कहा कि समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ राष्ट्र की एकता अखंडता कायम रखने में संत महापुरूषो की अहम भूमिका रही है। महंत वीरेंद्र स्वरूप जिस प्रकार समाज में आध्यात्मिक जागरण करने के साथ हिंदू संस्कृति के संरक्षण संवर्द्धन में योगदान कर रहे हैं। उससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी ललितानद गिरी महाराज ने कहा कि संत महापुरूषों के सानिध्य में ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। युवा संत महंत वीरेंद्र स्वरूप महाराज द्वारा मानव कल्याण में योगदान प्रशंसनीय है। बाबा हठयोगी ने कहा कि संत का जीवन परमार्थ को समर्पित होता है। महंत वीरेंद्र स्वरूप महाराज भक्तों धर्म व अध्यात्म का ज्ञान देने के साथ समाज के जरूरतमंद वर्ग सेवा मे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। महंत स्वामी वीरेंद्र स्वरूप महाराज ने सभी संत महापुरूषों का आभार व्यक्त करते हुए संत परंपरा का पालन करते हुए सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। जिसका संरक्षण संवर्द्धन करना संतों का दायित्व है। पूरा संत समाज एकजुट होकर अपने इस दायित्व को कुशलतापूर्वक निभा रहा है। इस अवसर पर स्वामी रविदेव शास्त्री, महंत रघुवीर दास, महंत बिहारी शरण, महंत मोहन सिंह, महंत सूरज दास, महंत जसविंदर सिंह, महंत राघवेंद्र दास, महंत प्रेमदास, महंत मधुसूदन गिरी, स्वामी आदियोगी पुरी, महंत दुर्गादास, स्वामी सुतिक्ष्ण मुनि, स्वामी दिनेश दास, स्वामी हरिहरानंद सहित बड़ी संख्या में संत महंत व श्रद्धालु मौजूद रहे।

महिला के पेट से निकाला सोलह किलो का ट्यूमर

शाह टाइम्स संवाददाता

रामनगर। रामनगर में स्थित प्राइवेट अस्पताल बृजेश हॉस्पिटल में लंबे समय से परेशान एक महिला का पेट से 16 किलो का ट्यूमर सफल ऑपरेशन के बाद निकाला गया है। ऑपरेशन के बाद महिला पूरी तरह स्वस्थ है।

रामनगर में काशीपुर रोड़ स्थित बृजेश अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पिछले दो माह में उनके द्वारा अपने बृजेश अस्पताल में ट्यूमर के करीब 28 ऑपरेशन किए जा चुके हैं।उन्होंने कहा कि जिन में अधिकांश महिलाएं शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 माह के भीतर लगातार ऐसे मरीज आना एक चिंता का विषय है।उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में रामनगर के अलावा उधम सिंह नगर के आसपास के इलाके और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों के मरीज इस बीमारी से परेशान उनके पास आ चुके है।उन्होंने बताया कि गुरुवार को रामनगर के आदर्श नगर कॉलोनी में रहने वाली महिला रुकसाना जो कि पेट दर्द से लंबे समय से परेशान थी।कई अस्पतालों में उसने अपना उपचार भी कराया लेकिन उसे कोई फायदा नहीं मिला।उन्होंने बताया कि यह महिला जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने उसकी सभी जांच करने के बाद उसका ऑपरेशन का उसके पेट से 16 किलो का ट्यूमर बाहर निकाल दिया।उन्होंने बताया कि

इस महिला के ऑपरेशन करने में 6 घंटे से अधिक समय लगा।

उन्होंने बताया कि महिला पूरी तरह स्वस्थ है और उन्होंने यह भी बताया कि यह बीमारी अधिकांश महिलाओं की बच्चेदानी एवं अंडाशय में गांठे बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है।मरीज के परिजनों ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया है।

तीर्थ यात्रियों का मेहमान की तरह किया जाए स्वागत: डीएम

- रीठासाहिब में होने वाले जोड़ मेले की व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण
- कार्यों में लापरवाही पर पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता को आड़े हाथों लिया

शाह टाइम्स संवाददाता

रीठासाहिब। मीठे-रीठे के चमत्कार के लिए दुनिया में प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्रीरीठासाहिब में होने वाले सालाना जोड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने अधिकारियों के साथ सूखीडांग से रीठासाहिब तक सड़क मार्ग की स्थिति, वहां बनाए जा रहे सार्वजनिक शौचालयों, यात्री विश्रामगृह, स्वच्छता, पेयजल आदि सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा सड़क मार्ग में डामरीकरण एवं अन्य कार्यों में की जा रही लापरवाही के लिए पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता को आड़े हाथों लिया।

जिलाधिकारी ने कहा यह ऐसा मेला है जिसमें देश-विदेश से तीर्थ यात्री यहां आते हैं। उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं देने के साथ उनका अपने घर के मेहमान की तरह स्वागत और सम्मान किया जाना चाहिए। सूखीडांग से होते हुए रीठासाहिब तक यह ऐसी महत्वपूर्ण सड़क है जिसमें तीर्थ यात्रियों की दूरी आधी रह जाती है। इसके अलावा रीठासाहिब को जोड़ने वाले सभी सड़क संपर्क मार्ग को सुगम यातायात के लिए चकाचक बनाया जाए। डीएम ने गुरुद्वारा प्रबंधक बाबा श्याम सिंह के साथ कलोता में 9.88 करोड़ रुपए लागत से बनाई जा रही पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। सीएनडीएस के पीएम जी सी पंत ने बताया कि यहां

70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा मेले तक काम चलाऊ व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने यहां से गुरुद्वारा में जोड़ने वाले मार्ग में लधिया नदी में आवागमन के लिए अस्थाई पुल बनाने, यात्रियों के लिए संगम में स्नानघाट, शौचालय आदि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

गुरुद्वारा प्रबंधक बाबा श्याम सिंह ने बताया कि गुरुद्वारे में पांच दर्जन कमरों की नई सराय का काम पूरा कर लिया गया है। उनका कहना था कि देश के हालात सामान्य होने के कारण यात्रियों का इस ओर प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है। तथा मेले में एक लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है। इस दफा सुखीडांग सड़क मार्ग में भी सिख संगत द्वारा लंगर सेवा चलाई जाएगी जिसके लिए वहां स्वच्छता पेयजल आदि की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। एसडीएम नितेश डांगर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से बराबर संपर्क कर रही है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले की सारी व्यवस्थाओं को चौक-चौबंद करने के लिए बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि यहां होने वाला जोड़ मेला चंपावत जिले की अपनी विशिष्ट पहचान है तथा इस मेले के कारण दुनिया में चंपावत जिले की पहचान होती है उन्होंने यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा दिए जाने पर जोर दिया है।

दिल्ली के कार सेवा प्रमुख एवं मेले के मुख्य संयोजक बाबा सुरेंदर सिंह लगातार गुरुद्वारा प्रबंधक एवं मुख्यमंत्री से संपर्क बनाए हुए हैं। बाबा सुरेंदर सिंह शीघ्र ही रीठा साहिब आएंगे तथा उनकी मौजूदगी में जिलाधिकारी द्वारा बैठक आयोजित कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी पहुंचे खटीमा जनता की सुनीं समस्याएं

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को खटीमा पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी टनकपुर में तिरंगा यात्रा के उपरांत कार द्वारा खटीमा के लिए रवाना हुए जहां चकरपुर पहुंचने पर नगर पालि. का अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी वह क्षेत्र वासियों ने फूल मालाओं के साथ मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री लोहिया हेड कैंप कार्यालय पहुंचे जहां पर जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने लोहिया हेड कैंप कार्यालय में जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

एनसीसी जूनियर डिविजन की भर्ती प्रक्रिया संपन्न

शाह टाइम्स संवाददाता

टनकपुर। ठा. श्याम सिंह रावत जगत सिंह रावत राधे हरि राजकीय इंटर कॉलेज टनकपुर मे एनसीसी जूनियर डिवीजन की भर्ती प्रक्रिया 2 यूके (I) कॉय एनसीसी चम्पावत के कमान अधिकारी लेफ्टि .कर्नल एन एस नगराकोटी, के निर्देशानुसार संपन्न हुई।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान जूनियर डिवीजन प्रभारी फर्स्ट ऑफिसर एसएस राणा एवं कैप्टेन एलडी तिवारी प्रभारी सीनियर डिवीजन ने उपस्थित छात्रों को पहले एनसीसी भर्ती की प्रक्रिया को समझाया। तत्पश्चात छात्रों की लिखित परीक्षा, दौड़, सेटअप, पुशअॅप, चीन अप सहित वइेजपबंस परीक्षा भी करवाई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हरीश चंद्र पाठक, शशांक मिश्र, जोहार सिंह महरा, भुवन शंकर पाण्डेय, रुप सिंह राजपूत ने चयनित कैडेटों को एनसीसी मे अनुशासन का पालन एवं देश सेवा प्रेरित करने पर बल दिया। कैप्टेन एलडी तिवारी ने उपस्थित कैडेट का उत्साह वर्धन किया। साथ ही फर्स्ट ऑफिसर एसएस राणा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा आज पिथौरागढ़ में

शाह टाइम्स संवाददाता

पिथौरागढ़। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार अजय टम्टा अपने दो दिवसीय जनपद दौरे पर आज पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। मंत्री 17 मई 2025 को प्रात: 10.30 बजे चंडाक स्थिति मोस्टामानू मंदिर प्रांगण में मल्टी स्पेशलिटी मोबाइल हेल्थ यूनिट के उद्घाटन समारोह में प्रतिभाग करेंगे। यह मोबा. इल हेल्थ यूनिट सीमांत सेवा फाउंडेशन हेल्थ ऑन व्हील अभियान के तहत जनपद के 32 गांवों हेतु शुरू की जाएगी । चंडाक स्थित प्रसिद्ध मोस्टमानू मंदिर में सुंदरकांड के साथ अभियान की शुरुआत होगी। फाउंडेशन के उपाध्यक्ष ललित पंत ने बताया कि अभियान के तहत गोरंगघाटी के 32 दूरस्थ गांवों में मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीणों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

महिलाओं के स्थायी रोजगार का माध्यम बना मत्स्य पालन

- महिलाओं ने अपनी पुरुषार्थ के बल पर गांव को दिया मॉडल रूप

शाह टाइम्स संवाददात

लोहाघाट। बाराकोट ब्लाक के अंतर्गत अंबेडकर गांव ढ़टी गांव की महिलाओं ने अपने पुरुषार्थ के बल पर गांव की तस्वीर बदलने का सराहनी प्रयास किया है ।

इस गांव की भूमिहीन महिलाओं के सामने रोजगार के विकट समस्या थी, इन्होंने सिद्ध बाबा स्वयं सहायता समूह से जुड़कर जैनोला गधेरे के पानी का दोहन कर कर लगभग नौ मछली के तालाब तैयार कर लिए हैं। इस कार्य में इन्हें ग्रामोत्थान (रीप) का बड़ा सहयोग एवं सहारा मिला, जिससे ये आगे बढ़ने के लिए काफी प्रोत्साहित हुए। समूह की रेखा देवी, नीरू देवी, नारायणी दवी, कमला देवी, रेखा आर्या, हेमा देवी का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें घर बैठे ऐसा रोजगार मिलेगा, जिससे वे सम्मानजनक ढंग से अपना जीवनयापन कर रही हैं। मत्स्य पालन का यह उनका व्यवसाय ऐसा है, जिसके लिए बाजार तलाशने की जरूरत नहीं बल्कि ताजी मछली खाने के शौकीन लोग उनके घर में दस्तक देकर उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। समूह के अध्यक्ष रेखा देवी का कहना है कि अभी तक वह ढाई लाख रुपए का व्यवसाय कर चुकी है। उनकी देखा देखी समीपवर्ती ऐसे गांव की महिलाएं भी इस रोजगार को अपने के लिए तैयार बैठी है, जिनके वहां पानी उपलब्ध है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय, नरेन्द्रनगर, टि०ग०

मू०वा०सं०–19 सन–2024

वादी– प्रवीन सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह उम्र–40 वर्ष निवासी किरोड़ पट्टी भरपूर तहसील देवप्रयाग टि०ग०।

बनाम

प्रतिवादीगण– 1. सरवीन सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह उम्र–31 वर्ष।
2. प्रधान/प्रशासक ग्राम किरोड़ पट्टी भरपूर तहसील देवप्रयाद जिला टि०ग०।
3. सरकार उत्तराखण्ड द्वारा कलक्टर महोदय टि०ग० नई टिहरी।
4. समस्त रिश्तेदार एवं आम नागरिक।

आपको सूचित किया जाता है कि वादी प्रवीन सिंह की ओर से अपने पिता कुन्दन सिंह की दीवानी मृत्यु घोष्णात्मक वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। यदि आप प्रितिवादीगणों को वादी प्रवीन सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई आपत्ति प्रस्तुत करनी हो तो आप **दिनाँक 20 माह 05 सन–2025** को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा वादी प्रवीन सिंह के उक्त वाद में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

दिनाँक 21 माह 04 सन–2025 को न्यायालय की मुद्रा व हस्तक्षर से जारी।

आदेशानुसार
रीडर
सिविल जज
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

सूचना

मेरे आधार कार्ड संख्या 784738467802 में गलती से मेरा नाम सोनिया दर्ज हो गया है। जबकि, सही नाम शिवानी कौर है। मेरे जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 756 में भी शिवानी कौर नाम दर्ज है। अन्य दस्तावेजों में भी नाम शिवानी कौर ही है। भविष्य में मुझे शिवानी कौर के नाम से ही जाना- पहचाना व पढ़ा जाए।

शिवानी पत्नी श्री अमर कटारिया, हाउस नंबर 35, अद्वैतानंद मार्ग, भजन आश्रम-2 ऋषिकेश, जिला देहरादून।

सूचना

बेसमेन्ट में स्थित दुकान भाग सम्पत्ति सं0-1 भाग मुंन्सीपल नं0-75/12 इंडस्ट्रीयल एस्टेट पटेलनगर खसरा नं0-646घ मौजा देहराखास देहरादून से संबंधित मूल विक्रय पत्र गुम हो गये है।
1.विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2012 दस्तावेज सं0-2455 जो कि श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश ने श्रीमती रजनी जैन पत्नी श्री अनलि जैन व श्री अनिल जैन पुत्र स्व० श्री प्रेमचन्द जैन को विक्रय की थी जिसका पंजीकरण कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून में बही नं0-1 जिल्द सं0-4411 पृष्ठ सं0-185 से 226 दस्तावेज सं0-2455 पर दिनांक 26.03.2012 को विधिवत रूप से दर्ज व पंजीकृत है।
2. विक्रय पत्र दिनांक 15.07.2011 दस्तावेज सं0-5175 जो कि श्रीमती पूजा सेठी पत्नी श्री अशोक सेठी ने नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश को विक्रय की थी जिसका पंजीकरण कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून में बही नं0-1 जिल्द सं0-4016 पृष्ठ सं0-189 से 322 दस्तावेज सं0-5175 पर दिनांक 15.07.2011 को विधिवत रूप से दर्ज व पंजीकृत है। विक्रय पत्र दिनांक 23.10.2010 दस्तावेज सं0-8964 जो कि श्रीमती सुनीता ग्रोवर पत्नी श्री रवि ग्रोवर ने श्रीमती पूजा सेठी पत्नी श्री अशोक सेठी को विक्रय की थी जिसका पंजीकरण कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून में बही नं0-1जिल्द सं0-3624 पृष्ठ सं0-267 से 298 दस्तावेज सं0-8964 पर दिनांक 23.10.2010 को विधिवत रूप से दर्ज व पंजीकृत है। इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां वास्तव में कहीं खो गई हैं और बहुत खोजबीन के बाद भी नहीं मिली इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। किसी और द्वारा इसका उपयोग अवैध होगा।

मो0 दानिश पुत्र श्री सरफराज अहमद निवासी 91 मुस्लिम कालोनी, जिला देहरादून,उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, विकासनगर-248198
कारपोरेट आइडेन्टीटी संख्या : U40109UR2001SGC025867 दूरभाष : 9412075946

निविदा सूचना

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई०सी० में पंजीकृत, विद्युत कार्यों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त "ए" क्लास लाइसेंसधारक अनुभवी ठेकेदारो से मोहरबन्द निविदायें दो भागो में (प्रथम भाग में धरोहर राशि, जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, विकासनगर के नाम बनाई जायेगी, 180 दिनो के लिए वैद्य हो एवं नियम व शर्तें, प्रपत्र इत्यादि तथा द्वितीय भाग में दरें हों) दिनांक 03–06–2025 को 15:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं जो उसी दिन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में 15:30 बजे सार्वजनिक रूप से खोली जाएंगी। निविदा प्रपत्र एवं सम्बन्धित विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिनांक 02–06–2025 को सांय 17:00 बजे तक नकद धनराशि जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा विक्रय करने की तिथि/खुलने की तिथि को किसी कारण अवकाश होने पर उक्त कार्य अगले कार्य दिवस पर होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। विस्तृत नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र में वर्णित है।

निविदा संख्या 09/EDDV/2025–26 :– विद्युत वितरण उपखण्ड चकराता के अधीन विभिन्न क्षमता के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने का कार्य इत्यादि। धरोहर राशि रू0 45,000.00, निविदा प्रपत्र का मूल्य रु० 1000.00+जी०एस०टी० अतिरिक्त।

निविदा संख्या 10/EDDV/2025–26 :– विद्युत वितरण उपखण्ड डाकपत्थर के अधीन विभिन्न क्षमता के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने का कार्य इत्यादि। धरोहर राशि रू0 45,000.00, निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1000.00+जी०एस०टी० अतिरिक्त।

पत्रांक : 2718/वि0वि0ख0वि0/ दिनांक : 16.05.2025 **अधिशासी अभियन्ता**

"राष्ट्र हित में बिजली बचायें" बिजली बचाने हेतु एल0ई0डी0 बल्ब का प्रयोग करें। (टोल फ्री नं0 1912) विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाईन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जाएँ (विद्युत चोरी की सूचना टोल फ्री नं0 1800 180 4185 / फैक्स संख्या 0135–2760911 पर दें)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, मसूरी, देहरादून–248003
फोन नं. : 0135–2736032 e-mail: jalnigam.mussoorie@yahoo.com

पत्रांक–1219/135/37 **अल्पकालीन निविदा सूचना** दिनांक:– 16.05.2025

अध्यक्ष उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्यों के लिये सम्मुख अंकित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें दिनांक 31.05.2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन (अथवा अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस में) अपराह्न 3:30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा का मूल्य (रु0 में)	निविदा विक्रय की अन्तिम तिथि	पंजीकरण की श्रेणी
1	गुलरखाला पेयजल योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने, श्रोत निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्य।	26200.00	03 माह	1500.00 + GST@18%	30.05.2025	"डी" श्रेणी या उससे उच्चतर (पाईप लाईन)

अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, विद्युत वितरण खण्ड, भगोती रोड, नारायण बगड (चमोली)
कारपोरेट आई.डी. नं० U40109UR2001SGCO25867 दूरभाष : 01363 – 255215

विधुत बाधित सूचना

विधुत वितरण खण्ड नारायणबगड के अन्तर्गत सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है 132 के0बी0 उपसंस्थान सिमली से निकलने वाली 33 के०वी० विद्युत लाईन पर नगे तारो को कवड कन्डक्टर मे बदलने तथा लौपिंग चौपिंग का कार्य किया जाना है जिसके कारण निम्न उपसस्थान से सम्बधित 33/11 के०वी० पोषकों की विद्युत आपूर्ति पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित रहेगी।

दिनांक	समय	33/11 उपसंस्थान का नाम		प्रभावित क्षेत्र
17/05/2025 (शनिवार)	प्रातः 10:00 से सायं 04:00 बजे तक।	थराली	इन समस्त 11के0बी0 पोषको की सप्लाई बन्ध रहेगी।	थराली, बाजार, ग्वालदम, देवाल, इत्यादि ।
18/05/2025 (रविवार)		नारायणबगड		नारायणबगड़ बाजार, केवर, रेंस, चोपता इत्यादि ।
		देवाल		देवाल बाजार इत्यादि

अतः समस्त उपभोक्ताओ से निवेदन है कि इस कार्य हेतु अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बनाये रखें एवं विद्युत विभाग को सहयोग करने की कृपा करें।

No.269/EE(CM)/UPCL/A-2/Dated : 16/05/2025 अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्र हित में बिजली बचायें,
बिजली बचाने हेतु एल०ई०डी बल्ब का प्रयोग करें। (टोल फ्री नं०1912) विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाइन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जाए। (विद्युत चोरी की सूचना टोल फ्री नं० 1800 180 4185/फैक्स संख्याः 0135-2760911 पर दें।

BRIDCUL (ब्रिडकुल)

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड
इकाई कार्यालयः अवस्थापना भवन, 583 – ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून–248001
टैलीफोन–0135–2522941, ई–मेलः pmbridcul.ddn@gmail.com,CIN No. U45203UR2008SGC032591

Ref No: 266/BRIDCUL-233/25 **Dated: 16/05/2025**

NIT (Notice Inviting Tender)

On behalf of Managing Director, BRIDCUL, sealed **Item Rate Tenders** with Post Qualification, are invited in two separate envelops (Technical and Financial) simultaneously from Contractors Empanelled with BRIDCUL in Civil work Category-III (upto 2 Crore) and as per the detailed specification, terms & Conditions given in the tender documents for following work:-

S. No.	Name of Work	Estimated Cost with GST & All Taxes (In Lac)	Bid Security/EMD (In Rs.)	Cost of Tender From	Tender Document can be obtained / submitted at
1.	Additional Civil works at Common Waste Recycling Plant at District Haridwar	10.28	75000.00	Rs. 5000.00 + 18% GST	Project Unit BRIDCUL Dehradun

The tender documents can only be purchased from the office of the respective Project Manager between 10.00 am to 5.00 pm on all working days from **17.05.2025 to 30.05.2025.** The cost of tender document amounting to Rs 5000+18% GST, will be paid while purchasing the tender documents, by cash or Demand Draft in the favour of Project Manager, BRIDCUL, Dehradun. The tenders should reach the office latest **by 1500 hours on 30.05.2025 and the technical bid shall be opened at 1530 hours on the same day** in presence of tenderers who choose to be present.

Project Manager
BRIDCUL

कार्यालय नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग

पत्रांक : 242/सोर्स सैग्रिगेशन/डोर–टू–डोर/2025–26 दिनांक : 16–05–2025

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग, द्वारा पालिका निधि से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत् नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत् सम्पूर्ण वार्डो/क्षेत्रों से सोर्स सैग्रिगेशन के अन्तर्गत् प्रत्येक घर से प्रतिदिन डोर–टू–डोर जैविक तथा अजैविक कूड़ा उठान कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र दिनांक 02–06–2025 को प्रातः 11.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर 3:00 बजे तक सम्बन्धित निविदादाताओं /अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 31–05–2025 को निर्धारित निविदा शुल्क जी0एस0टी0 सहित अदाकर सांय 02.00 बजे प्राप्त किये जायेंगे। किसी भी निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा समिति नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग में निहित होगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् प्रत्येक निविदा की मूल्य धनराशि का 3 प्रतिशत की धनराशि को स्टाम्प शुल्क के रुप में जमा करना होगा। अन्य जानकारी व शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को देखी की जा सकती है। इस सूचना को जनपद की बेवसाइट http://rudraprayag.nic.in पर नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत भी देखा जा सकता है।

क0सं0	विवरण	अवधि	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	न्गर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत् सोर्स सैग्रिगेशन के अन्तर्गत् समस्त वार्ड/समस्त क्षेत्रों में निवासरत प्रत्येक घर से प्रतिदिन डोर–टू–डोर जैविक तथा अजैविक कूड़ा एकत्रित कर कूड़ा प्वाईंट पर ले जाना तथा पालिका के कूडा वाहनों में रखवाना।	अनुबन्धनामा 31.03.2026 तक	30,000	500.00 + जी0एस0टी0

नियम एवं शर्तें :

1– निविदादाता को निविदा बोली के साथ जमानत धनराशि (रू0 30,000) को भी नगद/सी.डी.आर/एफ.डी.आर/एन0एस0सी0 के रूप जमा करना होगा जो कि अनुबन्ध पूर्ण होने पर पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी। सी.डी.आर/एफ.डी.आर/एन0एस0सी0 अधिशासी अधिकारी के नाम से बन्धक होनी चाहिए, जिनकी बोली स्वीकृत नही होगी उनकी धनराशि सी.डी.आर/एफ.डी.आर/एन0एस0सी0 वापस कर दी जायेगीं।
2– निविदा स्वीकृत होने की दशा मे ठेकेदार को नियमानुसार अनुबन्ध करते समय उपरोक्त निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2018 के अनुसार 3 प्रतिशत जमानत धनराशि जो कि केवल राष्ट्रीय बचतपत्र/एफ0डी0आर0 के रूप में हो अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से उपरोक्तानुसार बन्धक होनी चाहिये।
3– टेण्डर साफ भरना चाहिये और उसमे ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहियें।
4– निविदा स्वीकृत के एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अनुबन्ध गठित करना होगा, ऐसा न होने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5– निविदा से सम्बन्धित समस्त अधिकार, निविदा समिति/क्रय समिति नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग में निहित होगी, किसी भी निविदा के सम्बन्ध में निविदा समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा, निविदा समिति के मांगे जाने पर निविदादाता को मूल प्रमाण पत्र तत्समय ही प्रस्तुत करने होगे।
6– फर्म/संस्थाका जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन तथा पैन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
7– निविदादाता/फर्म को रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर कही भी ब्लैक लिस्ट ना होने का प्रमाण पत्र अथवा/नोटरी द्वारा जारी शपथ पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
8– निविदादाता/फर्म को निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रू0 01 के रसीदी टिकट सहित संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
9– निविदादाता/ फर्म किसी भी सरकारी संस्था/प्राईवेट संस्थान अथवा 02 अन्य किसी पालिकाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन/जैविक अजैविक सोर्स सैग्रिगेशन आदि कार्य में अनुभव होना अनिवार्य होगा तथा निविदा में अनुभव प्रमाणपत्र की छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
10– संबंधित के नाम निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त फर्म द्वारा पालिका क्षेत्र के समस्त घरों से जैविक तथा अजैविक कूड़ा उठान करेगी, जिसके पश्चात् एकत्रित अलग–अलग कूड़े को निर्धारित प्वाईंट पर सुरक्षित लाकर पालिका के कूड़ा वाहनों में सुरक्षित रखा जायेगा।
11– संबंधित निविदा दाता के नाम निविदा स्वीकृत होने की दशा में फर्म/निविदादाता द्वारा डोर–टू–डोर कार्य में लगे कार्मिक/मजदूर के दुर्घटना/चोटिल होने पर फर्म उक्त का जिम्मेदार स्वयं रहेगा, पालिका का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा।
12– संबंधित फर्म द्वारा प्रत्येक घर से डोर–टू–डोर उठाये जाने वाले कूड़े का निर्धारित यूजर चार्ज माह के अंत मे प्रति परिवार से प्राप्तकर यूजर चार्ज की धनराशि प्रतिमाह पालिका कार्यालय में जमा कराना कराना होगा।
13– नगर क्षेत्र में डोर–टू–डोर कूड़ा उठान के दौरान संबंधित परिवारों से कूड़ाना उठने की शिकायतें प्राप्त होने पर इस निकाय द्वारा की गई कार्यवाही के लिए संबंधित फर्म/निविदादाता स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
14– डोर–टू–डोर कूड़ा उठान में संबंधित फर्म/निविदादाता द्वारा लगाये गये मजदूरों का पुलिस सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा।
15– किसी भी प्रकार से वाद होने के सम्बन्ध में वाद न्यायालय क्षेत्र रूद्रप्रयाग रहेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
रूद्रप्रयाग।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
रूद्रप्रयाग।

डीएम के जनसुनवाई शिविर में 130 शिकायतें

पेयजल और सड़क प्रमुख मुद्दे, जिलाधिकारी ने मौके पर किया कई समस्याओं का निस्तारण

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। बैलपड़ाव स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में जिला. धिकारी वंदना की अध्यक्षता में जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया। जनसुनवाई में कुल 130 आवे. दन विभिन्न समस्याओं से सबंधित प्राप्त हुए। अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान जिन समस्याओं का मौके पर समाधान नहीं हो पाया उनके समाधान हेतु एक अवधि निर्धारित करते हुए विभागों को निर्देश देते हुए जिम्मेदारी तय की गई। शिविर में मुख्य रूप से नलकूप, पेयजल से संबंधित मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। जिला अधिकारी ने पेयजल एवं नलकूप विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर भ्रमण कर इन समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से लेते हुए उनका एक निर्धारित समय पर अधिकारी

समाधान करें। शिविर में विभिन्न गांवो में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अधूरे पेयजल लाइनों को पूर्ण किए जाने, सहित विभिन्न समस्याएं क्षेत्र वासियों द्वारा शिविर में जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई। प्रमुख रूप से बैलपड़ाव एवं कालाढूंगी क्षेत्र के विभिन्न गांव में जहां पूर्व में नाबार्ड के माध्यम से पेयजल लाइन का निर्माण कार्य कराया गया था उक्त योजना में वर्तमान में पेयजल सुविधा ग्रामीणों को न मिलने की शिकायत पर जिला. धिकारी ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान को बैलपड़ाव क्षेत्र के 16 ग्राम पंचायतों एवं कालाढूंगी क्षेत्र के ऐसे ग्राम पंचायतों हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल लाइन निर्माण का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में जिन घरों में अभी तक पेयजल संयोजन नहीं हो पाया है जो जल संयोजन से छूटे हैं उन्हें भी जल संयोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु सर्वे करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पेयजल निगम एवं जल सस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो ठेकेदार धीमी प्रगति से या कार्य ही नहीं कर रहे हैं उन ठेकेदारों का बॉन्ड निरस्त करते हुए नया टेंडर लगाते हुए कार्य प्रारंभ किया करें साथ ही कार्य न करने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डाले जाने हेतु कार्रवाई करें। शिविर में ग्राम सिमलचौड़, गेबुआ बंदरजुड़ा, मड़कनपुर, बेल पोखरा, धनपुर, विजयपुर धमोला, रतनपुर, बैलपड़ाव, नयागांव, चकलवा इन गांव में सिंचाई नलकूप खराब होने व सिंचाई, पेयजल की शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी के सम्मुख रखी गई। इस संबंध में जिला. धिकारी ने अधिशासी अभियंता नलकूप से क्षेत्र में खराब नलकूप की मरम्मत एवं सिंचाई व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी लेने पर अवर अभियंता की लापरवाही पर उसे तत्काल क्षेत्र से हटाते हुए अन्य अवर अभियंता की तैनाती के निर्देश दिए दिए, साथ ही वर्तमान अवर अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अधिशासी अभियंता को आदेशित किया। जिला. धिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का समाधान विकासखंड स्तर पर हो सकता है उन्हें जिला स्तर पर न पहुंचाया जाए इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण की समस्याओं से भी क्षेत्र वासियों द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिसके समाधान हेतु लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लो. निवि के अधिकारीयों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जितनी भी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनकी मरम्मत का प्रस्ताव 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं। इस दौरान क्षेत्र वासियों द्वारा विकासखंड कोटाबाग में आधार सेंटर स्थापित करने की मांग भी रखी जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र वासियों द्वारा बंदरों व आवारा जानवरों से हो रहे नुकसान की रोकथाम की मांग जिला. धिकारी के समूह रखी इस संबंध में जिलाधिकारी ने वन विभाग को बंदर पकड़े जाने हेतु पिंजड़ा लगाने तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कालाढूंगी को में आवारा जानवरों को गौशादन में रखे जाने के निर्देश दिए। शिविर में कालाढूंगी नगर अंतर्गत वार्ड संख्या एक में गलत तरीके से बनाए गए राशन कार्ड का मामला भी रखा गया। शिविर में विभिन्न भागों द्वारा अपने विभागीय स्टॉल लगाकर विभागीय योजना की जानकारी दी गई और जनता को लाभान्वित किया गया। शिविर में विधायक कालाढूंगी बंशीधर भगत, प्रशासक विकासखंड कोटाबाग रवि कन्याल, मुख्य विकास अधिकारी अनामिका रहीं।

डा. सुशीला तिवारी की पुण्यतिथि मनाई

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। शुक्रवार को कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हरेंद्र क्वीरा के साथ एस पनेरू कैलाश थुवाल, कैलाश दुम्का, कुन्दन सिंह मेहता और वरिष्ठ समाजसेवी एवं पूर्व भाजपा पदाधिक. ारी के नेतृत्व में डा. सुशीला तिवारी की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर हरेंद्र क्वीरा ने डा. सुशीला तिवारी के योगदान को याद करते हुए कहा कि स्व. नारायण दत्त तिवारी ने जब अपनी पत्नी डा. सुशीला तिवारी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते देखा, तो वे अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने यह ठाना कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की आम जनता को भी बेहतर इलाज की सुविधा मिले। इसी सोच के साथ उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को लाकर सुशीला तिवारी अस्पताल का शिलान्यास कराया। क्वीरा ने कहा कि हर व्यक्ति अमेरिका जाकर इलाज नहीं करा सकता, इसलिए इस अस्पताल की स्थापना हुई, जहां आज हजारों लोगों को उन्नत चिकित्सा सुविधा मिल रही है। इस मौके पर प्राचार्य डा. अरुण जोशी, एमएस डा. तितियाल, पीआरओ आलोक उप्रेती, पुष्पा नेगी, गीता देवी सहित कई लोग मौजूद रहे।

ताज चौराहा का नाम डा. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की मांग

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। शुक्रवार को भीम आर्मी के जिला प्रभारी बीएल आर्य के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने महापौर गजराज बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर ताज (छतरी) चौराहे का नाम भारत रत्न डा. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि नगर निगम द्वारा पहले ही इस नामकरण का प्रस्ताव पास कर दिया गया था और चौराहे को फ्लेक्सी, बैनर व फूलों से सजाकर अनावरण की तैयारी कर ली गई थी। हालांकि, 31 मार्च 2025 को कार्यक्रम से कुछ समय पहले ही इसे बिना कोई स्पष्ट कारण बताए रद्द कर दिया गया और डा. कलाम के नाम की फ्लेक्सी-बैनर बेरहमी से फाड़ दिए

गए। इससे न केवल पूर्व राष्ट्रपति का अपमान हुआ बल्कि शहरवासियों की भावनाएं भी आहत हुईं। संगठनों ने महापौर से मांग की कि पूर्व में पारित प्रस्ताव के अनुरूप ताज चौराहे का नाम डा. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही किया जाए और वहां उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। कार्यक्रम में बीएल आर्य, जीआर टम्टा, राजेश राज, दीपक चनियाल, सुंदरलाल बौद्ध, आरपी गंगोला, सिराज अहमद, नफीस अहमद, विकास कुमार चौहान, नवीन मूल निवासी, लक्ष्मी नारायण, हरीश कुमार लोधी, जीवन आर्य, पीआर टम्टा, आरएस कुटियाल, जगदीश चंद्र आर्य व फिरोज खान समेत कई लोग शामिल रहे।

चार दिन बाद भी नहीं लगा प्रॉपर्टी डीलर के बेटे का सुराग

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। अंबाविहार, तल्ली हल्द्वानी निवासी रियल एस्टेट कारोबारी सतीश खुल्बे का 16 वर्षीय बेटा चार दिन से लापता है। जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बता दें कि दसवीं बोर्ड का रिजल्ट आने से ठीक पहले छात्र के अचानक गायब हो जाने से परिजन बेहद परेशान हैं। पुलिस के अनुसार, छात्र के लापता होने की सूचना पर सीओ नितिन लो. हनी के नेतृत्व में पुलिस टीमें आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है, और हर संभावित स्थानों पर तलाश जारी है। लापता छात्र के पिता सतीश खुल्बे रियल एस्टेट और ट्रेडिंग व्यवसाय से जुड़े हैं। पुलिस का दावा है कि शीघ्र ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया जायेगा।

साइबर ठगों ने बैंक कर्मी समेत दो लोगों से लाखों की ठगी

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। मुखानी क्षेत्र में साइबर ठगों ने दो लोगों को झांसे में लेकर कुल 5 लाख रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हरिद्वार के कनखल निवासी एक बैंक कर्मी से जुड़ा है, जो वर्तमान में हल्द्वानी में तैनात है। बैंक कर्मी ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि अज्ञात कॉलर ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर क्रेडिट कार्ड की जानकारी ली और बाद में 2.99 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। जबकि दूसरे मामले में हिम्मतपुर मल्ला निवासी एक व्यक्ति को अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल के बाद उसे निजी जानकारी साझा करने के लिए मैसेज भेजे गए, जिसके झांसे में आकर उसने जानकारी दे दी। इसके बाद दो अलग-अलग खातों से कुल 1.97 लाख रुपये निकल गए। इधर मुखानी थानाध्यक्ष विजय मेहता ने बताया कि दोनों पीड़ितों की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुक. दमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की गई है।

साइबर अपराध की जानकारी दी

हल्द्वानी। नैनीताल पुलिस की साइबर सेल टीम ने एनसीसी कैडेट्स को सोशल मीडिया सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक किया। यह कार्यक्रम रानीबाग स्थित एनसीसी कैंप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह ने किया। उनके साथ हेड कांस्टेबल शिवेंद्र सिंह और संदीप कुंवर ने कैडेट्स को सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने और ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। कैडेट्स को बताया गया कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज कराएं।

125 का चालान, 10 मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत हल्द्वानी शहर में व्यापक चेकिंग की गई। अभियान के दौरान 125 व्यक्तियों का ऑनलाइन और मैन्युअल चालान किया गया। साथ ही बिना सत्यापन के किरायेदार रखने पर 10 मकान मालिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। प्रत्येक मकान मालिक पर 10-10 हजार रुपये का कोर्ट चालान किया गया, जिससे कुल जुर्माना 1 लाख रुपये पहुंचा। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि बिना सत्यापन रह रहे बाहरी व्यक्तियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर किरायेदारों और नौकरों का सत्यापन कराएं।

वृद्धावस्था में चार वर्ष से परेशान हैं पेंशनर्स

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ पदाधिका. रियों के एक शिष्टमंडल ने शुक्रवार को विधायक सुमित हृदयेश से उनके

समस्याओं के समाधान के लिए विधायक से लगाई गुहार

आवास पर भेंट कर राज्य के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की और ज्ञापन दिया।

शिष्टमंडल ने विधायक को अवगत कराया कि वर्ष 2021 में घोषित राज्य स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत आज तक अधिकांश पेंशनर्स एवं

उनके आश्रितों को नियमित मासिक अंशदान कटौती के बावजूद भी स्वास्थ्य की सुविधाओं के लाभ से वंचित हैं। कई पेंशनर्स के इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके क्लेम लंबे समय तक लंबित है। पेंशनर्स ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और संबंधित विभागों से निरंतर शिकायतों के बावजूद बीते चार वर्षों में कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया है, जिससे वृद्धावस्था में उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक सुमित हृदयेश ने शिष्टमंडल की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि इन विषयों को वे प्राथमिकता के आधार पर आगामी विधानसभा सत्र में पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय राज्य की सेवा में समर्पित किया है, उनके अधिकारों की रक्षा एवं समस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पेंशनर्स से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार पर आवश्यक दबाव बनाएंगे और सदन में इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। इस दौरान लीलाधर पांडे, विजय तिवारी, नवीन जोशी, जगदीश खोलिया, लक्ष्मण सिंह गोनिया, रमेश चंद पांडे, भुवन चंद पांडे आदि मौजूद रहे।

पुलिस थानों में अग्नि सुरक्षा पर कार्यक्रम

हल्द्वानी। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय अग्निशमन एवं आपात सेवा से प्राप्त निर्देशों के तहत फायर यूनिट हल्द्वानी ने विभिन्न पुलिस थानों में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम का नेतृत्व अग्निशमन अधिकारी मिंदर पाल सिंह ने किया। इस दौरान कोतवाली हल्द्वानी थाना मुखानी, काठगोदाम और वनभूलपुरा थानों में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आग से बचाव के उपाय, आग बुझाने की विधियां और प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही थानों में मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेजों, मालखानों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अग्निशमन उपकरण लगाने के सुझाव भी दिए गए।

दीपांशु शर्मा बने भाजपा कार्यालय मंत्री

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। भारतीय जनता पार्टी हल्द्वानी नगर इकाई ने दीपांशु शर्मा को नया नगर कार्यालय मंत्री नियुक्त किया है। उनकी इस नियुक्ति पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। दीपांशु लंबे समय से भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अब तक नगर कार्यकारिणी सदस्य, नगर मीडिया प्रभारी और नगर मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अपनी नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए दीपांशु ने कहा मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह

बिष्ट और नगर अध्यक्ष मधुकर श्रोत्रिय का धन्यवाद करता हूं। मैं आश्वस्त करता हूं कि इस पद की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। दीपांशु को बधाई देने वालों में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन अरोड़ा, जिला महामंत्री रंजन सिंह बागली, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप कुकशाल, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कार्तिक हरबोला, युवा मोर्चा के जिला महामंत्री कनिष्ठ ढींगरा और नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा विशु शर्मा शामिल रहे।

तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आज, सीएम करेंगे अगुवाई

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज शनिवार को हल्द्वानी में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क नैनीताल रोड तक निक. ाली जायेगी और इसे भारतीय सशस्त्र बल द्वारा हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित किया जाएगा। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का मुख्य उददेश्य पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान के साथ ही नागरिकों, समुदायों और क्षेत्रों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना पैदा करना है। यात्रा में प्रतिभाग करने हेतु मुख्यमंत्री श्री धामी 17 मई को प्रात: 7.30 बजे खटीमा से हैली द्वारा प्रस्थान कर 8.15 बजे एफटीआई हैलीपेड पहुंचेंगे। वहां से कार द्वारा प्रस्थान कर प्रात: 8.25 बजे मिनी स्टेडियम पहुंचकर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में प्रतिभाग करेंगे। इसके पश्चात 10.20 बजे गौलापार हैलीपेड से देहरादून को प्रस्थान करेंगे। इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में पूर्व सैनिक, युवा, मातृशक्ति, स्कूली बच्चे, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी, उच्च शिक्षा, एनसीसी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, बैणी सेना, व्यापार मंडल, एफटीआई, निजी कॉलेजों एवं आमजनमानस द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

बागजाला की उपेक्षा के खिलाफ 27 को चेतावनी रैली

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में बागजाला के ग्रामीण 27 मई को बुधपार्क, हल्द्वानी में एक चेतावनी रैली निकालेंगे। यह

ग्राम समिति की बैठक में शासन-प्रशासन पर आक्रोश

रैली पेयजल संकट, मालिकाना अधिकार, सड़क और निर्माण कार्यों की अनदेखी के खिलाफ सरकार और प्रशासन को चेताने के उद्देश्य से की जा रही है। इस संबंध में बाग. जाला ग्राम समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता पर कड़ा रोष जताया गया। किसानों का कहना है कि लगातार

ज्ञापन देने और अधिकारियों से मिलने के बावजूद न तो पेयजल संकट का समाधान हुआ है, न ही निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाई गई है। ज्ञापन में मांग की गयी है कि हर घर जल योजना के तहत रुकी पेयजल योजना शुरू की जाए। ग्रामवासियों को उनकी भूमि पर मालिकाना हक दिया जाए। सड़क व भवन निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाई जाए। पुरानी पेयजल योजना की आपूर्ति सुधारी जाए। किसान महासभा प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी ने कहा कि बागजाला में बसासत आजादी से पहले की है, लेकिन यहां आज भी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि विकास कार्यों पर बार-बार रोक लगाई जा रही है। भाकपा (माले) के जिला सचिव डा. कैलाश पांडेय ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे सरकार की जिम्मेदारी और स्पष्ट होती है। वेद प्रकाश, ग्राम सचिव, ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत पेयजल कार्य वन विभाग द्वारा रोके जाने के बाद ठप पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को भारी संकट झेलना पड़ रहा है। प्रचार सचिव पंकज चौहान ने कहा कि अमृत काल में भी पेयजल के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बैठक की अध्यक्षता विमला देवी और संच. ालन वेद प्रकाश ने किया। इस अवसर पर मीना भट्ट, चन्दन सिंह मटियाली, हरक सिंह बिष्ट, पुष्पा भट्ट, रईस अहमद, यासीन, लीला देवी, नाजिम उपस्थित रहे।

तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा से बढ़ेगा देश का गौरव

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डा. अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर हर नागरिक सैनिकों का सम्मान करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा। उन्होंने कहा कि लोगों में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्साह का वातावरण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हर नागरिक को अपनी सेना और अपने नेतृत्व पर गर्व महसूस हो रहा है। पूरा देश अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद को उसकी जमीन पर जवाब देते हुए यह सिद्ध किया कि भारत अपनी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार है। यह सफलता न केवल सैन्य विजय है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की सख्त और संतुलित छवि भी पेश करती है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा में अद्वितीय साहस दिखाया। यह युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करेगी और राष्ट्र के प्रति समर्पण को प्रकट करेगी। उन्होंने आम नागरिकों से समय पर पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।

कांग्रेस का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। नैनीताल जिला और हल्द्वानी महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से कांग्रेस मुख्यालय स्वराज आश्रम में आयोजित दो

कार्यकर्ताओं को संगठन और सामाजिक सरोकारों पर किया गया जागरूक

दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का सफल समापन हो गया। इस शिविर का उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना, जनसंपर्क कौशल और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक करना था। शिविर के दूसरे दिन की

शुरुआत श्रमदान (सफाई अभियान) से हुई।

इसके बाद ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शिविर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभारी नवप्रभात ने कार्यकर्ताओं से समाज सेवा, अनुशासन और जनहित के लिए सजग रहने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षक मृणाल पंत और सीताराम लांबा ने सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, संगठन की कार्यप्रणाली, नेतृत्व, संवाद कला और सामुदायिक समस्याओं के समाधान जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए। समापन अवसर पर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने माहौल को ऊर्जा से भर दिया। इस मौके पर शहर विधायक सुमित हृदयेश ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए सभी प्रतिभागियों, आयोज. कों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल और महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने जानकारी दी कि इस शिविर में बिंदुखत्ता, हल्द्वानी, लालकुआं, बरेली रोड, नैनीताल, भीमताल, भवाली, रामनगर, धारी, रामगढ़, ओखलकांडा, कालाढूंगी, गौलापार, बेतालघाट आदि क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शिविर में पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश नैनीवाल, मनोज शर्मा, हेमवतीनंदन दुर्गापाल, अशोक जोशी, धर्मेंद्र शर्मा, भोला दत्त भट्ट, राकेश बृजवासी, देवेंद्र चनोतिया, डा. भावना भट्ट, खष्टी बिष्ट, मधु संगुड़ी, सुमित लोहनी, मलय बिष्ट, सुहैल सिद्दीकी, तारा नेगी, कुंदन नेगी, हेम पांडे, अनुपम कबड़वाल, मोहन बिष्ट, हेमंत पाठक, संजय किरोला, महेश कांडपाल, पुष्कर दानू, उमेश कबड़वाल, मीमांसा आर्या, गीता बहुगुणा, मयंक भट्ट, राजेन्द्र उपाध्याय, नीरज तिवारी, गिरीश पांडे, महैशानंद, इंद्रपाल आर्या, संदीप भैसोड़ा, रमेश तिवारी, अमित रावत, प्रेम मेहरा, लक्ष्मी दत्त पलड़िया, हरेंद्र बोरा, हिमांशु जोशी, भगवती बिष्ट, संजय बिष्ट, भारती देवी, अंजू चौधरी, दिनेश चंद्र सांगुड़ी, करुणा शंकर कांडपाल, ताहिर हुसैन आदि मौजूद रहे।

भाजपा मंडल अध्यक्ष ने किया मंडल का विस्तार

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। लालकुआं विधानसभा से गौलापार चोरगलिया क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष पान सिंह मेवाड़ी ने अपने मंडल का विस्तार करते हुए 15 पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा 30 मंडल कार्य समिति के सदस्य नामित किए हैं। उन्होंने बताया कि राजेंद्र सिंह बिष्ट, बसंत आर्य, भावना आर्य व किशोर चुफाल को मंडल उपाध्यक्ष और बालम बिष्ट व नवीन जोशी को मंडल महामंत्री का दायित्व दिया गया है। वहीं चंदन नैथानी, माला आर्य, पंकज भट्ट व राजेंद्र जांगी को मंडल मंत्री, विक्रम बर्गली मंडल कोषाध्यक्ष, गीता कुंवर मंडल कार्यालय मंत्री, बलजीत मिनहास मंडल मीडिया संयोजक, हीरा बिष्ट मंडल आईटी संयोजक और योगेश बोरा मंडल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। मंडल अध्यक्ष मेवाड़ी ने बताया कि केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में देश व प्रदेश में किया जा रहे विकास कार्यों को और तेज गति से धरातल पर पहु. चने के लिए मंडल कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। सभी पदाधिकारी जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करेंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचने में मदद करेंगे।

शाह टाइम्स
स्वामी शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक एस.एन. राना द्वारा शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. सुजड़ू चुंगी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर से मुद्रित एवं 63/9 ई-राजपुर रोड देहरादून से प्रकाशित।
सम्पादक: एस.एन. राना
*कार्यकारी सम्पादक आनन्द बत्रा 'सुमन'
स्थानीय सम्पादक चेतन गुरूंग
देहरादून कार्यालय 63/9 ई-राजपुर रोड देहरादून
☎0135-2743363
R.N.I. No.UTT HIN 2001/05656
मोबाइल-9720007290
www.shahtimesnews.com
email:shahtimes2015@gmail.com
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु PRB एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद मुजफ्फरनगर न्यायालय के अधीन ही होंगे।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की नजर प्लेऑफ पर

बेंगलुरु, वार्ता। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में जगह पक्की करने उतरेगी वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना होगा।

■ कोलकाता नाइट राइडर्स को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में जीतना होगा

पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण एक सप्ताह के लिए स्थिगित हुए आईपीएल में ब्रेक के बाद आरसीबी के लिए अच्छी खबर रहीं उसने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी के साथ मयंक अग्रवाल, अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और ऑलराउंडर स्वप्निल सिंह का स्वागत किया है। इससे उनकी टीम मजबूत हुई है। आरसीबी अपने पिछले पांच मैचों में से चार जीत से उत्साहित है। आरस.ीबी फिलहाल 11 मैचों में 16 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है और आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उसे बस एक और जीत की जरूरत है। वहीं कोलकाता नाइटराइडर्स के 12 मैचों में 11 अंकों के साथ छठे स्थान पर है और उसे प्लेऑफ के लिए अपने शेष दोनों मैच महत्वपूर्ण अंतर से जीतने होंगे तथा अन्य परिणामों पर निर्भर रहना होगा। विराट कोहली आरसीबी के लिए ताबीज बने हुए हैं, जिन्होंने इस सीजन में 63.12 की औसत से 505 रन बनाए हैं। केकेआर के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 32 पारियों में 1,021 रन बनाये है। आरसीबी को उम्मीद है कि वह अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखेंगे। फिल साल्ट की वापसी से टीम को एक और बढ़ावा मिला है, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने सीएसके के खिलाफ 14 गेंदों पर नाबाद 53 रन की तूफानी पारी खेली, जो निचले क्रम के लिए खतरा साबित हुई। रजत पाटीदार (239 रन) और टिम डेविड ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और भुवनेश्वर और क्रुणाल पांड्या के गेंदबाजी आक्रमण को अनुभव प्रदान करने के साथ, बेंगलुरु संतुलित दिख रही है। हालांकि, यश दयाल और रसिख डार जैसे युवा गेंदबाजों पर दबाव बना रहेगा कि वे मुश्किल समय में अपना संयम बनाए रखें। इस बीच, केकेआर इस मैच में कमजोर स्थिति में है वह पिछले पांच मैचों में केवल दो में ही जीत हासिल कर पाए हैं और उनके अभियान में सामंजस्य की कमी है। आंद्रे रसेल का शानदार प्रदर्शन 'पिछली दो पारियों में 95 रन' उम्मीद जगाता है, जबकि अजिंक्य रहाणे 375 रन बनाकर टीम की बल्लेबाजी सूची में सबसे आगे हैं।

संक्षिप्त खेल समाचार

पाओलिनी-गॉफ के बीच होगी इटैलियन ओपन में खिताबी भिंड़त

रोम, वार्ता। इटली की स्टार टेनिस खिलाड़ी जैस्मीन पाओलिनी और अमेरिका की कोको गॉफ शनिवार को इटैलियन ओपन में महिला एकल के फाइनल में भिड़ेंगी। पाओलिनी ने गुरुवार को महिला एकल में पीटन स्टर्न्स के खिलाफ 7-5, 6-1 की जीत दर्ज कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। वह इस जीत के साथ ही 2014 के बाद इस टूर्नामेंट के एकल के फाइनल में पहुंचने वाली इटली की पहली महिला बन गई हैं। दुनिया की पांचवें नंबर की खिलाड़ी पाओलिनी को शुरुआती दौर में संघर्ष करना पड़ा और ओपनर में 5-3 से पिछड़ने पर उन्हें सेट प्वाइंट का सामना करना पड़ा, लेकिन गॉफ सर्विस नहीं बचा पाईं। पाओ.लिनी ने घरेलु दर्शकों के बीच पहले सेट में बढ़त बनाकर आत्मविश्वास हासिल किया और दूसरे सेट में दबदबा बनाया। पाओलिनी ने गॉफ के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला जीत लिया।

पीकेएल सीजन-12 के लिए होगी खिलाड़ियों की नीलामी

मुम्बई, वार्ता। प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीजन 12 के लिए मुम्बई में 31 मई और एक जून को खिलाड़ियों की नीलामी होगी। मशाल स्पोर्ट्स ने आज आगामी प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 के लिए खिलाड़ियों के नीलामी की तारीखों की घोषणा कर दी। सीजन 12 की यह नीलामी एक और शानदार सीजन की शुरुआत का संकेत है। एक बार फिर चैंपियन टीम अपनी ट्रॉफी बचाने उतरेगी और देश-विदेश से जुड़े प्रशंसक कबड्डी के जोश को नए स्तर पर ले जाएंगे। प्रो कबड्डी के नए सत्र को लेकर मशाल के बिजनेस हेड और प्रो कबड्डी लीग के लीग अध्यक्ष अनुपम गोस्वामी ने कहा कि हम पीकेएल सीजन 12 के खिलाड़ियों की नीलामी की।

स्टार्क का आईपीएल के शेष मैचों में खेलने से इन्कार

सिडनी, वार्ता। दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में फिर से खेलने से इन्कार करते हुए भारत नहीं लौटने का फैसला किया है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सूत्रों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड दोनों आईपीएल में अपने शेष मैच खेलने के लिए वापस भारत जायेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद का फाइनल में नहीं पहुंचना तय है। इसलिए हैदराबाद की टीम के खिलाड़ियों की समय सीमा 25 मई को पूरी हो जायेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अन्य खिलाड़ियों की बात की जाये तो जॉश हेजलवुड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिताबी मुक.ाबले में वापसी करने से पहले कंधे की चोट का आकलन करेंगे। जॉश इंग.लिस ने पंजाब किंग्स के लिए वापसी की अपनी योजना पर फैसला टाल दिया है, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्टार्क के साथी जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने भी आईपीएल टूर्नामेंट से बाहर होने का विकल्प चुना है। उल्लेखनीय है कि मिचेल स्टार्क दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल के लिए घोषित की गई ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर दिल्ली की टीम मौजूदा सीजन के फाइनल में पहुंचती है तो स्टार्क को आईपीएल 2025 के अपने वेतन का एक तिहाई हिस्सा छोड़ना होगा। मिचेल स्टार्क ने टूर्नामेंट में अभी तक खेले 11 मैचों में 14 विकेट लिए हैं। अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ में पहुंचती है तो उन्हें स्टार्क की कमी महसूस होगी।

जापान की तर्ज पर देशभर में ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा भारत

● बीसीसीआई 2-3 खेलों का जिम्मा उठाएगा, राजीव शुक्ला बोले- खेलों के नाम मंत्रालय तय करे

नई दिल्ली, वार्ता। भारतीय खेल मंत्रालय जापान की तर्ज पर देशभर में ओ.लिंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने जा रहा है। ये सेंटर्स कारपोरेट के सहयोग से बनाए जाएंगे। इनमें से 2-3 सेंटर्स की जिम्मेदारी बीसीसीआई लेगा। इस योजना पर इस साल काम शुरु हो जाएगा।

बीसीसीआई ने खेलमंत्री मनसुख मांडविया के साथ बैठक में यह प्रस्ताव रखा। इस बैठक में कारपोरेट जगत के 58 मेंबर्स ने हिस्सा लिया। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि ओलिंपिक स्पोर्ट्स के विकास के लिए कारपोरेट जगत की भागेदारी तय करने के लिए आयोजित इस बैठक में देश में जापान की तर्ज पर ओ.लिंपिक सेंटर्स खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड दो-तीन खेलों का जिम्मा लेने को तैयार है और यह मंत्रालय तय करेगा कि वे खेल कौन से होंगे। हर सेंटर में एक ओलिंपिक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हर सेंटर में एक-एक ओलिंपिक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होगी। लास एंजिलिस ओलिंपिक 2028 को ध्यान में रखकर इनमें उस खेल के 100 से 200 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक ही जगह पर आधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं और स्पेशलिस्ट मुहैया कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ओलिंपिक सेंटर्स से प्रेरणा ली है। जहां से कई ओलिंपिक मेडलिस्ट निकले हैं। भारतीय मूल के खिलाड़ियों का चयन होगा भारतीय खेलों खासकर टेनिस और फुटबाल को मजबूत बनाने के लिए विदेश में बसे भारतीय मूल के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में चयन की पात्रता फिर देने पर भी विचार किया जा रहा है। इस पर 2008 में रोक लगा दी गई थी और केवल भारतीय पासपोर्ट धारक ही भारत के लिए खेल सकते हैं।

मुस्तफिजुर के आईपीएल खेलने का रास्ता साफ

■ मिचेल स्टार्क की जगह लेंगे बीसीबी ने 18 से 24 मई के लिए एनओसी दिया

नई दिल्ली, वार्ता। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल खेलने का रास्ता साफ हो गया है। 29 साल के तेज गेंदबाज को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है। बीसीबी ने शुक्रवार को एक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि रहमान 18 से 24 मई के बीच आईपीएल खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अनुसार, रहमान 17 मई को यूएई के खिलाफ पहला टी-20 मैच खेलेंगे।

उसके बाद इंडिया के लिए रवाना होंगे। जहां 18 से 24 मई तक दिल्ली के बचे लीग मैचों में हिस्सा लेंगे, हालांकि वे प्लेऑफ शुरू होने से पहले लौट जाएंगे। रहमान को दिल्ली कैपिटल्स ने 6 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। वे ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क की जगह लेंगे। स्टार्क ने दिल्ली की ओर से आईपीएल के बचे मैच नहीं खेलने का फैसला लिया है। वे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। आईपीएल 2025 के बचे मुकाबले 17 मई से शुरू हो रहे हैं। इन्हें भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच रोक दिया गया था। बीसीबी के सीईओ ने कहा था कि हमने एनओसी नहीं मांगा दिल्ली ने रहमान को 6 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के सीईओ निजामुद्दीन चौधरी ने कहा था कि अभी तक बीसीबी से प्लेयर और बीसीसीआई ने इस एग्रीमेंट के लिए एनओसी नहीं मांगा गया है। उन्होंने कहा था- श्मुस्तफिजुर को टीम के साथ यूएई जाना है। हमें आईपीएल अधिकारियों से कोई संदेश नहीं मिला है।

मुझे मुस्तफिजुर से भी ऐसा कोई आधिका.रिक संदेश नहीं मिला है।श ऐसे में रहमान के आईपीएल में खेलने पर संदेह था। आईपीएल का शेडड्ूल बांग्लादेश के यूएई दौरे से क्लैश हुआ आईपीएल के बचे मैच का शेडड्ूल और बांग्लादेश के यूएई दौरे का शेडड्ूल क्लैश हो रहा है। आईपीएल के बचे मैच 17 मई से शुरू हो रहे हैं, जबकि बांग्लादेश को यूएई में 17 और 19 मई को दो टी-20 मैच खेलने हैं। फिर टीम को 25, 27 और 30 मई, 1 और 3 जून को पाकिस्तान से 5 मैच खेलने हैं। मुस्तफिजुर टीम के साथ यूएई के लिए रवाना भी हो गए हैं। रहमान ने बुधवार को यूएई के लिए रवाना होने के बाद यह फोटो पोस्ट की थी। 4 आईपीएल टीमों के लिए खेल चुके हैं। 2024 में वे चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। इसके अलावा मुस्तफिजुर मुंबई, दिल्ली और राजस्थान के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने कुल 57 आईपीएल मैचों में 61 विकेट लिए हैं। डीसी ने इस सीजन के उन्हें 6 करोड़ रुपये में शामिल किया हैं।

टेस्ट कप्तानी की रेस में राहुल का नाम आगे

मुंबई, वार्ता। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 7 और 12 मई को टेस्ट से संन्यास ले लिया। उनके रिटायरमेंट से टीम में लीडरशिप की कमी हो गई। रोहित 4 साल से कप्तान थे, वहीं कोहली की कप्तानी में टीम ने 8 साल तक विदेश में 15 टेस्ट जीते। जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा ही टीम के सीनियर प्लेयर बचे। राहुल और बुमराह को कप्तानी का अनुभव है। वहीं युवा शुभमन गिल और ऋषभ पंत भी कप्तानी की रेस में बने हुए हैं। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2 टेस्ट में कप्तानी की। पर्थ में टीम को जीत मिली, लेकिन सिडनी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। मुकाबले की पहली पारी में ही बुमराह इंजर्ड हो गए, उन्हें बैक स्पास्म की शिकायत हुई। जिसके बाद वह मैच में दोबारा बालिंग नहीं कर सके, इस कारण भारत दूसरी पारी में दबाव भी नहीं बना सका। बुमराह अक्सर फिटनेस से जूझते नजर आए हैं, 2022 में आखिरी बार इंजर्ड होने के बाद वह करीब 15 महीने तक क्रिकेट से दूर रहे थे। उन्हें लंबी टेस्ट सीरीज के दौरान 1-2 मैच का रेस्ट देना भी जरूरी होता है। भारत में तो जीतने के लिए बुम.राह का सभी मैच खेलना जरूरी भी नहीं। इसलिए उनका परमानेंट कप्तान बनना मुश्किल है। फिर भी अगर बुमराह कप्तान बने तो टीम को 1 या 2 उप कप्तान बनाने होंगे, जो बुम.राह की गैरमौजूदगी में जिम्मेदारी संभालते रहें। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बुमराह ने फिटनेस का हवाला देते हुए कप्तानी करने से मना कर दिया है। उनका इंग्लैंड में सभी मैच खेलना भी मुश्किल है। भारत की मौजूदा टीम में कुछ ही प्लेयर्स ऐसे हैं, जिनकी प्लेइंग-11 में जगह खतरे में नहीं दिखती। ऋषभ पंत उनमें से एक हैं। पंत पिछले 6 साल में दुनिया के बेस्ट विकेटकीपर बैटर बन चुके हैं। वे इस फार्मेट में कई मैच विनिंग पारियां खेल चुके हैं। पंत ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय विकेटकीपर भी हैं। पंत को कप्तान बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि उनकी बैटिंग भी बहुत रिस्की रहती है। मैनेजमेंट अगर उन्हें कप्तान बनाए तो टीम को उनकी बैटिंग की तरह ही कप्तानी में भी चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल सकते हैं। पंत ने किसी भी फार्मेट में भारत की कप्तानी नहीं की। हालांकि, उन्हें आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव जरूर है। शुभमन कप्तानी की रेस बुमराह के बाद सबसे आगे चल रहे हैं। वे वनडे और टी-20 में टीम की कप्तानी कर चुके हैं। युवा बैटर्स में यशस्वी, पंत और शुभमन ही फिलहाल परमानेंट नजर आते हैं।

वानखेड़े में रोहित के नाम पर स्टैंड का उद्घाटन

■ रोहित और शरद पवार के साथ ही महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस भी मौजूद रहे

मुंबई, वार्ता। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा और एनसीपी (शरद गुट) के अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के स्टैंड्स का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। इस दौरान रोहित और शरद पवार के साथ ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने रोहित और पवार के अलावा पूर्व बल्लेबाज अजीत वाडेकर के नाम पर स्टैंड्स का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। इसके अलावा एमसीए के पूर्व अध्यक्ष अमोल काले के नाम पर एमसीए दफ्तर का लाउंज का उद्घाटन किया गया है। एमसीए ने पिछले महीने वार्षिक आम बैठक के दौरान इन तीन दिग्गजों के नाम पर स्टैंड का नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया था। वानखेड़े स्टेडियम ग्रैंड स्टैंड लेवल 3 का नाम शरद पवार स्टैंड, ग्रैंड स्टैंड लेवल 4 का नाम अजीत वाडेकर स्टैंड और दिवेचा पवेलियन लेवल 3 का नाम रोहित शर्मा स्टैंड रखा गया है। वानखेड़े स्टेडियम पर इससे पहले भी कई क्रिकेट दिग्गजों के नाम पर स्टैंड के नाम रखे जा चुके हैं जिनमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विजय मर्चेंट और दिलीप वेंगसरकर के नाम शामिल हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान रोहित ने कहा, आज जो कुछ भी हो रहा है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। बचपन से मैं मुंबई और भारत के लिए खेलना चाहता था। कोई भी इस बारे में नहीं सोच सकता। मेरे लिए खेल के दिग्गजों के साथ मेरा नाम होना, इस अहसास को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यह इसलिए भी विशेष है क्योंकि मैं अभी भी खेल रहा हूं। मैंने दो प्रारूप से संन्यास लिया है, लेकिन अभी भी एक प्रारूप में खेल रहा हूं। रोहित ने कहा, 21 तारीख को जब मैं यहां आऊंगा और मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलूंगा तो यह एक अवास्तविक अहसास होगा, क्योंकि इस मैदान पर मेरे नाम का स्टैंड हो गया है, तो यह एक बहुत ही विशेष अहसास है। यह उस वक्त भी विशेष रहेगा जब कभी भी मैं यहां भारत का प्रतिनिधित्व करने आऊंगा। मैं इतने सारे लोगों, विशेषकर मेरे परिवार, मेरी मां और पिताजी, मेरे भाई, उनकी पत्नी और मेरी पत्नी, जो यहां उपस्थित हैं।

बंगाल वॉरियर्स ने नवीन कुमार को टीम का मुख्य कोच किया नियुक्त

मुम्बई, वार्ता। बंगाल वॉरियर्स ने प्रो कबड्डी लीग के अगले सीजन के लिए नवीन कुमार को टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले कबड्डी के दिग्गज खिलाड़ी नवीन कुमार का एथलीट और कोच दोनों का अच्छा खासा अनुभव है। फ्रैंचाइची का मानना है कि उनकी जानकारी, जीतने की मानसिकता और जूझारू क्षमता वॉरियर्स के लिए फायदेमंद होगी। बंगाल वॉरियर्स के नए कोच नवीन कुमार का खेल में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने 10वें दक्षिण एशियाई खेलों (2006), 15वें एशियाई खेलों (2006), दूसरे विश्वकप (2007) और दूसरे इनडोर एशियाई खेलों (2007) सहित कई टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीते हैं। कोच बनाये जाने पर नवीन कुमार ने कहा कि बंगाल वॉरियर्स के साथ मुख्य कोच के रूप में जुड़कर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी टीम विकसित करने का एक रोमांचक अवसर है। मैं खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करने और मैदान पर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक हूँ। नए सत्र से पहले हमारे पास बहुत समय है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे कि वॉरियर्स एक चैंपियन टीम बने। बंगाल वॉरियर्स के मुख्य कार्यकारी अपूर्व गुप्ता ने कहा कि नवीन कुमार अपने साथ बहुत सारा अनुभव और रणनीतिक विशेषज्ञता लेकर आए हैं, जो उन्हें हमारी टीम के लिए एक आदर्श नेतृत्व है। उनकी जीतने की मान.सिकता और युवा प्रतिभाओं को विकसित करने की क्षमता इस सत्र में हमारी सफलता की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

लॉस एंजिलिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा के लिए पारदर्शी रास्ता निकालें: क्रिकेट वेस्टइंडीज

■ ओलंपिक चार्टर निष्पक्षता, पारदर्शिता पर जोर देता है

पोर्ट ऑफ स्पेन, वार्ता। क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूसी) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए साफ और पारदर्शी रास्ता निकालने की मांग की है।

सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष ने कहा कि कैरेबियाई टीम ने ओलंपिक में हमेशा अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है और अपनी एथलेटिक प्रतिभा से दुनिया को प्रेरित किया है। 2028 खेलों में क्रिकेट की वापसी हमारे युवा क्रिकेटरों को उसी सपने से वंचित नहीं कर सकती जिसने हमारे एथलीटों को प्रेरित किया है। ओलंपिक चार्टर निष्पक्षता, पारदर्शिता पर जोर देता है। हम बस यही मांग कर रहे हैं कि इन सिद्धांतों को न केवल भावना में बल्कि संरचना में भी बरकरार रखा जाए। वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए रास्ता निकाला जाना चाहिए और प्रतिस्पर्धा करने का हकदार है। वेस्टइंडीज, कैरेबियाई द्वीप के रूप में आता हैं और इसके क्रिकेट का संचालन क्रिकेट वेस्टइंडीज बोर्ड (सीडब्ल्यूआई) करता है, लेकिन केवल संप्रभु राष्ट्रों को ही ओलंपिक खेलों में भाग लेने की अनुमति है। पूर्व ाोषणा के अनुसार लॉस ऐंजि.लिस ओलंपिक में पुरुष और महिला वर्ग की टी-20 प्रतिस्पर्धा में केवल छह देश हिस्सा लेंगे। आईसीसी ने लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 को दिए गए अपने प्रस्ताव में सुझाव दिया था कि छह टीमों को कट-ऑफ तारीख पर टी- 20 रैंकिंग के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाए।

शास्त्री ने बताई कोहली के संन्यास की वजह

लोगों के लगातार कमेंट्स से परेशान थे, कहा-रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट से बाहर नहीं रहने देता

दुबई, वार्ता। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली के रिटायरमेंट की वजह का खुला.सा किया है। शास्त्री के अनुसार 'कोहली लगातार सार्वजनिक टीका-टिप्पणी से मानसिक रूप से थक चुके थे।' शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू में बताया कि उन्होंने संन्यास का फैसला सार्वजनिक करने से पहले कोहली से बात की थी। पूर्व भारतीय कोच ने कहा कि मैंने उनसे इस बारे में बात की थी। मुझे लगता है कि उनके संन्यास की घोषणा से एक सप्ताह पहले उनका दिमाग बहुत स्पष्ट था। उन्हें कोई पछतावा नहीं है। विराट ने मुझे चौंका दिया क्योंकि मुझे लगा कि उनमें टेस्ट क्रिकेट के लिए कम से कम दो-तीन साल बाकी हैं।

जब आप मानसिक रूप से थके हुए होते हैं तो यही आपके शरीर को बताता है। उन्होंने रोहित शर्मा की फार्म पर कहा कि अगर मैं भारतीय टीम का कोच होता तो सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा को बाहर नहीं होने देता। विराट कोहली ने 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट में लिखा कि टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, वो पाठ सिखाए जो जिंदगीभर मुझे याद रहेंगे। कोहली ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था। कोहली के संन्यास पर रवि शास्त्री ने कहा कि मैं विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले से हैरान था। क्योंकि मुझे लगता है कि विराट में टेस्ट खेलने के लिए 2-3 साल और बचे थे। कोहली लगातार सार्वजनिक टीका-टिप्पणी से बर्नआउट हो गए शास्त्री ने कहा, श्आप अपनी टीम के आधे से अधिक खिलाड़ियों से अधिक फिट हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप थके हैं। तो यह शरीर को एक संदेश भेजता है। आप जानते ही हैं। कोहली लगातार सुर्खियों में रहने के कारण बर्नआउट (थकान) हो गए। कोहली के दुनियाभर में फैन, लोगो को क्रिकेट देखने प्रेरित किया शास्त्री ने कहा कि कोहली को दुनिया भर में प्रशंसा मिली है।

पिछले दशक में किसी भी अन्य क्रिकेटर की तुलना में उनके पास अधिक प्रशंसक हैं। चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वह दक्षिण अफ्रीका हो, उन्होंने लोगों को खेल देखने के लिए प्रेरित किया। अगर कोहली ने कुछ ठाना, तो अपना 100प्रतिशत दिया कोहली ने भारत को 68 टेस्ट मैचों में 40 जीत दिलाई जो किसी भी भारतीय कप्तान की अब तक की सबसे ज्यादा जीत है। इस पर शास्त्री ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ करने का फैसला किया तो उन्होंने अपना शत प्रतिशत दिया जिसकी बराबरी करना आसान नहीं है एग्रेशन कोहली को दूसरे प्लेयर्स से अलग बनाता है कोहली के एग्रेशन पर शास्त्री ने कहा कि एक खिलाड़ी अपना काम करता है, फिर आप आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन कोहली के साथ ऐसा नहीं है, जब टीम आउट हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें सभी विकेट लेने हैं, उन्हें सभी कैच लेने हैं, उन्हें मैदान पर सभी फैसले लेने हैं। इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन, मुझे लगता कि अगर वह आराम नहीं करता है तो कहीं वह बर्नआउट होने वाला है। मैं रोहित को सिडनी टेस्ट से बाहर नहीं होने देता शास्त्री ने बीजीटी में रोहित शर्मा की फार्म पर बात करते हुए कहा कि अगर मैं भारतीय टीम का कप्तान होता तो रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट में बाहर नहीं होने देता। शास्त्री-को.हली की जोड़ी सबसे सफल रही शास्त्री ने कोहली के साथ भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल कोच-कप्तान की जोड़ी बनाई। इस जोड़ी ने 2018 में भारत ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जिताई।

गाड़ियों में तोड़फोड़ व फायरिंग करने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार

❖जबरदस्तपुर जौरासी गांव में आपसी विवाद में फायरिंग कर फैला दी थी गांव में दहशत, पुलिस ने तुरंत दबोचा

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। रुड़की के समीप जौरासी में हुई फायरिंग प्रकरण का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आरोपी नशे का आदि बताया गया है।

बीते रोज पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक द्वारा गाडी में तोड़फोड़ कर जान से मारने की नियत से फायर किया है।

इस सूचना पर रुड़की पुलिस तत्काल मौके पर पहुँचकर घटना की जानकारी गयी और कोतवाली रुड़की पर वादी गुफरान पुत्र स्व०मन्सूर निवासी ग्राम रणसुरा थाना लक्सर जनपद हरिद्वार की लिखित तहरीर पर अरशद उर्फ दुल्ला पुत्र मुबारिक निवासी ग्राम जबरदस्तपुर कोतवाली रुड़की जनपद हरिद्वार के द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर बन्दूक से फायर करना व वाहन को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सीओ रुड़की के नेतृत्व में टीमें गठित कर तत्काल

आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए गहन सुराग रसी पता रसी करते हुए 12 घंटे के भीतर ही आरोपी अरशद उर्फ दुल्ला पुत्र मुबारिक निवासी ग्राम जौरासी रुड़की थाना कोतवाली रुड़की जनपद हरिद्वार को खटका बाईपास से जौरासी जाने वाले रास्ते के पास गन्ने का खेत से दबोचा गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध देशी तमंचा, 03 खोखा कारतूस व 04 जिन्दा कारतूस बरामद किए गए।

आरोपी का दिन के समय रणसुरा गांव में विवाद हो गया था जिसका बदला लेने की फिराक में आरोपी ने रणसुरा गांव की ओर से आने वाली कार पर हमला कर दिया। आरोपी के खिलाफ पहले भी गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मनीभूषण श्रीवास्तव, एसएसआई विनोद कुमार थपलियाल, एसआई चन्द्रमोहन , एएसआई बालम सिंह राठौर, हैड कांस्टेबल दिनेश गुप्ता, मेजर सिंह तोमर, कांस्टेबल प्रदीप भण्डारी,अनूप लिंगवाल और चालक मंगत सिंह शामिल रहे।

ग्राम समाज की भूमि से काटे सौ पॉपुलर के पेड़

शाह टाइम्स संवाददाता

बुग्गावाला। बुग्गावाला गांव में ग्राम समाज की भूमि से सौ पॉपुलर के पेड़ काटे जाने के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि बुग्गावाला के एक किसान ने ग्राम समाज की भूमि पर खड़े पॉपुलर के पेड़ों का सौदा कर लिया था। इसके बाद ठेकेदार ने ताबड़तोड़ अपनी लेबर लगाकर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। जैसे ही इस मामले की सूचना तहसील प्रशासन को मिली, टीम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। किसान और प्रशासन में हुई नोंकझोंक–मौके पर पहुंचे तहसील प्रशासन ने संबंधित किसान को बुलाकर पूछताछ की। किसान ने दावा किया कि सभी पेड़ उसकी निजी भूमि पर खड़े थे। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पेड़ ग्राम समाज की भूमि पर लगे थे। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई।

भगवानपुर तहसीलदार दयाराम ने बताया कि उन्हें बुग्गावाला में ग्राम समाज की भूमि से पेड़ों के कटने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। अब खेत की पैमाइश और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कोतवाली रुड़की पुलिस ने तीन वारंटी किए गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। कोतवाली रुड़की पुलिस द्वारा 03 वारण्टी को किया गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त गण को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के द्वारा न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंट की तामील किए जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे प्रभारी निरीक्षक के द्वारा वारण्टीयो की धर पकड हेतु पुलिस टीम गठित की गई पुलिस टीम के द्वारा न्यायालय ए0सी0जे0एम0 महोदय रुड़की जनपद हरिद्वार के द्वारा जारी वारण्ट वाद संख्या 627/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम मे अभियुक्त अमन कर्मचन्द उर्फ विक्की पुत्र कर्मचन्द निवासी मिशन 03 सि0ला0 को0 रुड़की जनपद हरिद्वार व शुभम पुत्र लक्ष्मण दास निवासी गोल भट्ट मिलाप नगर कोतवाली रुड़की जनपद हरिद्वार संबंधित वाद संख्या 543/24 धारा 323.325.504.506 भादवि तथा लक्ष्मण दास पुत्र भगनू दास निवासी गोल बट्टा मिलन नगर जनपद हरिद्वार संबंधित वाद संख्या543/24 धारा323/325/504/506 भादवि के मस्कन पर दबिश दी गई। जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को उसके मस्कन से गिरफ्तार किये गये। अभियुक्त गण को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल तेजिंदर सिंह, कांस्टेबल अनिल चौहान, कानि0 अनिल शर्मा कोतवाली रुड़की, कानि0 गम्भीर कोतवाली रुड़की शामिल रहे।

नवीदा ने 12वीं में स्कूल टॉप कर किया नाम रोशन

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। नवीद खातून ने 12वीं कक्षा में अपने स्कूल में पहला स्थान लाकर अपने स्कूल व परिवार का नाम रोशन किया है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम में ग्राम भारापुर की छात्रा नाविदा खातून पुत्री मौ0 इकराम ने अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भौरी भारापुर स्कूल टॉप किया।नाविदा खातून ने 12जी में 500 में से 420 अंक प्राप्त कर स्कूल में पहली रैंक हासिल की।होनहार नाविदा खातून को बहुत–बहुत बधाई एव शुभकामनाए। यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि हम सबके लिए खासतौर पर अपने गाँव भारापुर के लिए गौरव का विषय है। वही नाविदा ने बताया कि उसने दिन रात मेहनत करके पढाई की है और स्कूल टॉप कर अपने परिवार का नाम रोशन किया।

कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री पर कारवाई की मांग

एसपी देहात कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी, डीएवी कॉलेज प्रकरण में भी जांच की मांग

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी देहात को तहरीर दी। इसके साथ ही बीते रोज डीएवी कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में जांच की मांग भी कार्यकर्ताओं ने एसपी देहात से की।

रुड़की तहसील स्थित एसपी देहात कार्यालय पहुंचे झबरेड़ा विधायक एवं जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाति ने कहा कि इस समय जब पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है ऐसे में भाजपा के नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह ने भाजपा की ओछी मानसिकता का परिचय देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कारवाई होनी चाहिए। महानगर अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि एक ओर देश की बेटियाँ दुनिया में अपना

नाम रोशन कर रही है तो वहीं भाजपा के नेता उन्हें धर्म के नाम पर नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि डीएवी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में कॉलेज के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। पूर्व राज्यमंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज करने की मांग की उन्होंने कहा कि बेटियों का अपमान करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस अवसर पर युवा जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आशीष चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि तौकीर, डॉ अताउर रहमान, मयंक, रजनीश, बाबू, नाशीर अहमद, सलमान, कबीर, सादिक, कमरे आलम, कार्तिक पवार, जोगिंदर सिंह, श्रीकांत, अमित कुर्साली, कुलदीप निराला, भास्कर गुप्ता, कुर्बान, नसीम अहमद, लुकमान, गुलशेर, अजय सिंह, दीपक, राकेश कुमार, संदीप, राव रिजवान आदि उपस्थित रहे।

लक्सर पुलिस ने दबोचा एक नशा तस्कर, 8.11 ग्राम स्मैक बरामद

शाह टाइम्स संवाददाता

लक्सर। लक्सर पुलिस के द्वारा एक अवैध नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 8.11 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है।

राजीव रौथाण कोतवाली प्रभारी लक्सर ने जानकारी देते हुए बताया ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सफल बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार द्वारा जनपद में नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाए जाने के लिए जनपद की कोतवाली प्रभारी थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया था जिसमें पुलिस टीम बनाई गई पुलिस टीम के द्वारा मुखबीर कोसूचना पर 15 मई 2025 को छापेमारी चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसके कब्जे से 8.11 ग्राम अवैध

स्मेक बरामद हुई। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम अनीश पुत्र रियासत निवासी लादपुर खुर्द थाना कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार बताया। उसको पकड़ने वाली पुलिस टीम में भीक्कमपुर पुलिस चौकी पर भारी नवीन सिंह चौहान कांस्टेबल रघुनाथ पंचपाल वीरेंद्र सिंह शामिल रहे। पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ संबंधित मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पकड़े गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अवैध चाकू के साथ एक युवक गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। रुड़की पुलिस ने अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आर्म्स एक्ट में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसपी हरिद्वार द्वारा बॉर्डर/कस्बा/अन्य क्षेत्रों में सघन चेकिंग किए जाने के आदेश प्राप्त हुए आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुड़की द्वारा क्षेत्र में चौकिंग किए जाने हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। जिसके क्रम में चेकिंग के दौरान दिनांक 16.05.2025 को सोलानी पार्क लोहे वाले पुल के पास रुड़की क्षेत्र से एक व्यक्ति को एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त'लोकेश सिंह यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी पीर बाबा कालोनी रुड़की से पुलिस ने एक अदद चाकू बरामद किया है। पुलिस टीम में है0का0 कमल सिंह कोतवाली रुड़कीव का0 गोविन्द तोमर कोतवाली रुड़की तथा कानि0 प्रदीप डंगवाल कोतवाली रुड़की शामिल रहे।

नाले से एक व्यक्ति का शव बरामद

पिरान कलियर। पुलिस ने हद्दीपुर अड्डे के पास एक नाले से एक व्यक्ति का शव बरामद किया ।शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र हद्दीपुर अड्डे के पास एक नाले में एक व्यक्ति का शव पड़ा है।पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को नाले से बहार निकाला।मौके पर जमा भीड़ से उसकी शिनाख्त के प्रयास किए तो उसकी शिनाख्त सोनू कुमार पुत्र फकीरचन्द (36) निवासी झिडियान ग्रंट के रूप में हुई। पुलिस ने घटना की सूचना उसके परिजनों को दी।परिजनों ने बताया कि वह शराब पीने का आदि था। करीब तीन चार दिन से घर नही गया।थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। कोतवाली गंगनहर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को बाद विधि क कार्रवाई न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 15/05/2025 को मुकदमा वादी एहतेशाम पुत्र इरशाद निवासी पाडली गुर्जर रुड़की कोतवाली गंगनहर द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर रजिस्ट्रेशन नंबर -1581 को रेलवे स्टेशन के पास गेस्ट हाउस के सामने से चोरी कर ले जाने के संबंध में कोतवाली गंगनहर पर मुकदमा अपराध संख्या '195/2025 धारा 303(2) में पंजीकृत किया गया। घटना का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गंगनहर द्वारा तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया जिसके फलस्वरूप गठित टीम द्वारा दिनांक 15/05/2025 को मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र भजन लाल निवासी भोला कॉलोनी थाना बाजपुर जिला उधम सिंह नगर हाल निवासी रेलवे स्टेशन रुड़की कोतवाली नहर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ नहर पटरी गणेशपुर से बीटीगंज की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को बाद विधिक कार्रवाई न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक बलवंत पवार, कांस्टेबल अजय बिष्ट, कांस्टेबल प्रभाकर थपलियाल, कांस्टेबल राहुल नेगी व कांस्टेबल महिपाल सिंह शामिल रहे।

शांति व्यवस्था भंग करने पर चार गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

लक्सर। लक्सर पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था प्रभावित करने पर चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजीव रौथाण कोतवाली प्रभारी लक्सर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया 15 व 16 ए0मई 2025 को रात्रि में सुल्तानपुर क्षेत्र से शांति व्यवस्था प्रभावित करने की सूचना मिली थी सूचना पर तुरंत ही पुलिस को भेजा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी व्यक्तियों को काफी समझाने का प्रयास किया वह नहीं मने और मरने मारने पर उतारू हो गए किसी संज्ञे अपराध को दृष्टिगत रखते हुए चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके नाम वसीम उर्फ काला पुत्र खलिल निवासी खेड़ी खुर्द समीम पुत्र खलिल निवासी खेड़ी खुर्द अकलाख अली पुत्र जिंदा हसन निवासी सुलतानपुर आदमपुर फुरकान अली पुत्र जिंदा हसन निवासी उप्रोक्त बताएं गये हैं।

फर्जी कागजात तैयार कर जमीन खरीद–फरोख्त करने वाला गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

लक्सर। पुलिस के द्वारा फर्जी तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। राजीव रौथाण कोतवाली प्रभारी लक्सर ने जानकारी देते हुए बताया । अप्रैल 2025 को सुमित कुमार पुत्र राजपाल निवासी ग्राम महाराजपुर कला थाना लक्सर जिला हरिद्वार द्वारा अभियुक्तगण पंकज कुमार मनोज कुमार प्रामोद कुमार प्रदीप कुमार द्वारा पडयन्त्र कर धोखाधड़ी से फर्जी फोटो व हस्ताक्षर कर प्रार्थी की जमीन का बैनावा पंकज कुमार के नाम करने के संबंध में तहरी दी गई थी जिसके संबंध में कोतवाली लक्सर पर धोखाधड़ी संबंधी अभियोग पंजीकृत किया गया था एसएसपी हरिद्वार द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए वांछित अभियुक्तगण की धर पकड़ गिरफ्तारी के लिए अवश्यक दिशा निर्देश दिये थे जिसमें पुलिस टीम गठित की गई पुलिस टीम के द्वारा वांछित अभियुक्त कपिल कुमार पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम महाराजपुर कला थाना लक्सर जनपद हरिद्वार को मुखबीर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया उसको गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रायसी पुलिस चौकी प्रभारी कमल कांत रतूड़ी हेड कांस्टेबल प्रदीप कनौजिया कांस्टेबल अनिल वर्मा शामिल रहे पकड़े गए व्यक्ति को संबंधित मुकदमे में दाखिल कर पकड़े गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वहीं इस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सुलतानपुर पुलिस चौकी प्रभारी विरेंद्र सिंह नेगी उप निरीक्षक दीपक चौधरी कांस्टेबल कपिल देव अनुप पोखरीयाल अरविंद चौहान होमगार्ड मदनपाल शामिल रहे। पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पकड़े गए व्यक्तियों को संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

आपस में झगड़ रहे छह आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई

शाह टाइम्स संवाददाता

भगवानपुर। थाना भगवानपुर पुलिस द्वारा गांव डाडा जलालपुर में लड़ाई झगड़े से संबंधित 06 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

जानकारी के अनुसार थाना भगवानपुर पुलिस द्वारा दिनांक 16/05/25 को थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम डाडा जलालपुर में लड़ाई झगड़े कर शान्ति भंग कर रहे 06 आरोपियों के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की गयी। 'नाम पता आरोपी' 1. रोहित पाल उर्फ दीपक पाल पुत्र सुरेश निवासी ग्राम डाडा जलालपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार। 2-नितिन कश्यप पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम डाडा जलालपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार। 3-शुभमसैनी पुत्र नकली राम निवासी ग्राम डाडा जलालपुर थाना भगवानपुर हरिद्वार। 4-नवनीत सैनी पुत्र किरतपाल निवासी ग्राम डाडा जलालपुर थाना भगवानपुर हरिद्वार। 5-राहुल पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम डाडा जलालपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार। 6-बंटी पुत्र ऋषिपाल निवासी छांगा माजरी थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार बताये गये हैं। पुलिस टीम में उ0नि0 विनय मोहन, कानि0संजय नेगी, कानि0मुकेश, कानि0 चन्द्रविका शामिल रहे।

सिम बेचते समय अभिलेखों में धांधली पर मुकदमा दर्ज

भगवानपुर। दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने एक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर सिम बिक्री करते समय विभाग को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में धांधली की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सहारनपुर के एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी हरिद्वार रविंद्र सागर ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि सिम विक्रय करने वाली टीम से जुड़े एक व्यक्ति मोहम्मद गय्यूर निवासी गांव खुजनावर मुस्त जनपद सहारनपुर ने धोखाधड़ी कर 55 सिम बिना पहताल किए ही बिक्री करते हुए अपनी आईडी से जारी किए हैं।आरोप है कि जिन्हें सिम जारी किए गए हैं उनके अभिलेखों का भी मिलान नहीं हो पा रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज

पिरान कलियर। पुलिस ने मोटर साईकिल चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पंचायत पिरान कलियर नई बस्ती निवासी शाहरुख ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि 14 मई को उसने अपनी मोटर साईकिल घर के बहार खड़ी कर अपने घर काम से गया था। कुछ देर बाद घर से बहार आया तो देखा कि उसकी मोटर साईकिल वहां नहीं है। उसने मोटर साईकिल को इधर उधर काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया।पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मोटर साईकिल चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने किया लाखों की चोरी का खुलासा

एक गिरफ्तार, आभूषण व नकदी से खरीदी बाइक बरामद

शाह टाइम्स संवाददाता

मंगलौर। सवा छह माह पहले हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया हैं। इस मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया हैं। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से चोरी हुए आभूषण व चोरी की रकम से खरीदी गई बुलेट बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया हैं। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि नगर के मोहल्ला बाहर किला निवासी साजिद अंसारी ने बताया कि 2 नवंबर 2024 की शाम को वह परिवार के साथ शादी में गया हुआ था। इसी दौरान रात के समय मकान का ताला तोड़कर घर में रखी लाखों की नकदी व लाखों के जेवरात चोरी कर लिए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। गुरुवार की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि लंढौरा मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास एक युवक खड़ा हुआ हैं युवक चोरी की वारदात में शामिल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने बताए गए स्थान को घेराबंदी कर युवक को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर चोरी हुए आभूषण, बुलेट व आईफोन बरामद किया हैं। कोतवाली प्रभारी ने

बताया कि चोरी के मामले में शावेज निवासी मलकपुरा मंगलौर को गिरफ्तार किया हैं। आरोपी की निशानदेही पर चोरी हुए जेवरात बरामद किए गए हैं। आरोपी का चालान कर दिया हैं।

जिला सहकारी बैंक के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारी

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। आज दूसरे दिन समिति सचिव परिषद उत्तराखंड शाखा हरिद्वार (सम्बद्ध राज्य कर्मचारी सयुक्त परिषद उत्तराखण्ड) एवं सहकारी समिति कर्मचारी कल्याण यूनियन द्वारा निबंधक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड के पत्रांक 153 से अंशदान जिला कैडर/2014-15 दिनाँक 20 अक्टूबर 2014 के अनुसार कैडर फण्ड जमा न करने के कारण संयुक्त सांकेतिक धरना प्रर्दशन जिला सहकारी बैंक लि० की मुख्य शाखा बीटी गंज रुड़की में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार धरना स्थल पर जिला सहकारी बैंक लि० हरिद्वार के सचिव/ महाप्रबंधक प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की वार्ता नहीं की गई। जिस कारण समिति सचिव परिषद शाखा हरिद्वार एवं सहकारी समिति कर्मचारी कल्याण यूनियन के सभी सदस्यों में भी भारी रोष व्याप्त है। धरना स्थल पर सामुहिक निर्णय लिया गया कि दिनाक 15 से 17मई तक जिला सहकारी बैंक मुख्यालय बीटी गंज रुड़की जिला हरिद्वार पर किया जायेगा। समाधान न होने की दशा में कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

धरना स्थल पर समिति सचिव परिषद के चरण सिंह सचिव, अनिल कुमार सैनी, मदन लाल, श्याम कुमार गुप्ता, अरुण कुमार, नरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, ओमकार सिंह एवं समिति कर्मचारी कल्याण परिषद से श्री राजपाल सिंह अध्यक्ष, राहुल कुमार, सुखपाल सैनी, सुमित कुमार, शक्ति सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, यशवीर कुमार, रमेशचंद, सतेंद्र कुमार, नंदन अग्रवाल, विनय धीमान, मीनाक्षी, अंशु, पिंकी, नीरती, ललिता, सुध र, योगेंद्र, आशीष, फैजाब, रविकांत , नवनीत, नितिन भार्गव, तेजपाल, महक सिंह, दुष्यंत, अमित राठी, अनुज सैनी, आशीष चौहान, रामकिशोर, पंकज कुमार, अरुण सैनी, बलवंत सिंह, ललिता प्रसाद, एवं सभी समिति कर्मचारी उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

शनिवार, 17 मई 2025

शौर्य का प्रतीक सिंदूर

भारतीय महिला के माथे का सिंदूर न केवल सुहाग का, बल्कि शौर्य का प्रतीक भी है। ये बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही। यह बात सौ प्रतिशत सही है कि भारतीय महिलाओं का सुहाग सिंदूर से ही प्रतीत होता है, लेकिन जिस तरह पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर महिला के पतियों और महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया, तभी से ये सिंदूर शौर्य का प्रतीक बन गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अभी तो ये केवल ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। उनका कहना था कि अभी ऑपरेशन सिंद.ूर जारी है। रक्षा मंत्री ने बताया कि अभी पाकिस्तान को एक मौका दिया जा रहा है कि वह सुधर जाए, नहीं तो अबकी बार उससे भी बड़ा हमला हम करेंगे। उनका यह कहना जवानों में और जोश भर गया। वास्तव में भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुशासित सेना है। चीन की सेना पैसों के लिए लड़ती है, जबकि भारत की सेना देश के लिए लड़ती है। जिस शौर्य से भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में नाकाम किया है, उससे भारतीय सेना की दुनियाभर में तारीफ हो रही है। यह साफ हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता-पोषता है और इसके लिए वह आईएमएफ से धन भी लेता है। आईएमएफ को धन देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान किस मद के लिए धन ले रहा है, लेकिन आईएमएफ ने भी शायद आंखें बंद कर ली हैं। भारत ने आईएमएफ को याद दिलाया है कि वह पहले पाकिस्तान से यह पूछे कि वह धन किस लिए ले रहा है, अगर अपने देश के विकास के लिए धन चाहिए, तो भारत को कोई दिक्कत नहीं है। अगर पाक आतंकवाद के लिए धन मांग रहा है, तो फिर भारत अपनी आपत्ति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकता है। पाकिस्तान ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वादा किया था कि वह आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है, लेकिन उसने धोखा दिया और अब तक धोखा देता आ रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद समर्थित होने के और सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। भारत की मंशा साफ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं कर देता, उससे किसी प्रकार की कोई बात संभव नहीं है। इसीलिए अब भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्पष्ट करने हेतु बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेजने जा रही है। कांग्रेस ने इस पहल में भाग लेने की सहमति दी है। यह कदम पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाया गया है। जब पाकिसतान के खिलाफ सबूत एकत्र हो जाएंगे, तब उन्हें यूएन में रखा जाएगा और तब पाकिस्तान दुनिया से अलग-थलग हो जाएगा। भारत की यही रणनीति है। उधर पाक का साथ देने के लिए तुर्की के बायकाट की तैयारी भी भारत ने तेज कर दी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव का माहौल था, तब तुर्की ने सबसे पहले पाकिस्तान का साथ दिया था। जिसके बाद से भारत में तुर्की के सेबों का बायकाट ट्रेंड तेजी से चल रहा है। इसके कारण तुर्की को 821 करोड़ का झटका लग सकता है। भारत में तुर्की उत्पादों का बहिष्कार होना शुरू हो गया है, खासकर सेब का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, जिसमें ड्रोन की आपूर्ति भी थी। जब से ये सच तुर्की का सामने आ गया, तब से भारत में बॉयकाट का ट्रेंड तेजी से चल रहा है।

इस बार माफी मांगने से काम नहीं चलेगा

मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा तथा मंत्री विजय शाह को बहादुरी से देश की रक्षा करने वाली सेना तथा सेना के जवानों को अपमानित करने वाले बयान देने के लिए भाजपा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, हमारी सेना के लिए पूरे देश में हर व्यक्ति के मन में सम्मान है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि सेना की वजह से ही हम सुरक्षित रह पाते हैं, सेना के लिए मप्र के उप मुख्यमंत्री के मन में ऐसी दुर्भावना और गंदे विचार हैं, उसका किसी पद पर रहने का कोई हक नहीं है, इस बार माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, भाजपा मूक-दर्शक बनी नहीं रहेगी और श्री मोदी छिपे नहीं रह सकते, अगर अगले कुछ घंटों में भाजपा वड़ा को बर्खास्त नहीं करती है, तो ये मान लिया जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात श्री मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन-सहमति और संरक्षण है।

-सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस प्रवक्ता

हाईपरटेंशन से जन्म लेती हैं अन्य बीमारियां

बदली जीवनशैली के चलते देश-दुनिया में बड़ी संख्या में लोग हाईपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं। हाई बीपी कई दूसरी गंभीर बीमारियों की वजह बनता है। इसका नियमित चेकअप जरूरी है। वहीं यदि लक्षण सामने आएं तो डॉक्टरी सलाह से उपचार कराना चाहिए।

हाईपरटेंशन हमारी सेहत के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा भी बढ़ता है, लेकिन आजकल अनियमित जीवनशैली के चलते कम उम्र के व्यस्कों में भी इसका खतरा बढ़ गया है। हाईपरटेंशन पीड़ित अधिकतर लोगों को जागरूकता न होने पर पता ही नहीं चलता, जब तक कोई समस्या न खड़ी हो जाए। दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हाईपरटेंशन से ग्रस्त हैं जिनमें से दो-तिहाई लोग विकासशील देशों में हैं। भारत की बात करें तो हर तीन में से एक व्यक्ति को हाईपरटेंशन की समस्या है। गांवों में 10 प्रतिशत व शहरों में 25 प्रतिशत लोग इससे ग्रस्त हैं। मरीजों में से दो-तिहाई की उम्र 60 साल से कम होती है। वहीं 85 प्रतिशत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हाईपरटेंशन के विकार के साथ कोई दूसरी बीमारी भी होती है।

क्या है हाईपरटेंशन

हृदय हमारे शरीर में एक पंप के रूप में काम करता है और उससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है। ब्लड सर्कुलेशन के समय होने वाले ब्लड के दवाब को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तब प्रेशर ज्यादा होता है जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। वहीं दूसरी बीट से पहले हार्ट रिलेक्स कर रहा होता है तब ब्लड प्रेशर कम होता है जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। विभिन्न व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर में अंतर हो सकता है। व्यक्ति को ब्लड प्रेशर के नंबर जानना जरूरी है यानी सिस्टोलिक (ऊपर वाला) और डायस्टोलिक (नीचे वाला) का पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर दैनिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। अगर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे अधिक हो तो इसे हाईपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था कहते हैं। कई बार हार्ट आर्टरीज पर दबाव पड़ने से उनके अंदर की लाइनिंग ब्लॉक हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन बाधित होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि स्वस्थ रहने के लिए ब्लड प्रेशर के दोनों पॉइंट्स को कंट्रोल करना जरूरी है। खासकर 55-60 साल से ज्यादा उम्र के बाद सिस्टोलिक हाईपरटेंशन का नियमित चेकअप कराना जरूरी है। इससे कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होने का खतरा रहता है।

दो तरह का हाईपरटेंशन

प्राइमरी हाईपरटेंशन- इसके अधिकतर मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर का कोई कारण स्पष्ट नहीं होता।

सेकेंडरी हाईपरटेंशन-यानी किसी बीमारी या दूसरे कारणों से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। हाईपरटेंशन को नियंत्रित रखने के लिए इसके कारण को जानना जरूरी है। करीब 95 प्रतिशत लोगों को बिना किसी कारण से एसेंशियल हाईपरटेंशन है जिसे मेडिसिन और लाइफ स्टाइल में बदलाव लाकर कंट्रोल किया जा सकता है।

हाई ब्लड प्रेशर के कारण

मरीजों की बड़ी संख्या है, जिन्हें हाईपरटेंशन के कारणों का पता नहीं लगता, जिनमें कारणों का पता चल जाता है, उनका समुचित इलाज किया जा सकता है। छोटे बच्चों और युवाओं में हाईपरटेंशन के कई सेकेंडरी कारण रहते हैं। जैसे-अनियमित और आरामपरस्त जीवनशैली, अनहेल्दी खानपान, खाने में नमक की अधिकता, पढ़ाई और कैरियर को लेकर तनाव, मोटापा, किडनी की बीमारी, आर्टरीज में ब्लॉकेज, हार्मोन संबंधी तकलीफ, गर्भावस्था, थायरॉयड, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, एल्कोहल और नमकीन स्नैक्स का अधिक सेवन।

कैसे जानें हाई ब्लड प्रेशर को

हाईपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इससे ग्रस्त 90 % रोगियों में इसके कोई लक्षण नहीं होते। बढ़ने पर सिरदर्द, धड़कन तेज होना, चलते समय सांस फूलना, चक्कर आना व थकावट आदि लक्षण होते हैं।

क्या है रिस्क

सामान्य व्यक्ति में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायसिस्टोलिक 90 से नीचे होना चाहिए। जबकि डायबिटीज के मरीजों में रिस्क बहुत बढ़ जाता है इसलिए उनका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए।

हाई ब्लड प्रेशर को पहचानकर सही इलाज न हो तो इसका बढ़ा हुआ स्तर हार्ट,ब्रेन, लिवर, आंखों आदि को क्षति पहुंचाता है। मरीज को कई समस्याएं हो सकती हैं जैसे- हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइसिस होने का खतरा, रेटिनल हैमरेज, पेरिफरल मस्कुलर डिजीज, किडनी फेल्योर आदि।

समुचित उपचार है जरूरी

हाईपरटेंशन के मरीज लक्षण या दिक्कत महसूस न होने पर आमतौर पर उपचार कराने से कतराते हैं, लेकिन इससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दूसरी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है।

जबकि हाई ब्लड प्रेशर की जांच शुरुआती स्टेज पर होने और समुचित ध्यान रखने पर इसे ठीक किया जा सकता है। डॉ. मरीज को जीवनशैली में बदलाव लाने की सलाह देते हैं। अगर 2 महीने तक मरीज का हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, तो उसे मेडिसिन दी जाती हैं।

ऐसे करें बचाव

जरूरी है नियमित रूप से हाई ब्लड प्रेशर की जांच करवाएं और जानें कि आपका ब्लड प्रेशर स्टेटस क्या है। अगर आप प्री. हाईपरटेंशन मरीज की कैटेगरी में आते हैं तो इससे बचाव के समुचित कदम उठाने जरूरी हैं। समुचित जांच, सही सलाह और जीवनशैली में बदलाव से सिस्टोलिक हाईपरटेंशन को नियंत्रित किया जा सकता है। खासकर युवाओं को अपना ब्लड प्रेशर जरूर चौक कराना चाहिए।

अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो डॉ. को कंसल्ट करें। घर के बने संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मौसमी फल-सब्जियां हों। केला, मौसमी, अनार, नारियल पानी जैसे पोटेशियम रिच पदार्थों का सेवन अधिक करें। फास्ट फूड, जंक फूड व वसायुक्त आहार से परहेज करें। ज्यादा नमक वाली चीजें कम खाएं। चाय-कॉफी का सेवन सीमित मात्रा में करें। घर पर ब्लडप्रेशर मॉनीटर से रेगुलर चेक करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर काफी समय से 140/90 मिमी एचजी से अधिक हो तो डॉक्टर के परामर्श से नियमित दवाई लें। वॉक, योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करें।

समाज से कब बंद होंगे नफरती बोल

सोशल मीडिया पर सेना और शहीदों के परिजनों को निशाना बनाते ट्रोलर्स के रवैये से देश में आक्रोश देखा गया। शहीद की विधवा हिमांशी नरवाल द्वारा कश्मीरियों के प्रति सौहार्द की अपील को भी ट्रोल किया गया। राजनीतिक दबाव के चलते मंत्री शाह के खिलाफ देर से प्राथमिकी दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक मंत्री को संवेदनशील समय में जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए।

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की बहादुर सेना ने जब पाक को सबक सिखा, देश को गौरव का अहसास कराया तब नफरती ट्रोल सेना, नीचता की सीमा तक गिरती नजर आई। जिसके विरोध में देश में तीखे गुस्से की लहर देखी गई। इस बिगड़ैल ट्रोल सेना ने ऑनलाइन गाली-गलौज करने में किसी को भी नहीं बख्शा। यहां तक कि सादगी के व्यक्तित्व व गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति वाले विदेश सचिव विक्रम तक को नहीं छोड़ा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा भी निशाने पर आए। यहां तक कि पहलगाम हमले में विधवा हुई हिमांशी नरवाल को भी नहीं बख्शा गया। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और पहलगाम की घटना के बाद कश्मीरियों को निशाने पर न लेने का आह्वान किया था।

निश्चित रूप से यह देश में सामाजिक समरसता के लिए वक्त की आवाज भी थी, लेकिन सबसे परेशान करने वाली घटना वह थी, जिसमें भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने बेसिर-पैर का सांप्रदायिक सोच वाला बयान दिया। दरअसल, इस सप्ताह की शुरुआत में मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफ देने वाली कर्नल सोफिया के बारे में चौंकाने वाली सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। निश्चय ही देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला सैन्य अधिकारी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। मंत्री ने असंगत रूप से पहलगाम में आतंक फैलाने वाले आतंकवादियों से दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से साम्य दर्शाने का कुत्सित प्रयास किया। हालांकि यह टिप्पणी सोमवार को की गई थी, लेकिन मंत्री शाह के खिलाफ प्राथमिकी मुश्किल से बुधवार रात दर्ज की गई। वह भी शासन द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बजाय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ही दर्ज की गई। हाईकोर्ट ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ गटर की भाषा इस्तेमाल करने के लिए मंत्री शाह को फटकार लगाई। सही मायनों में हाईकोर्ट ने न केवल मंत्री को आईना दिखाया बल्कि तमाम बेलगाम बयानबाजी करने वालों को भी सख्त संदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जब आरोपी मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से राहत के लिए गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आड़े हाथ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को चेतावनी दी कि एक मंत्री को ऐसे समय में जिम्मेदारी की भावना के साथ बोलना चाहिए, जब देश चुनौतिपूर्ण स्थिति से गुजर रहा हो। फिर कोर्ट की सख्ती के बाद शाह ने खेद व्यक्त किया। उन्होंने फिर सफाई दी कि वह कर्नल कुरैशी का अपनी बहन से ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं लौटता है, उसी तरह उनकी अनर्गल बयानबाजी से जो नुकसान हो चुका था, उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। इससे बड़ी विसंगति यह भी कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की तात्कालिक गंभीर पहल नहीं की।

यह विडंबना ही है कि पार्टी नेतृत्व इंतजार का खेल खेल रहा है। वहीं दूसरी ओर आरोपी मंत्री अपने बचाव के लिए कानूनी विकल्पों को आजमाने में व्यस्त रहा है। दरअसल, भाजपा की राजनीतिक मजबूरी यह है कि जातीय समीकरणों के हिसाब से वे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे उस राज्य में आदिवासी कल्याण मंत्री हैं जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी का पांचवां हिस्सा मौजूद है। लेकिन इतना तो तय है कि

चाहे उनका राजनीतिक प्रभाव कितना भी क्यों न हो, उन्हें सशस्त्र बलों के साथ-साथ ही महिलाओं का अपमान करने की छूट नहीं मिल जाती। पार्टी को राष्ट्र को आश्वस्त करने के लिए अनुकरणीय कार्रवाई करनी ही चाहिए। तभी समाज में यह साफ संदेश जाएगा कि हम आतंकवाद और सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ मजबूती से एकजुट हैं और नफरत फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चय ही इस मामले में अदालत की सख्त टिप्पणियां न केवल आरोपी मंत्री बल्कि उन सभी नेताओं के लिए सबक हैं जो लगातार अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। जो यह बताता है कि जनता की उदासीनता से हम कैसे-कैसे लोगों को अपना नेता चुनकर जनप्रतिनिधि संस्थाओं में भेज रहे हैं।

दरगाह-ए-आलिया नजफ-हिन्द आज भी है एकता की मिसाल

दरगाह-ए-आलिया नजफ-ए-हिन्द जोगीपुरा भारत की अहम दरगाहों में से एक है। इसकी अहमियत तब ओर भी बढ़ जाती है, जब इसे नजफ-ए-हिन्द के खिताब से नवाजा जाए। इसमें जरा भी शक नहीं है कि इस जगह मुश्किल कुशा हजरत अली के कदम आए हैं। इसी वजह से इस जगह से न सिर्फ लोगों की मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं, बल्कि ऐसे-ऐसे काम बने हैं, जो मुमकिन नहीं थे।

जोगीपुरा कैसे पहुंचे

जोगीपुरा उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नजीबाबाद में स्थित है। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से जोगीपुरा दरगाह की दूरी मात्र 12 किमी है। जोगीपुरा एक छोटा सा गांव है। सड़क के किनारे लोग बसे हुए हैं। इस गांव से एक मील की दूरी पर रायपुर सादात है। बादशाह शाहजहां के दीवान सैयद सलाउद्दीन इसी गांव के रहने वाले थे। सैयद राजू उन्हीं के बेटे थे, जिनके जमाने में जोगीपुरा में चमत्कार (मौअज्जा) हुआ। आज से लगभग 400 साल पहले यह बाग जंगलों से घिरा था। दरगाह के उत्तर में आज भी पहाड़ नजर आता है।

करिश्मा क्यों हुआ

इस बाग और जंगल की किस्मत उस समय चमकी जब इस भारत की जमीन पर हजरत अली अपने चाहने वाले से मिलने के लिए आए। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि यह जगह हमें पसंद आ गई है। यहां रोजा बनाओ, जो नहीं जानते, वे जान लें कि हजरत अली आखिरी पैगम्बर हजरत मुहम्मद मुस्तफा (स.अ.) के वली उत्तराधिकारी, शियो के इमाम, सुन्नियों के चौथे खलीफा, रसूल की बेटी जनाबे फातिमा ज़हरा के शोहर का नाम है। इराक के शहर नजफ में हजरत अली की कब्र है। हजरत अली भारत के जोगीपुरा में कैसे और क्यों आए। यह सवाल उठा रहा हूं, ताकि लोगों को इस जगह का महत्व पता चल सके। हजरत अली हर उस व्यक्ति की मदद के लिए आए, जो उन्हें पुक.ारता है। भले ही वह किसी भी धर्म का हो। अब फिर सवाल उठता है कि हजरत अली को किसकी मदद के लिए आना पड़ा। सन 1657 की बात है अपने बाप शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब ने अपने को बादशाह घोषित कर दिया, अपने पिता शाहजहां के वफादार कर्मचारियों और सिपाहियों को ढूंढ-ढूंढकर कत्ल करवा रहा था, उन्हीं में एक सैयद राजू भी थे, सैयद राजू को डर था कि औरंगजेब उन्हें नहीं छोड़ेगा वह उन्हें तलाश कर जरूर कत्ल करवाएगा, चूंकि सैयद राजू हजरत अली की शक्ति और ताकत जानते थे। इसलिए वह अपने गांव जोगीपुरा के पास के जंगल में आ गए। कोई देख न सके इसलिए वह पेड़ पर बैठ जाते और 'या अली अदरिकिनी' यानि या अली मदद करो पढ़ते रहे। अंधेरा हो जाता, जो छिपकर अपने घर आ जाते और वहां भी हजरत अली से मदद मांगते रहते। काफी दिन बीत गए थे, लेकिन उनके दिल से यह डर नहीं निकल पाया था कि औरंगजेब उनका कत्ल नहीं कराएगा वह रोजाना सवेरे इसी जंगल में आ जाते और दिल से पुकारते। नमाज में औरंगजेब के शर से बचाने की दुआएं मांगते। 'नादे अली' पढ़ा करते। सैयद राजू ने यह तय कर लिया था कि हजरत अली ही उन्हें औरंगजेब के हाथों कत्ल होने से बचा सकते हैं। इसलिए वह सोते-जागते हर दम हजरत अली को पुकारते ही रहे। एक दिन सैयद राजू की तबियत कुछ खराब हुई। वह इस हालत में नहीं थे कि जंगल में जा सकें। इसलिए उन्होंने अपने पहरेदारों को लगा दिया कि कहीं से भी कोई आए, फौरन सूचना दें, ताकि जान बचाई जा सके। हर आदमी सतर्क और चौकन्ना था। उस दिन गांव का एक बूढ़ा ब्राह्मण इसी जगह से घास काट रहा था, जिस जगह आज हजरत अली को रोजा है। घास काटते-काटते इस ब्राह्मण के कानों में घोड़े की आवाज सुनाई दी। ब्राह्मण चौंका



कौन थे सैयद राजू

सैयद राजू जोगीपुरा के रईस सलाउद्दीन के बेटे थे, उनके इंतकाल के बाद बादशाह ने उनके पुत्र सैयद राजू को उनकी जगह नियुक्त कर लिया था।

मजलिस का आगाज

हर साल की तरह इस साल भी चार दिवसीय मजलिस 22 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलेगी, जिसमें देश-विदेश से लाखों जायरीन आएंगे, दरगाह के प्रशासक गुलरेज हैदर रिज़वी ने बताया कि चार दिवसीय मजलिसों से पूर्व जायरीनों के लिए सभी इंतेजाम पूरे कर लिए जाएंगे।

इधर-उधर देखने लगा। उसे लगा कि आज कोई मुसीबत सिर पर आ गई है। उसने इरादा किया कि चल कर किसी तरह सैयद राजू को खतरे की सूचना दी जाए। अभी वह अपनी जगह से उठा ही था कि दो घुड़सवार उसके सामने आ गए उन्हें देखकर ब्राह्मण की हालत खराब हो गई। घुड़सवारों ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि मेरे सरदार तुम्हें बुला रहे हैं। घुड़सवार ब्राह्मण को सरदार के पास ले गए। सरदार ने ब्राह्मण से सवाल किया कि तुम मांगने की क्या सोच रहे हो। यह सवाल सुनकर ब्राह्मण सकपका रह गया और बहाना बनाना चाहा, मगर सरदार ने ब्राह्मण से कहा कि डरो नहीं औरंगजेब का लश्कर नहीं है। हम सैयद राजू की मदद करने वाले हैं। घराबाओ नहीं फौरन जाओ और सैयद राजू से कहो कि जिसको तुम रात-दिन पुकारते हो, वह आज आए हैं। यह भी कह देना कि यह जगह हमें पसंद आई है तुम यहां हमारे नाम से एक रोजा बनाना। बूढ़े ब्राह्मण ने सरदार के हुक्म को सुनकर इतना कहा कि मेरी आंखों में रोशनी कम है, इसलिए मैं सैयद राजू के पास जल्दी नहीं पहुंच सकता। सरकार ने कहा कि तुम आंख बंद करो और थोड़ी देर में आंखें खोली, तो रोशनी सही हो चुकी थी। यह देख ब्राह्मण सैयद राजू को बुलाने के लिए उनके मकान की तरफ भागा और सारा हाल सैयद राजू को बताया। सैयद राजू यह सुनकर समझ गए कि कौन आया है। हजरत अली का नाम लेते हुए वह जंगल की तरफ भागे। उन्हें भागते देखकर उनके चाहने वाले भी उनके पीछे भागने लगे। सैयद राजू ने लोगों को मना किया पर लोग नहीं माने। आखिर सैयद राजू अब उस जगह पहुंचे, तो उन्हें वहां कोई नकाबपोश नजर नहीं आया। सैयद राजू को उस जगह घोड़े की टाप के निशान और घोड़े के मुंह से निकला झाग दिखा ई दियां वह इस जगह बैठकर बहुत देर तक रोए। घोड़े की टाप के निशान को सुरक्षित कर लिया। चौकी के इर्द-गिर्द रोजा बनवाया गया।

रोजे की तामीर

जंगल में रोजे का निर्माण करना आसान काम नहीं था, लेकिन यह काम हजरत अली की मदद से बड़ी आसानी से हो गया। रोजे के निर्माण का काम कब शुरू हुआ। इस बारे में कोई तारीख नहीं मिलती। इस जगह पर और खुदाई की गई, तो पानी का चश्मा निकला। इस पानी से मरीजों को शिफा मिलती है। इस चश्मे का पानी हल्का मीठा है।

सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर- 9837776610
email id-ziaabbaszaidist@gmail.com

ज़िया अब्बास ज़ैदी

Greenway Modern Sr. Sec. School, Roorkee

We proudly announce that Ayaz Ali (class 10th) of Greenway modern school - 2 has scored 99.2% becomes district's Second Topper.

Congratulation *to all our students of class X&XII for their great success*

CLASS 10 TOPPER

SHUBH GARG 98% · OMESH KUMAR SINGH 97.4% · ANJALI SAXENA 96.8% · ANUJ RAWAT 96.8% · NUSRA AKHTAR 96.4% · KARTIK SHARMA 95.6% · NANDINI GUPTA 95.6% · PARAG PANDEY 95.4% · SACHIDANAND 95.4% · KANISHKA 94.8% · AKSHAT RAJ SAINI 94.6% · BHAVYA VERMA 94.6% · VAISHNAVI SAINI 94.4% · VANSHIKA GIRI 94.4% · KESHAV ARORA 94.2% · DIWAKAR BHATT 94% · KALASH KHURANA 93.8% · SIMRAN PEGWAL 93.6% · SAANVI CHAUHAN 93.4%

AARAV CHOUDHARY 93.2% · AVNI TYAGI 93.2% · TEJSVI PARMAR 93.2% · ABHINAV SINGH 93% · MANHA 93% · AAROHI TYAGI 92.8% · VASU VERMA 92.6% · AKSHIT JAIN 91.8% · VIJAYANTVEER SAINI 91.6% · LOVE BHARDWAJ 91.4% · SHOURYA RAJ 91.2% · VAMIKA TYAGI 91% · MEHUL GUPTA 90.8% · AAYUSH 90.8% · DEVANSHI NORIYA 90.8% · SAMARPIT 90.8% · AKSHIT CHAUDHARY 90.4% · HIMANSHU SHUKLA 90.2%

LAVI VERMA 90% · AARAV AGARWAL 89.6% · VANSHAJ VISHAVKARMA 89.6% · JYOTSNA HYANKI 89.2% · Devanshi Shiva 89.2% · SHALLY 88.8% · DEVEN NAMDEV 88.8% · ROUNAK KUMAR PANDEY 88.8% · UMANG GOYAL 88.8% · MAITRAYEE GUPTA 88.6% · PARI 88.2% · ARUN BUDAKOTI 87.8 · PRAKHAR SAKLANI 87.8% · JASHANPREET SINGH 87.6% · DEVANSH DIXIT 87.4% · VAIBHAVI SAXENA 87.4% · KHUSHI YADAV 86.8% · SHOURYA GARG 86.6% · TARUN RAJ 86.6%

RISHIKA PAL 86.6% · RAYAN SINGH 86.2% · ANSH NEGI 86% · NAITIK CHAUHAN 85.8% · VANSHIKA CHAUHAN 85.8% · IFFAT 85.6% · VISHESH KUMAR VERMA 85.6% · ARPAN CHOUDHARY 85.4% · JASSI CHAUDHARY 85% · SUHANI 84.8% · TEJAS KUMAR LAMBA 84.6% · VANSH SAINI 84.2% · AADITYA VERMA 84.2% · KRISHNAM AGARWAL 84.2% · ARYAN SHARMA 84.2% · AKSHIT SHARMA 83.8% · AVNI RANA 83.6% · GARVIT MALHOTRA 83.4%

SHUDHANSHU RAGHUVANSHI 82.8% · AKSHIT KUMAR SAINI 82.4% · ATHARVA CHANDEL 82.2% · ARYAN 82.2% · UJJWAL SAINI 82% · SHAKSHAM PRAKASH 82% · VAIBHAV GHAGHAT 81.2% · JAYATI 81% · ANVI SAINI 80.8% · AVNI DHIMAN 80.8% · AARUSH SAINI 80.6% · DHRUVI 80.4% · AKSHAT SHARMA 80.2% · LAKSHAY KUMAR 80.2% · DEV YADAV 80%

CLASS 12 COMM TOPPER

YASHVI VERMA 96.4% · GOURI VERMA 93% · RITIK VERMA 93% · PRIYANKA WILSON 92.8% · KUNAL SAINI 92.8% · MANTHAN MEHNDIRATTA 91.4% · SHIVAM GARG 91.2% · KHUSHI TYAGI 91.2% · SHAMBHAVI 90.8% · ANUSHKA AGGARWAL 90.2% · PRIYANSHU ARYA 90% · AISHA RAWAT 88.2% · SIDDI NABIYAL 86.2% · RONAK 86%

ARNAV GOEL 86% · PRAGYA JAIN 86% · KANAK CHAUDHARY 85.6% · AALMIN 85.2% · DEV GOEL 84.6% · ANIKET SAINI 84% · ARUN RAWAT 84% · PREET SINGH RAWAT 83.8% · AKSHAT TYAGI 83.4% · NANDIKA GOYAL 82.8% · NAMRAH 82.4% · SHREYANSH TYAGI 81.4% · MARIYA YAKUB 80.8% · VANSH KUMAR 80.6%

CLASS 12 SCIENCE TOPPER

ABHAY VERMA 96.4% · SAMIKSHA 91.8% · SHARVI TOMAR 91.4% · AMAN MALIK 90.4% · DIVYANSHU GHAI 89% · HARSH KUMAR NISHAD 88.8% · PRAKHAR SINGH 87.8% · NANDINI VERMA 87.4% · TUSHAR 86.6% · GUNGUN 85.6% · SHREE SHARMA 85.6% · SAUMYA TANWAR 85.2% · JAHANVI SAINI 85% · VANSH GOYAL 85% · VANSHIKA SAINI 84.8% · AYUSHI GUPTA 84% · HARSHITA TYAGI 83% · SHUBHAM CHAUDHARY 83% · RIDANSHU 82.2% · TUSHAR MAHESHWARI 82% · SAKSHI SONAL 81.8%

Greenway Modern School-2 (Mob: 8307122122)

CLASS 10 TOPPER

AYAZ ALI 99.2% · ARYANSH KAPIL 98.8% · OZAIR ZAHEER 97% · ANJANAYA SINGH 96.4% · PARV GOYAL 94.8% · MAHJABEEN 94.4% · VISHNU PANWAR 93.6% · YES KUMAR 92.2% · SHREYASHI TIWARI 91.8% · AWANI MANI 91.2% · SHREYA SAINI 91% · SHREYA SINGH 89.2% · NATIK GARG 88.8%

VAISHNAVI DHONDIYAL 88% · SHIVAM KUMAR SINGH 87.6% · RUDRANSH 87.4% · SATENDRA SINGH 87.2% · SHAGUN CHAUHAN 87.2% · PRAGYA CHAUDHARY 86.8% · NANDINI RANA 86% · AMAAN 85.8% · MO SANIB 85.4% · GAURAVI BHANDARI 84.8% · MANIT DHALL 84% · VANSHIKA SAINI 83.2% · NOOR SABA 82.8%

VAIBHAV 81.6% · SHRISTEE KUMARI 81.2% · ANSH TYAGI 81.2% · ABHISHEK ARORA 80.6% · VANSHIKA 80.4% · MANTASHA TYAGI 80% · RAO SUMAIYA 80%

12TH COM TOPPER

ANANYA AWASTHI 95% · ANSHIKA MISHRA 92% · ARYAN VERMA 95.4% · KRISHNA SRIVASTAVA 81% · VAIBHAV SAINI 82.4% · VANSHIKA 85.2%

12 HUM TOPPER

DHANVI 97% · JIGYASA 82% · KRITIKA PUNDIR 85.6% · PAKHI BHARDWAJ 81.4% · RUDRAKSHI SHARMA 86.4% · SUHASINI SINGH 86.2% · VIDHI SAINI 89.4%

12TH SCI TOPPER

AASTHA SHARMA 81.2% · ARSH ANSARI 83.6% · ARSHLAN 82% · DEEPTI GOYAL 92% · ISBA 84.8% · PRANJAL SINGH 88.6% · VANSHIKA CHAUHARY 80.4%